

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 30—जून 5, 2015 (ज्येष्ठ 9, 1937)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30—JUNE 5, 2015 (JYAISTHA 9, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2015

वायु शाखा

सं. 133, दिनांक 12 मई 2015—राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 160सी सी/डी (एयर-III)/2011, वा. से. मु./21901/एस एस सी/पीसी/पीओ-3(ई) दिनांक 05 अगस्त 2011 के उपबंधों के अन्तर्गत निम्नलिखित अल्प सेवा कमिशन अफसरों को उनके नाम के सामने दी गयी तिथि से स्थायी कमिशन प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायुसेना

लेखा शाखा

विंग कमांडर टी आशा ज्योतिर्मयी (25038) 20 दिसम्बर 2002 से
स्क्वाड्रन लीडर मृणालिनी सिंहा (25417) 19 दिसम्बर 2003 से
स्क्वाड्रन लीडर कविता कथुरिया (25418) 19 दिसम्बर 2003 से
स्क्वाड्रन लीडर पुष्पा मिश्रा (26177) 16 जून 2005 से

प्रशासनिक शाखा

विंग कमांडर यु शालिगराम (24114) 29 जून 2001 से
विंग कमांडर भावना मेहरा (24116) 29 जून 2001 से
विंग कमांडर श्वेता रावत (24308) 21 दिसम्बर 2001 से
विंग कमांडर तरन्नुम मिसबाह (24312) 21 दिसम्बर 2001 से

विंग कमांडर रश्मि भारद्वाज (24591) 21 जून 2002 से
 विंग कमांडर अमृता वासुदेव (24596) 21 जून 2002 से
 विंग कमांडर सुखवीर कौर मिन्हास (24599) 05 जुलाई 2002 से
 विंग कमांडर वैसिनी रामचंद्रन (24608) 05 जुलाई 2002 से
 विंग कमांडर सुजाथा पोन्नुसामी (24614) 05 जुलाई 2002 से
 विंग कमांडर रिकु पॉडी (24635) 05 जुलाई 2002 से
 विंग कमांडर शिखा गर्ग (25030) 20 दिसम्बर 2002 से
 विंग कमांडर वी अजीता (25031) 20 दिसम्बर 2002 से
 विंग कमांडर निधि शर्मा (25179) 20 जून 2003 से
 विंग कमांडर ममता धारवाल (25180) 20 जून 2003 से
 विंग कमांडर रचना पुरोहित (25182) 20 जून 2003 से
 विंग कमांडर आशा वशिष्ठ (25183) 20 जून 2003 से
 विंग कमांडर शैलजा शर्मा (25184) 20 जून 2003 से
 विंग कमांडर संगीता सिकरी (25185) 20 जून 2003 से
 स्क्वाड्रन लीडर रीना बहल (25404) 19 दिसम्बर 2003 से
 स्क्वाड्रन लीडर सौरभ सूद (25405) 19 दिसम्बर 2003 से
 स्क्वाड्रन लीडर मिनाक्षी निगम (25406) 19 दिसम्बर 2003 से
 स्क्वाड्रन लीडर निर्मला त्यागी (25692) 19 जून 2004 से
 स्क्वाड्रन लीडर अंजली अय्यर (25694) 19 जून 2004 से
 स्क्वाड्रन लीडर अनिशा हतवाल (25921) 18 दिसम्बर 2004 से
 स्क्वाड्रन लीडर मंजु भास्कर (25922) 18 दिसम्बर 2004 से
 स्क्वाड्रन लीडर रोहिणी सक्सेना (25925) 18 दिसम्बर 2004 से
 स्क्वाड्रन लीडर महिमा शर्मा (25926) 18 दिसम्बर 2004 से
 स्क्वाड्रन लीडर जुली पैक्काट्ट (25927) 18 दिसम्बर 2004 से
 स्क्वाड्रन लीडर सुजाता तिवारी (25928) 18 दिसम्बर 2004 से
 स्क्वाड्रन लीडर लथिका बोलकरंदा मडियाह (26172) 16 जून 2005 से
 स्क्वाड्रन लीडर रोसेल सीलिया डी'सिल्वा (26175) 16 जून 2005 से
 स्क्वाड्रन लीडर वेद प्रकाश (26188) 23 जून 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर राजेश नांबियार (26189) 23 जून 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर एम विनय कुमार (26190) 23 जून 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर कुनियाल संतोष (26191) 23 जून 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर गगन कांत शर्मा (26192) 23 जून 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर वेगलम सतीश (26194) 23 जून 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर अजय नौटियाल (26197) 23 जून 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर रवि अहलावत (26198) 23 जून 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर जगत प्रसांत (26199) 23 जून 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर प्रतीक कुमार तैलंग (26200) 23 जून 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर पी एन सिवा सुब्रामनियम (26203) 23 जून 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर नरिंदर सिंह (26207) 23 जून 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर सोनिया रहेजा (26366) 16 दिसम्बर 2005 से
 स्क्वाड्रन लीडर जागृति चांदना (26367) 16 दिसम्बर 2005 से
 स्क्वाड्रन लीडर मंजु पांडेय (26368) 16 दिसम्बर 2005 से
 स्क्वाड्रन लीडर पी सुधा रानी (26369) 16 दिसम्बर 2005 से
 स्क्वाड्रन लीडर अरुणांधती मुरलीधर कुर्तदिकर (26370) 16 दिसम्बर 2005 से
 स्क्वाड्रन लीडर रितुश्री (26372) 16 दिसम्बर 2005 से
 स्क्वाड्रन लीडर रजनी कोस्टा (26373) 16 दिसम्बर 2005 से

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिक) शाखा

विंग कमांडर पल्लवी भराडे (24150) 27 मई 2002 से
 विंग कमांडर बर्णाली गोगोई (24151) 27 मई 2002 से
 विंग कमांडर आरती वासुदेव (24155) 27 मई 2002 से
 विंग कमांडर विनीत लांबा (24699) 26 मई 2003 से
 विंग कमांडर अवनि पांडेय (25267) 06 जुलाई 2004 से
 विंग कमांडर योगिनी महिंद्रा जोशी (25269) 06 जुलाई 2004 से
 स्क्वाड्रन लीडर डाली देवगन (25808) 26 जुलाई 2005 से
 स्क्वाड्रन लीडर परमजीत कौर (25809) 26 जुलाई 2005 से
 स्क्वाड्रन लीडर विक्रम सिंह (26257) 10 जुलाई 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर सतविंदर सिंह (26259) 10 जुलाई 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर चेतना चौधरी (26264) 10 जुलाई 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर ज्योति डी कुलकर्णी (26265) 10 जुलाई 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर रेशु सैनी (26270) 18 जुलाई 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर आलोक सिंह सचान (26396) 08 जनवरी 2007 से
 स्क्वाड्रन लीडर कपिल कुमार अग्रवाल (26887) 07 जनवरी 2012 से
 स्क्वाड्रन लीडर सुधाकर वर्मा (26891) 07 जनवरी 2012 से
 स्क्वाड्रन लीडर तरनजीत सिंह (26892) 07 जनवरी 2012 से
 स्क्वाड्रन लीडर एस राजा प्रभु (26893) 07 जनवरी 2012 से
 स्क्वाड्रन लीडर अमनदीप शर्मा (26894) 07 जनवरी 2012 से
 स्क्वाड्रन लीडर अजु कुमार रेवी (26896) 07 जनवरी 2012 से

वैमानिक इंजीनियरी (मैकेनिकल) शाखा

स्क्वाड्रन लीडर एल के टंडन (26253) 10 जुलाई 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर तेजेश चंद्रकांत शाह (26393) 08 जनवरी 2007 से
 स्क्वाड्रन लीडर वशिष्ठ पठान (26880) 07 जनवरी 2012 से
 स्क्वाड्रन लीडर एस जगन मोहन (26885) 07 जनवरी 2012 से
 स्क्वाड्रन लीडर अरुण मनोहर (26886) 07 जनवरी 2012 से

शिक्षा शाखा

स्क्वाड्रन लीडर अनुराधा शर्मा (26181) 16 जून 2005 से
 स्क्वाड्रन लीडर प्रतिभा बिष्ट (26182) 16 सितम्बर 2005 से

संभारिकी शाखा

विंग कमांडर मोऊ मण्डल (24316) 21 दिसम्बर 2001 से
 विंग कमांडर स्वाति जोशी (25034) 20 दिसम्बर 2002 से
 स्क्वाड्रन लीडर शालिनी आनन्द (25411) 19 दिसम्बर 2003 से
 स्क्वाड्रन लीडर कामना खत्री (25413) 19 दिसम्बर 2003 से
 स्क्वाड्रन लीडर सुमिशा प्रधान (25414) 19 दिसम्बर 2003 से
 स्क्वाड्रन लीडर कुलजिंदर हुंडाल (25930) 18 दिसम्बर 2004 से
 स्क्वाड्रन लीडर सीमा कनौजिया (25931) 18 दिसम्बर 2004 से
 स्क्वाड्रन लीडर रजनी गुप्ता (26377) 16 दिसम्बर 2005 से
 स्क्वाड्रन लीडर शांता मिश्रा (26378) 16 दिसम्बर 2005 से
 स्क्वाड्रन लीडर अमृत कौर चानी (26379) 16 दिसम्बर 2005 से
 स्क्वाड्रन लीडर अंजली दिक्षित (26380) 16 दिसम्बर 2005 से
 स्क्वाड्रन लीडर नीना भाटी (26381) 16 दिसम्बर 2005 से

राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 160सी सी/डी (एयर-III)/2011, वा. से. मु./21901/एस एस सी/पीसी/पीओ-3(ई) दिनांक 05 अगस्त 2011 के उपबंधों के अन्तर्गत निम्नलिखित अल्प सेवा कमिशन अफसरों को दिनांक

01 सितम्बर 2011 से पुनर्पदस्थापित करते हुए तथा उनके प्रारम्भिक अल्प सेवा कमिशन की अवधि पूर्ण होने पर, उनके नाम के सामने दी गयी तिथि से स्थायी कमिशन प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायुसेना

लेखा शाखा

स्क्वाड्रन लीडर अर्चना रोजर (26180) 17 जून 2005 से

प्रशासनिक शाखा

विंग कमांडर वंदना हतवाल (23646) 17 जून 2000 से

विंग कमांडर रुचि कुशवाहा भुल्लर (23941) 24 मई 2001 से

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिक) शाखा

विंग कमांडर वानी मिश्रा (23699) 29 मई 2001 से

स्क्वाड्रन लीडर आभा मेंदीरत्ता (25804) 26 जुलाई 2005 से

शिक्षा शाखा

विंग कमांडर प्रिति लावले (23648) 17 जून 2000 से

संभारिकी शाखा

स्क्वाड्रन लीडर ऋचा मार्कण्डेय (25929) 18 दिसम्बर 2004 से

एस के खनूजा

विंग कमांडर

जेडीपीओ-3(ई)

संख्या 134, दिनांक 13 मई 2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

सेना डाक सेवा कोर

नायब सूबेदार/लिपिक (एस डी) से सूबेदार/लिपिक (एस डी)

नायब सूबेदार/लिपिक (एस डी)	राजेंद्र प्रसाद	(जे सी-834961 पी)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार/लिपिक (एस डी)	विजय कुमार यादव	(जे सी-834962 एक्स)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार/लिपिक (एस डी)	भारत भूषन	(जे सी-834963 ए)	14 मार्च 2014*
नायब सूबेदार/लिपिक (एस डी)	महेश गोस्वामी	(जे सी-834964 एच)	05 मार्च 2014*
नायब सूबेदार/लिपिक (एस डी)	जी मूर्ति	(जे सी-834965 एल)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार/लिपिक (एस डी)	मनिक्कवेल पी	(जे सी-834980 ए)	01 मार्च 2014

*(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 14 से दी जायेगी)

ऋषि पाल सिंह नेगी

अवर सचिव

सेना विभाग

संख्या 135, दिनांक 14 मई 2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फैंट्री

सिख रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार गुलजार सिंह	(जे सी 499532एन)	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार अजीत सिंह	(जे सी 499486के)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार जगतार सिंह	(जे सी 500128एन)	30 अगस्त 2014

सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014

नायब सूबेदार जगरूप सिंह	(जे सी 500130एल)	12 सितम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014		
नायब सूबेदार हरजिन्दर सिंह	(जे सी 500267एक्स)	20 अगस्त 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014		
नायब सूबेदार कुलदीप सिंह	(जे सी 500289डब्ल्यू)	02 सितम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014		
नायब सूबेदार अमरीतपाल	(जे सी 500362के)	22 अगस्त 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014		
नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह	(जे सी 500352ए)	28 अगस्त 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014		
नायब सूबेदार जसबीर सिंह	(जे सी 500392एफ)	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014		
नायब सूबेदार सुखदेव सिंह	(जे सी 500412के)	01 अगस्त 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014		
नायब सूबेदार किकर सिंह	(जे सी 500415एक्स)	19 अगस्त 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014		
नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह	(जे सी 500416ए)	19 अगस्त 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014		
नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह	(जे सी 500473एफ)	06 अक्टूबर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014		
नायब सूबेदार मुख्तार सिंह	(जे सी 500395पी)	18 अक्टूबर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014		
नायब सूबेदार हरजीत सिंह	(जे सी 500479एच)	01 नवम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014		
नायब सूबेदार राजबिन्दर सिंह	(जे सी 500545ए)	21 अगस्त 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014		
सूबेदार लिपिक के रैंक में		
नायब सूबेदार लिपिक जगदीश प्रसाद	(जे सी 500242एल)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार लिपिक रविन्द्र सिंह	(जे सी 500331के)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार लिपिक नंदकिशोर पाठक	(जे सी 500332एम)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार लिपिक ठाकुर सिंह	(जे सी 500333पी)	01 नवम्बर 2014
सूबेदार मेजर के रैंक में		
सूबेदार शमशेर सिंह	(जे सी 499260वाई)	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार के रैंक में		
नायब सूबेदार कुलबीर सिंह	(जे सी 500411एफ)	25 अगस्त 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जून 2014		
नायब सूबेदार सतिन्दर सिंह	(जे सी 500475एम)	17 सितम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014		
नायब सूबेदार बलवंत सिंह	(जे सी 500491के)	10 नवम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अगस्त 2014		
नायब सूबेदार अवतार सिंह	(जे सी 500178वाई)	03 सितम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार जगदेव सिंह	(जे सी 500271ए)	30 सितम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		

नायब सूबेदार जसपाल सिंह	(जे सी 500296एम)	19 अक्टूबर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार धर्मेन्द्र सिंह	(जे सी 500476पी)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार खुशपाल सिंह	(जे सी 500531ए)	20 दिसम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार दिलबाग सिंह	(जे सी 500276वाई)	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार दिलबाग सिंह	(जे सी 500384एच)	22 दिसम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार गुरसेवक सिंह	(जे सी 500595एल)	03 जनवरी 2015
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार बलजीत सिंह	(जे सी 500477एक्स)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार सतनाम सिंह	(जे सी 500684के)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार जसविन्दर सिंह	(जे सी 500322एच)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार मोहिन्द्र सिंह	(जे सी 500343वाई)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह	(जे सी 500393के)	03 दिसम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014		
नायब सूबेदार गुरप्रीत सिंह	(जे सी 500423डब्ल्यू)	19 नवम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014		
नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह	(जे सी 500454डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार बलकार सिंह	(जे सी 500520एन)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह	(जे सी 499740एच)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार जसवीर सिंह	(जे सी 500388वाई)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार कुलदीप सिंह	(जे सी 500389एफ)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार जरनैल सिंह	(जे सी 500401एक्स)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार गुरमैल सिंह	(जे सी 500418एल)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार दर्शन सिंह	(जे सी 500435एल)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह	(जे सी 500437डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार बलजीत सिंह	(जे सी 500442एफ)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार सुखदेव सिंह	(जे सी 500463एक्स)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार सतनाम सिंह	(जे सी 500460के)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार जसवंत सिंह	(जे सी 500471डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार भुपिन्दर सिंह	(जे सी 500485डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार पियारा सिंह	(जे सी 500534एन)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार हरदीप सिंह	(जे सी 500553वाई)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार गुरमीत सिंह	(जे सी 500554एफ)	01 जनवरी 2015
सूबेदार (आर टी) के रैंक में		
नायब सूबेदार (आर टी) हरजीत सिंह	(जे सी 499435डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015
सूबेदार के रैंक में		
नायब सूबेदार निशान सिंह	(जे सी 500426के)	14 अक्टूबर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह	(जे सी 500449एल)	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		

[illegible]

नायब सूबेदार निर्भय सिंह	(जे सी 500299ए)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार मंजित सिंह	(जे सी 500315एम)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार सतनाम सिंह	(जे सी 500436एन)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार गुरमीत सिंह	(जे सी 500518डब्ल्यू)	05 नवम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014		
नायब सूबेदार करतार सिंह	(जे सी 500129डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार निशान सिंह	(जे सी 500144एल)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह	(जे सी 500137पी)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार परमजीत सिंह	(जे सी 500154पी)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार गुरमेल सिंह	(जे सी 500140पी)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार जगतार सिंह	(जे सी 500148एफ)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार शिव सिंह	(जे सी 500183के)	08 सितम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार लाभ सिंह	(जे सी 500208एल)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार हरजीत सिंह	(जे सी 500220एम)	10 नवम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार परमजीत सिंह	(जे सी 500282एम)	02 सितम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार परमजीत सिंह	(जे सी 500272एच)	07 अक्टूबर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार जसदेव सिंह	(जे सी 500273एल)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार गुरप्रीत सिंह	(जे सी 500292डब्ल्यू)	03 सितम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार अमरीक सिंह	(जे सी 500298एक्स)	02 सितम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार मलकित सिंह	(जे सी 500353एच)	23 सितम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार मंजित सिंह	(जे सी 500370एच)	03 सितम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार गुरबचन सिंह	(जे सी 500374वाई)	07 अक्टूबर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार हरदेव सिंह	(जे सी 500402ए)	15 अक्टूबर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार जसविन्दर सिंह	(जे सी 500433ए)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार सरबजीत सिंह	(जे सी 500434एच)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार हरदीप सिंह	(जे सी 500424वाई)	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार सिकन्दर सिंह	(जे सी 500425एफ)	07 अक्टूबर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार कश्मीर सिंह	(3394428के अब जे सी 500915पी)	29 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014		
हवलदार दर्शन सिंह	(3393245पी अब जे सी 500916एक्स)	20 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अगस्त 2014		

हवलदार सुखपाल सिंह	(3392968के अब जे सी 500917ए)	01 सितम्बर 2014
हवलदार जगसीर सिंह	(3393359एम अब जे सी 500918एच)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
हवलदार मोहिन्दर सिंह	(3393147एफ अब जे सी 500919एल)	05 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
हवलदार जसबीर सिंह	(3393586एम अब जे सी 500920ए)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
हवलदार राजिन्दर सिंह	(3396003के अब जे सी 500921एच)	28 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 सितम्बर 2014		
हवलदार जसकरन सिंह	(3393170पी अब जे सी 500922एल)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 सितम्बर 2014		
हवलदार रविन्दरपाल सिंह	(3396230के अब जे सी 500923एन)	04 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014		
हवलदार अमरीक सिंह	(3396629एफ अब जे सी 500924डब्ल्यू)	18 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014		
हवलदार गुरतार सिंह	(3393191एल अब जे सी 500925वाई)	01 नवम्बर 2014
हवलदार काबल सिंह	(3393349एच अब जे सी 500926एफ)	01 नवम्बर 2014
हवलदार प्रगट सिंह	(3393351ए अब जे सी 500927के)	01 नवम्बर 2014
हवलदार कुलविन्दर सिंह	(3395329एन अब जे सी 500928एम)	03 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014		
हवलदार कवलजीत सिंह	(3394770के अब जे सी 500929पी)	03 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014		
हवलदार कुलतार सिंह	(3393132वाई अब जे सी 500930के)	01 नवम्बर 2014
हवलदार सतिन्द्र पाल सिंह	(3394600ए अब जे सी 500931एम)	01 नवम्बर 2014
हवलदार अमरीक सिंह	(3396620एम अब जे सी 500932पी)	06 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014		
हवलदार हरदीप सिंह	(3396837डब्ल्यू अब जे सी 500933एक्स)	06 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014		
हवलदार सवरण सिंह	(19001493के अब जे सी 500934ए)	27 अगस्त 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 सितम्बर 2013		
हवलदार गुरचरण सिंह	(3393506के अब जे सी 500935एच)	04 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
हवलदार मनजीत सिंह	(3393533एन अब जे सी 500936एल)	11 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
हवलदार मलकीयत सिंह	(3394237पी अब जे सी 500937एन)	03 जनवरी 2015
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 सितम्बर 2014		
हवलदार सतवंत सिंह	(3395832एल अब जे सी 500938डब्ल्यू)	30 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014		
हवलदार सुरजीत सिंह	(3394610के अब जे सी 500939वाई)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014		
हवलदार गुरनाम सिंह	(3393614एन अब जे सी 500940एन)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014		

हवलदार इन्कलाब सिंह	(3395480वाई अब जे सी 500941डब्ल्यू)	05 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014		
हवलदार राजिन्दर सिंह	(3395613के अब जे सी 500942वाई)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014		
हवलदार सुरजीत सिंह	(3395666एफ अब जे सी 500943एफ)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014		
हवलदार विजय सिंह	(3395660एच अब जे सी 500944के)	05 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014		
हवलदार सुखदीप सिंह	(3396090एच अब जे सी 500945एम)	05 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014		
हवलदार गुरदीप सिंह	(3393513ए अब जे सी 500946पी)	29 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014		
हवलदार अमरजीत सिंह	(3395835वाई अब जे सी 500947एक्स)	01 नवम्बर 2014
हवलदार सुरजीत सिंह	(3394667वाई अब जे सी 500948ए)	01 नवम्बर 2014
हवलदार तलविन्दर सिंह	(3394699एफ अब जे सी 500949एच)	06 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 नवम्बर 2014		
हवलदार दर्शन सिंह	(3393338डब्ल्यू अब जे सी 500950एक्स)	01 जनवरी 2015
हवलदार सुखविन्दर सिंह	(3396220ए अब जे सी 500951ए)	01 जनवरी 2015
हवलदार कुलविन्दर सिंह	(3394721एफ अब जे सी 500952एच)	01 जनवरी 2015
हवलदार शमशेर सिंह	(3394794एन अब जे सी 500953एल)	02 जनवरी 2015
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015		
हवलदार जगजीत सिंह	(3393727डब्ल्यू अब जे सी 500954एन)	01 जनवरी 2015
हवलदार हरदीप सिंह	(3395412एल अब जे सी 500955डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015
हवलदार गुरमीत सिंह	(3395894एल अब जे सी 500956वाई)	01 जनवरी 2015
हवलदार परमजीत सिंह	(3395611वाई अब जे सी 500957एफ)	01 जनवरी 2015

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक नवीन सिंह	(3395983के अब जे सी 500958के)	01 जनवरी 2015
------------------------	-------------------------------	---------------

महार रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार लहाने रामदास दौलतराव	जे. सी. 569678एफ	01 जनवरी 2013
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2013)		

सूबेदार काम्बले अकाश रामचंद्र	जे. सी. 569198एक्स	05 मार्च 2013
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 31 जनवरी 2013)		

सूबेदार लखविंदर सिंह	जे. सी. 569262के	03 जुलाई 2013*
----------------------	------------------	----------------

सूबेदार जनक सिंह भंडारी	जे. सी. 569524पी	01 फरवरी 2013*
-------------------------	------------------	----------------

सूबेदार हरमेश सिंह	जे. सी. 569333ए	02 फरवरी 2013*
--------------------	-----------------	----------------

*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2013)

सूबेदार अंगद कुमार सिंह	जे. सी. 569547डब्ल्यू	01 मार्च 2013
-------------------------	-----------------------	---------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2013)

सूबेदार लेखी राम शर्मा	जे. सी. 569431ए	01 मई 2013
------------------------	-----------------	------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2013)

सूबेदार खंडारे संजय गोपालराव	जे. सी. 569508एक्स	03 जून 2013**
------------------------------	--------------------	---------------

सूबेदार	रणभीर सिंह	जे. सी. 569641ए	03 जून 2013**
सूबेदार	वर्षे दत्तात्रय बापु	जे. सी. 569772एल	01 जून 2013**
**(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2013)			
सूबेदार	सुखदेव सिंह	जे. सी. 569683एम	02 सितम्बर 2013
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2013)			
सूबेदार	संतबीर सिंह	जे. सी. 569582वाई	01 अक्टूबर 2013
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2013)			
सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में			
सूबेदार लिपिक	इन्द्र पाल सिंह	जे. सी. 569883 एच	11 नवम्बर 2013*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
सूबेदार लिपिक	नंद लाल तिबारी	जे. सी. 569825 वाई	02 दिसम्बर 2013#
#(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)			
सूबेदार (लिपिक) के रैंक में			
नायब सूबेदार लिपिक	श्याम लाल	जे. सी. 570591 एम	02 सितम्बर 2013*
* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार लिपिक	सुनील कुमार हरित	जे. सी. 570592 पी	01 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार लिपिक	दुरगेश कुमार बाजपई	जे. सी. 570632 एल	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार लिपिक	बलदेव राज जासल	जे. सी. 570633 एन	09 दिसम्बर 2013#
# (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार लिपिक	संजय कुमार	जे. सी. 570637 के	13 जनवरी 2014 @
@ (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार लिपिक	अशोक कुमार गर्ग	जे. सी. 570638 एम	04 फरवरी 2014 +
+ (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार लिपिक	हुकम चंद	जे. सी. 570667 एफ	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार लिपिक	धनवीर सिंह	जे. सी. 570682 डब्ल्यू	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार लिपिक	सुमेर सिंह शौरत	जे. सी. 570668 के	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार लिपिक	केवल किशन	जे. सी. 570669 एम	01 जुलाई 2014 ^
^ (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार लिपिक	कमलेश ओझा	जे. सी. 570673 पी	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार लिपिक	लाल बहादुर सिंह कुश्वाहा	जे. सी. 570674 एक्स	30 जुलाई 2014 ##
## (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 जुलाई 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार लिपिक	रिन्दू चरण गोशाल	जे. सी. 570703 एफ	18 अगस्त 2014 @@
@@ (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार लिपिक	शम्भू राय	जे. सी. 570717 एफ	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार लिपिक	कश्मीर लाल	जे. सी. 570718 के	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार लिपिक	शपिन्द्र सिंह डडवाल	जे. सी. 570719 एम	10 फरवरी 2015**

नायब सूबेदार लिपिक	सदा नंदा कोले	जे. सी. 57072 एफ	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार लिपिक	काले दिलीप बाबूराव	जे. सी. 570737 पी	02 फरवरी 2015**

** (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार	हजारे संजय कृष्णात	जे. सी. 570839एल	17 नवम्बर 2013*
नायब सूबेदार	मेशराम पृथ्वीराज हरिभाऊ	जे. सी. 570788एच	24 जुलाई 2013*
नायब सूबेदार	रघुविर सिंह	जे. सी. 570871ए	16 जून 2013*
नायब सूबेदार	गायकवाड दत्तात्रय संभाजी	जे. सी. 570881के	05 जून 2013*
नायब सूबेदार	पगारे सुनिल खारभारी	जे. सी. 570902पी	01 जून 2013*
नायब सूबेदार	कन्वर रविन्दर	जे. सी. 570886एच	18 नवम्बर 2013*

* (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2013)

नायब सूबेदार	जसपाल सिंह	जे. सी. 570341एल	20 जनवरी 2014@
नायब सूबेदार	अठवले राजाभाऊ नानाभाऊ	जे. सी. 570651डब्ल्यू	23 जून 2013@

@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 23 जून 2012)

नायब सूबेदार	रविंद्रा सिंह	जे. सी. 570342एन	20 जनवरी 2014#
नायब सूबेदार	बलवंत सिंह	जे. सी. 570663एल	04 अक्टूबर 2013#
नायब सूबेदार	रोमेश चन्दर	जे. सी. 570765एफ	07 अगस्त 2013#

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2013)

नायब सूबेदार	देवेन्द्रा कुमार सिंह	जे. सी. 570360डब्ल्यू	29 अगस्त 2013
--------------	-----------------------	-----------------------	---------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 07 जुलाई 2013)

नायब सूबेदार	केशव देव	जे. सी. 570380के	20 जनवरी 2014+
नायब सूबेदार	विजया सिंह	जे. सी. 570381एम	08 फरवरी 2014+

+ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 10 जुलाई 2013)

नायब सूबेदार	अचिंता कुमार मण्डल	जे. सी. 570378एम	01 अगस्त 2013@@
नायब सूबेदार	नरेन्द्रा प्रताप सिंह	जे. सी. 570523वाई	07 अगस्त 2013@@
नायब सूबेदार	प्रकाश कुमार रॉय	जे. सी. 570519डब्ल्यू	07 अगस्त 2013@@
नायब सूबेदार	जगतार सिंह	जे. सी. 570675ए	04 दिसम्बर 2013@@
नायब सूबेदार	सरबेश्वर सहानी	जे. सी. 570766के	05 सितम्बर 2013@@

@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2013)

नायब सूबेदार	प्रकाश चंद	जे. सी. 570479ए	05 फरवरी 2014
--------------	------------	-----------------	---------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 05 अगस्त 2013)

नायब सूबेदार	यशवंत सिंह	जे. सी. 570472डब्ल्यू	01 सितम्बर 2013##
नायब सूबेदार	जरनैल सिंह	जे. सी. 570473वाई	01 सितम्बर 2013##
नायब सूबेदार	चरण दास	जे. सी. 570506वाई	01 सितम्बर 2013##
नायब सूबेदार	संजिव कुमार भारद्वाज	जे. सी. 570557एम	16 सितम्बर 2013##
नायब सूबेदार	निर्मल सिंह	जे. सी. 570763डब्ल्यू	23 सितम्बर 2013##
नायब सूबेदार	कैलाश चन्द्रा	जे. सी. 570770एम	05 सितम्बर 2013##

नायब सूबेदार	जितेन्दर कुमार	जे. सी. 570847के	13 सितम्बर 2013##
नायब सूबेदार	ओगले तुकाराम सुदाम	जे. सी. 570848एम	05 सितम्बर 2013##
नायब सूबेदार	राजेंद्रा कुमार	जे. सी. 570859वाई	12 सितम्बर 2013##

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2013)

नायब सूबेदार	परमजित सिंह	जे. सी. 570556के	18 सितम्बर 2013
--------------	-------------	------------------	-----------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 15 सितम्बर 2013)

नायब सूबेदार	रमेश सिंह	जे. सी. 570433एक्स	07 अक्टूबर 2013\$\$
नायब सूबेदार	विक्रम चंद	जे. सी. 570462एम	10 अक्टूबर 2013\$\$
नायब सूबेदार	हरजिन्दर सिंह	जे. सी. 570480पी	26 जनवरी 2014\$\$
नायब सूबेदार	सरनमोय चक्राबोर्ती	जे. सी. 570635वाई	01 अक्टूबर 2013\$\$

\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2013)

नायब सूबेदार	राम रतन यादव	जे. सी. 570435एच	02 नवम्बर 2013**
नायब सूबेदार	गु#पाडा मैति	जे. सी. 570583एन	20 फरवरी 2014**
नायब सूबेदार	रंजन कुमार दास	जे. सी. 570584डब्ल्यु	01 नवम्बर 2013**
नायब सूबेदार	नरेन्द्र दत्त	जे. सी. 570636एफ	01 नवम्बर 2013**
नायब सूबेदार	रंजित कुमार दत्त	जे. सी. 570740पी	30 दिसम्बर 2013**
नायब सूबेदार	हरिष चन्द्रा उनियाल	जे. सी. 570679डब्ल्यु	25 नवम्बर 2013**
नायब सूबेदार	गब्बर सिंह	जे. सी. 570729डब्ल्यु	20 जनवरी 2014**
नायब सूबेदार	चरन सिंह	जे. सी. 570736एम	12 नवम्बर 2013**

** (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2013)

नायब सूबेदार	लाल सिंह चुफाल	जे. सी. 570575पी	03 नवम्बर 2013
--------------	----------------	------------------	----------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 03 नवम्बर 2013)

नायब सूबेदार	काम्बले संजय भाऊदास	जे. सी. 570755एक्स	02 दिसम्बर 2013
--------------	---------------------	--------------------	-----------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 05 नवम्बर 2013)

नायब सूबेदार	हिवाले सुनिल ओंकार	जे. सी. 570577ए	02 दिसम्बर 2013@#
नायब सूबेदार	हर्ष बहादुर बाम	जे. सी. 570600एच	02 दिसम्बर 2013@#
नायब सूबेदार	बलबीर सिंह यादव	जे. सी. 570658ए	10 फरवरी 2014@#
नायब सूबेदार	दलजित सिंह	जे. सी. 570756ए	21 दिसम्बर 2013@#
नायब सूबेदार	नरेन्द्रा पाल सिंह बिष्ट	जे. सी. 570907एन	01 दिसम्बर 2013@#

@# (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2013)

नायब सूबेदार	तिरथ राज सिंह	जे. सी. 570535एन	02 दिसम्बर 2013
--------------	---------------	------------------	-----------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 02 दिसम्बर 2013)

नायब सूबेदार	गेदम दिनेश देवनाथ	जे. सी. 570419एल	04 जनवरी 2014#*
नायब सूबेदार	राजबीर सिंह	जे. सी. 570597एन	03 दिसम्बर 2013#*

#* (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 03 दिसम्बर 2013)

नायब सूबेदार	रबि नारायण सामल	जे. सी. 570909वाई	28 जनवरी 2014
--------------	-----------------	-------------------	---------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 29 दिसम्बर 2013)

नायब सूबेदार	उम्मेद सिंह राठोड	जे. सी. 570481एक्स	20 जनवरी 2014@\$
--------------	-------------------	--------------------	------------------

नायब सूबेदार	फुल चंद शर्मा	जे. सी. 570614एच	01 जनवरी 2014@\$
नायब सूबेदार	रुकांता कुमार माझी	जे. सी. 570585वाई	02 जनवरी 2014@\$
नायब सूबेदार	रमेश मोहन सिंह	जे. सी. 570615एल	01 जनवरी 2014@\$
नायब सूबेदार	प्रभुलाल सकलानी	जे. सी. 570686एम	10 फरवरी 2014@\$
नायब सूबेदार	नेतार सिंह	जे. सी. 570882एक्स	24 जून 2014@\$

@\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2014)

नायब सूबेदार	घन श्याम सिंह	जे. सी. 570647एन	07 जनवरी 2014
--------------	---------------	------------------	---------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 07 जनवरी 2014)

नायब सूबेदार	गुरदिप सिंह	जे. सी. 570573के	09 जनवरी 2014
--------------	-------------	------------------	---------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 09 जनवरी 2014)

नायब सूबेदार	मकवाना शेन्टील भाई दालजी भाई	जे. सी. 570683वाई	21 फरवरी 2014
--------------	------------------------------	-------------------	---------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 17 जनवरी 2014)

नायब सूबेदार	दिबाकर महापात्रा	जे. सी. 570678एन	27 फरवरी 2014
--------------	------------------	------------------	---------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 19 जनवरी 2014)

नायब सूबेदार	सुरेश सिंह	जे. सी. 570486डब्ल्यू	01 फरवरी 2014%
नायब सूबेदार	राजिन्दर सिंह	जे. सी. 570487वाई	08 अगस्त 2014%
नायब सूबेदार	रतन लाल जाट	जे. सी. 570560एम	01 फरवरी 2014%
नायब सूबेदार	हरि राम नायक	जे. सी. 570701डब्ल्यू	01 फरवरी 2014%
नायब सूबेदार	गिरधारी लाल	जे. सी. 570702वाई	04 फरवरी 2014%
नायब सूबेदार	पुंडकर रामेश्वर जानुजी	जे. सी. 570823ए	08 अप्रैल 2014%
नायब सूबेदार	काम्बले प्रकाश सुखदेव	जे. सी. 570824एच	12 मई 2014%
नायब सूबेदार	स्वपन कुमार पाल	जे. सी. 570747वाई	04 फरवरी 2014%
नायब सूबेदार	हकिम सिंह सोलंकी	जे. सी. 570749के	01 फरवरी 2014%
नायब सूबेदार	दान सिंह	जे. सी. 570858डब्ल्यू	26 जुलाई 2014%
नायब सूबेदार	अरविंद सिंह यादव	जे. सी. 570878के	08 फरवरी 2014%
नायब सूबेदार	तरसेम सिंह	जे. सी. 570913एफ	01 फरवरी 2014%

% (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2014)

नायब सूबेदार	निर्मले रमेश रावजी	जे. सी. 570928के	02 फरवरी 2014
--------------	--------------------	------------------	---------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 02 फरवरी 2014)

नायब सूबेदार	प्रेम राम	जे. सी. 570488एफ	21 फरवरी 2014%%
नायब सूबेदार	जोगा राम	जे. सी. 570469ए	11 अप्रैल 2014%%
नायब सूबेदार	शिरोमणि सिंह भदोरीया	जे. सी. 570528एक्स	21 मार्च 2014%%

%% (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 07 फरवरी 2014)

नायब सूबेदार	राज कुमार यादव	जे. सी. 570529ए	21 मार्च 2014
--------------	----------------	-----------------	---------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 23 फरवरी 2014)

नायब सूबेदार	सुभ राम	जे. सी. 570530पी	27 मई 2014@*
नायब सूबेदार	सुरेश चन्द्रा	जे. सी. 570543एम	21 मार्च 2014@*
नायब सूबेदार	मुकन्दर सिंह	जे. सी. 570691एक्स	12 मार्च 2014@*

नायब सूबेदार	सुरेश सिंह धामी	जे. सी. 570687पी	01 अप्रैल 2014@*
नायब सूबेदार	कमलेश चन्द्रा	जे. सी. 570698एफ	04 मार्च 2014@*
नायब सूबेदार	निकल कुमार	जे. सी. 570704के	07 अप्रैल 2014@*
नायब सूबेदार	प्रबिर कुमार दत्त	जे. सी. 570713एल	01 मार्च 2014@*
नायब सूबेदार	सुरेश चन्द	जे. सी. 571008वाई	01 मार्च 2014@*
नायब सूबेदार	राजेन्द्र सिंह	जे. सी. 570974वाई	01 मार्च 2014@*

@* (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2014)

नायब सूबेदार	जगमोहन सिंह नेगी	जे. सी. 570805एक्स	07 अगस्त 2014
--------------	------------------	--------------------	---------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 16 मार्च 2014)

नायब सूबेदार	सालवे जितेंद्र प्रभाकर	जे. सी. 570929एम	01 अप्रैल 2014
--------------	------------------------	------------------	----------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 29 मार्च 2014)

नायब सूबेदार	अश्वनी कुमार	जे. सी. 570655एम	26 मई 2014#\$
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र कुमार यादव	जे. सी. 570723पी	21 जून 2014#\$
नायब सूबेदार	भुर सिंह	जे. सी. 570692ए	30 जून 2014#\$
नायब सूबेदार	देब कुमार प्रहराज	जे. सी. 570772एक्स	01 जून 2014#\$
नायब सूबेदार	दिना बंधु पान्डा	जे. सी. 570776एन	09 अप्रैल 2014#\$
नायब सूबेदार	धर्मेन्द्र सिंह	जे. सी. 570887एल	19 मई 2014#\$

#\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2014)

नायब सूबेदार	जगत राम	जे. सी. 570693एच	26 अप्रैल 2014***
नायब सूबेदार	मोहिते विलास रघुनाथ	जे. सी. 570830डब्ल्यू	02 अप्रैल 2014***

*** (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 02 अप्रैल 2014)

नायब सूबेदार	सुशांता पटनायक	जे. सी. 570897पी	04 अप्रैल 2014
--------------	----------------	------------------	----------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 04 अप्रैल 2014)

नायब सूबेदार	काश्मीर सिंह	जे. सी. 570767एम	30 जुलाई 2014
--------------	--------------	------------------	---------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 02 मई 2014)

नायब सूबेदार	शोभन सिंह	जे. सी. 570768पी	10 जुलाई 2014
--------------	-----------	------------------	---------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 07 मई 2014)

नायब सूबेदार	जसविर सिंह	जे. सी. 570664एन	21 जून 2014'
नायब सूबेदार	चन्द्रा सिंह	जे. सी. 570715डब्ल्यू	20 जुलाई 2014'
नायब सूबेदार	गिरीष चन्द्रा	जे. सी. 570781वाई	01 जून 2014'

' (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014)

नायब सूबेदार	सनवाल सिंह	जे. सी. 570566एन	18 जून 2014
--------------	------------	------------------	-------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 15 जून 2014)

नायब सूबेदार	कदम सुहास पांडुरंग	जे. सी. 570420ए	22 अगस्त 2014
--------------	--------------------	-----------------	---------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 27 जून 2014)

नायब सूबेदार	काम्बले अशोक सताप्पा	जे. सी. 570640के	08 अगस्त 2012*
नायब सूबेदार	मदन लाल	जे. सी. 570622एफ	10 जुलाई 2013*

* (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2012)

नायब सूबेदार	प्रभात रंजन जेना	जे. सी. 570238ए	01 जुलाई 2012
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 23 जून 2012)			
नायब सूबेदार	लालजी सिंह	जे. सी. 570355एल	19 जुलाई 2012
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 25 जून 2012)			
नायब सूबेदार	काम्बले राजाराम सीधु	जे. सी. 570549एन	05 मार्च 2013**
नायब सूबेदार	ब्रम्हा दास	जे. सी. 570571वाई	20 जुलाई 2012**
**(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2013)			
नायब सूबेदार	रांका नीधी गौड़ा	जे. सी. 570567डब्ल्यू	25 अगस्त 2012
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2012)			
नायब सूबेदार	जाम्बुलकर पुनमचंद अत्माराम	जे. सी. 570426एफ	19 सितम्बर 2012
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 21 अगस्त 2012)			
नायब सूबेदार	मान सिंह	जे. सी. 570379पी	09 नवम्बर 2012@
नायब सूबेदार	वंकार मगन भाई जगा भाई	जे. सी. 570469डब्ल्यू	03 सितम्बर 2012@
नायब सूबेदार	लखविन्दर सिंह	जे. सी. 570625पी	31 अक्टूबर 2012@
@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2012)			
नायब सूबेदार	कुमार जीत	जे. सी. 570395एम	29 सितम्बर 2012
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 16 सितम्बर 2012)			
नायब सूबेदार	सरवदे व्यंकट भानुदास	जे. सी. 570458के	10 अक्टूबर 2012
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 20 सितम्बर 2012)			
नायब सूबेदार	गनपत लाल	जे. सी. 570278एफ	01 नवम्बर 2012@*
नायब सूबेदार	विंध्याचल सिंह यादव	जे. सी. 570610एम	18 अक्टूबर 2012@*
नायब सूबेदार	विरेंद्र पाल सिंह	जे. सी. 570611पी	01 अक्टूबर 2012@*
नायब सूबेदार	पवन कुमार	जे. सी. 570603डब्ल्यू	01 नवम्बर 2012@*
नायब सूबेदार	राजे सिंह	जे. सी. 570735के	18 अप्रैल 2013@*
@* (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2012)			
नायब सूबेदार	विरेंद्र दत्त	जे. सी. 570080एच	12 दिसम्बर 2012
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 12 अक्टूबर 2012)			
नायब सूबेदार	कटारे संजय शंकर	जे. सी. 570521एन	31 अक्टूबर 2012
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 31 अक्टूबर 2012)			
नायब सूबेदार	बीबे मधुकर कच#	जे. सी. 570579एल	14 जनवरी 2013#
नायब सूबेदार	घेगडमल उत्तम रंगनाथ	जे. सी. 570629एल	27 फरवरी 2013#
नायब सूबेदार	सवंत दत्तात्रय भगवान	जे. सी. 570650एन	01 नवम्बर 2012#
नायब सूबेदार	दैजे अशोक श्रीरंग	जे. सी. 570838एच	20 दिसम्बर 2012#
# (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2012)			
नायब सूबेदार	पानझाडे दिनकर प्रल्हाद	जे. सी. 570262डब्ल्यू	19 जनवरी 2013
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 03 नवम्बर 2012)			
नायब सूबेदार	सिद्धनायक सुभाष श्यापा	जे. सी. 570264एफ	19 जनवरी 2013
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 25 नवम्बर 2012)			

नायब सूबेदार	गोपनारायण सुदाम वासुदेव	जे. सी. 570265के	19 जनवरी 2013##
नायब सूबेदार	मोरे रमेश खंडू	जे. सी. 570455डब्ल्यू	03 फरवरी 2013##
नायब सूबेदार	सरकटे वसंत तुकाराम	जे. सी. 570621वाई	18 जनवरी 2013##
नायब सूबेदार	जाधव भरत भाई सामजी भाई	जे. सी. 570470एल	28 फरवरी 2013##
नायब सूबेदार	मोहिन्दर सिंह	जे. सी. 570475के	21 जनवरी 2013##
नायब सूबेदार	राजपूत जयसिंह दलपत सिंह	जे. सी. 570580ए	21 दिसम्बर 2012##

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2012)

नायब सूबेदार	महेश चंद्रा जोशी	जे. सी. 570077एच	11 दिसम्बर 2012
--------------	------------------	------------------	-----------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 11 दिसम्बर 2012)

नायब सूबेदार	सोनावने चंद्रकांत दिनकर	जे. सी. 570457एफ	01 जनवरी 2013\$
नायब सूबेदार	जितेंद्र राय	जे. सी. 570498एल	04 फरवरी 2013\$
नायब सूबेदार	रंजीत सिंह	जे. सी. 570581एच	14 मार्च 2013\$
नायब सूबेदार	विश्वा प्रिया	जे. सी. 570627ए	20 फरवरी 2013\$

\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2013)

नायब सूबेदार	ब्रम्ह दत्त	जे. सी. 570626एक्स	03 जनवरी 2013
--------------	-------------	--------------------	---------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 03 जनवरी 2013)

नायब सूबेदार	हरदेव सिंह	जे. सी. 570300एफ	09 अप्रैल 2013
--------------	------------	------------------	----------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 09 जनवरी 2013)

नायब सूबेदार	जितेंद्र नाथ महाता	जे. सी. 570499एन	04 फरवरी 2013
--------------	--------------------	------------------	---------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 30 जनवरी 2013)

नायब सूबेदार	स्वपन कुमार गैन	जे. सी. 570297एम	01 फरवरी 2013 \$*
नायब सूबेदार	बाबुलाल चौधरी	जे. सी. 570298पी	01 फरवरी 2013 \$*
नायब सूबेदार	शंकर साहू	जे. सी. 570554वाई	05 फरवरी 2013 \$*
नायब सूबेदार	सुरेश कुमार	जे. सी. 570648डब्ल्यू	01 फरवरी 2013 \$*
नायब सूबेदार	रमेश सिंह	जे. सी. 570725ए	05 मार्च 2013 \$*
नायब सूबेदार	मोहन सिंह	जे. सी. 570726एच	05 मार्च 2013 \$*

\$* (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2013)

नायब सूबेदार	धोतरे नितीन शंकर	जे. सी. 570619एफ	13 फरवरी 2013
--------------	------------------	------------------	---------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 13 फरवरी 2013)

नायब सूबेदार	मितान सिंह	जे. सी. 570312डब्ल्यू	01 अप्रैल 2013%
नायब सूबेदार	सुभाष चन्दर	जे. सी. 570468एन	08 अप्रैल 2013%
नायब सूबेदार	जगदीश सिंह	जे. सी. 570727एल	29 अप्रैल 2013%

% (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2013)

नायब सूबेदार	श्याम सिंह	जे. सी. 570421एच	30 मई 2013
--------------	------------	------------------	------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 22 अप्रैल 2013)

नायब सूबेदार	हेत राम सिंह	जे. सी. 570483एच	01 मई 2013
--------------	--------------	------------------	------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2013)

नायब सूबेदार	अजय सिंह	जे. सी. 570267पी	12 मई 2013
--------------	----------	------------------	------------

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 12 मई 2013)

नायब सूबेदार	राज कुमार यादव	जे. सी. 570358वाई	07 जून 2013
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 25 मई 2013)			
नायब सूबेदार	दोरनाल पल्ले निवृत्ती सोपानराव	जे. सी. 570505डब्ल्यू	01 जून 2013^
नायब सूबेदार	साठे किशोर रामू	जे. सी. 570545एक्स	20 जून 2013^
नायब सूबेदार	चौधरी विष्णुभाई दह्याभाई	जे. सी. 570558पी	01 जून 2013^
नायब सूबेदार	अजय प्रल्हाद जाधव	जे. सी. 570840ए	30 जून 2013^
नायब सूबेदार	काम्बले तुकाराम यल्लपा	जे. सी. 570841एच	01 जून 2013^
नायब सूबेदार	काम्बले सुहास क्रिष्णा	जे. सी. 570843एन	01 जून 2013
नायब सूबेदार	अलोक रॉय	जे. सी. 570764वाई	01 जून 2013^
नायब सूबेदार	सरोदे केदार रामा	जे. सी. 570851एम	02 जुलाई 2013^
नायब सूबेदार	श्री राम	जे. सी. 570835पी	01 जून 2013^
नायब सूबेदार	खराटे श्री क्रिष्णा सुखदेव	जे. सी. 570872एच	10 जून 2013^

^(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2013)

नायब सूबेदार	लालचंद यादव	जे. सी. 570684एफ	22 जून 2013
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 14 जून 2013)			
नायब सूबेदार	मदन लाल	जे. सी. 570685के	22 जून 2013

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 21 जून 2013)

नायब सूबेदार	पानझाडे गुलाबराव मारुती	जे. सी. 570811एल	23 जुलाई 2013
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 23 जुलाई 2013)			

नायब सूबेदार	ओम प्रकाश	जे. सी. 570393एफ	14 अगस्त 2013
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2013)			

नायब सूबेदार	प्रेम सिंह	जे. सी. 570532ए	15 अगस्त 2013
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 15 अगस्त 2013)			

नायब सूबेदार	रघुपाल सिंह	जे. सी. 570491एफ	01 सितम्बर 2013***
नायब सूबेदार	अजीत सिंह	जे. सी. 570518एन	01 सितम्बर 2013***
नायब सूबेदार	राजेश कुमार साहू	जे. सी. 570568वाई	02 सितम्बर 2013***
नायब सूबेदार	राकेश कुमार	जे. सी. 570616एन	02 सितम्बर 2013***
नायब सूबेदार	कनाई बार	जे. सी. 570634डब्ल्यू	02 सितम्बर 2013***

*** (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2013)

राजपूताना राईफल्स
नायब सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कपिल तोमर	(16017044डब्ल्यू अब जेसी-471377एफ)	01 मार्च 2014 *01 नवम्बर 2013
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार दिलबाग सिंह	(2888580एन अब जेसी-471378के)	11 जून 2014 *01 नवम्बर 2013
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राम सिंह भाटी	(2890045एम अब जेसी-471379एम)	02 जून 2014 *01 जनवरी 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 दी जायेगी)		

नायब सूबेदार संजय कुमार सिंह	(2889280वाई अब जेसी-471380एफ)	<u>07 फरवरी 2014</u> *01 फरवरी 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जगपाल सिंह	(2888216पीअब जेसी-471381के)	<u>25 मार्च 2014</u> *01 मार्च 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार मेहाराम नायाल	(2888002वाई अब जेसी-471382एम)	<u>14 जून 2014</u> *12 मार्च 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 मार्च 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार पृथ्वी सिंह	(2888944पी अब जेसी-471383पी)	<u>29 अप्रैल 2014</u> *21 मार्च 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 मार्च 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लिपिक संतोष कुमार स्वाईन	(2889271एक्स अब जेसी-471384एक्स)	<u>01 अक्टूबर 2014</u> 01 अप्रैल 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार शेर सिंह	(2889975एफ अब जेसी-471385ए)	<u>06 जून 2014</u> *01 अप्रैल 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुमेर सिंह	(2888726डब्ल्यू अब जेसी-471386एच)	<u>19 अप्रैल 2014</u> *01 अप्रैल 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सरवन सिंह	(2890013के अब जेसी-471387एल)	<u>20 मई 2014</u> *01 अप्रैल 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जगबीर सिंह	(2890920के अब जेसी-471388एन)	<u>03 अप्रैल 2014</u> 01 अप्रैल 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार महिपाल सिंह	(2890079ए अब जेसी-471389डब्ल्यू)	<u>03 अप्रैल 2014</u> *01 अप्रैल 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुखबीर सिंह	(2888817ए अब जेसी-471390एल)	<u>05 मई 2014</u> *01 अप्रैल 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार प्रदीप कुमार सिंह	(2889995पी अब जेसी-471391एन)	<u>01 मई 2014</u> *13 अप्रैल 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अप्रैल 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार रनवीर सिंह	(3991305के अब जेसी-471392डब्ल्यू)	<u>31 जुलाई 2014</u> *15 अप्रैल 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अप्रैल 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार रुपा राम	(2888221एअब जेसी-471393वाई)	<u>11 जून 2014</u> *20 अप्रैल 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अप्रैल 2014 दी जायेगी)		

नायब सूबेदार बीर सिंह	(2889336ए अब जेसी-471394एफ)	09 जून 2014 *21 अप्रैल 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अप्रैल 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार नेत्र पाल सिंह	(2886872एक्स अब जेसी-471395के)	14 जून 2014 *01 मई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार मोती राम	(2886936एक्स अब जेसी-471396एम)	14 जून 2014 01 मई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार क्रिशन सिंह	(2889673पी अब जेसी-471397पी)	01 मई 2014
नायब सूबेदार जफर अली	(2888864एक्स अब जेसी-471398एक्स)	01 मई 2014
नायब सूबेदार दवेन्द्र सिंह सिकरवार	(2887890एम अब जेसी-471399ए)	01 मई 2014
नायब सूबेदार श्योराम जाट	(2888003एफ अब जेसी-471400के)	14 जून 2014 *01 मई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार संवत सिंह	(2888496एन अब जेसी 471401एम)	02 मई 2014 *01 मई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार हनुमाना राम जाट	(2887795एम अब जेसी-471402पी)	16 मई 2014 *01 मई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सत्यपाल सिंह	(2889710एक्स अब जेसी-471403एक्स)	18 जून 2014 *01 मई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार महिपाल सिंह	(2888046डब्ल्यू अब जेसी-471404ए)	27 मई 2014 *05 मई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मई 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सूरज प्रताप सिंह तोमर	(2888609एल अब जेसी-471405एच)	13 जून 2014 *08 मई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मई 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार देरावर सिंह भाटी	(2890904एम अब जेसी-471406एल)	09 सितम्बर 2014 *13 मई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मई 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार छगन सिंह	(2886799के अब जेसी-471407एन)	13 जून 2014 *01 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सन्दीप	(16016661एम अब जेसी-471408डब्ल्यू)	01 अगस्त 2014 *01 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रमाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 दी जायेगी)		

नायब सूबेदार झब्बर मल	(2889232वाई अब जेसी-471409वाई)	09 जून 2014 *01 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार मोहन सिंह	(2888236एच अब जेसी-471410एन)	09 जून 2014 *01 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार उदल सिंह	(2888611एच अब जेसी-471411डब्ल्यू)	07 जून 2014 *01 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह	(2888656एच अब जेसी - 471412वाई)	14 जून 2014 *01 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार सुनील दत्त	(2888248एक्स अब जेसी - 471413एफ)	07 जुलाई 2014 *01 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार बलवान सिंह	(2889542के अब जेसी - 471414के)	01 जून 2014
नायब सूबेदार अमर सिंह	(2889518एन अब जेसी - 471415एम)	11 जुलाई 2014 *01 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार राजेश कुमार	(2887842एम अब जेसी - 471416पी)	30 जून 2014 *01 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार अजीत सिंह	(2888207एन अब जेसी - 471417एक्स)	01 जून 2014
नायब सूबेदार भंवर सिंह	(2890969ए अब जेसी - 471418ए)	31 जुलाई 2014 *01 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार गुरदयाल सिंह	(2890311ए अब जेसी - 471419एच)	07 जून 2014 *01 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार शौकीन	(2889706पी अब जेसी - 471420एक्स)	11 जुलाई 2014 *01 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार शोभा राम	(2889813डब्ल्यू अब जेसी - 471421ए)	11 जुलाई 2014 *01 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार जदावीर सिंह	(2888069एक्स अब जेसी - 471422एच)	02 जून 2014 *01 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 दी जाएगी)		

नायब सूबेदार युद्धवीर सिंह	(2889939डब्ल्यू अब जेसी — 471423एल)	29 अगस्त 2014 *01 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार राकेश कुमार	(2888938एफ अब जेसी — 471424एन)	04 जून 2014 *01 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार	(2889330वाई अब जेसी — 471425डब्ल्यू)	02 जून 2014 *01 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार रनवीर सिंह राठौर	(2888006पी अब जेसी — 471426वाई)	30 जुलाई 2014 *08 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार श्री राम धिनवा	(3992712वाई अब जेसी — 471427एफ)	31 जुलाई 2014 *10 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार रिजवान खान	(2888923वाई अब जेसी — 471428के)	07 सितम्बर 2014 *20 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार गोपी चंद कलेर	(2889832एफ अब जेसी — 471429एम)	07 सितम्बर 2014 *20 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार अनिल कुमार	(2890272एम अब जेसी — 471430एफ)	10 अक्टूबर 2014 *27 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार तोरन सिंह	(2888814एम अब जेसी — 471431के)	28 सितम्बर 2014 *27 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार राम बहादुर सिंह	(2890788पी अब जेसी — 471432एम)	27 सितम्बर 2014 *27 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार राकेश कुमार नेहरा	(2888966एन अब जेसी — 471433पी)	28 सितम्बर 2014 *27 जून 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जून 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार लिपिक सुरेन्द्र सिंह	(2890476वाई अब जेसी — 471434एक्स)	28 जुलाई 2014 *01 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार कुलदीप राड़	(2888734पी अब जेसी — 471435ए)	28 जुलाई 2014 *01 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 दी जाएगी)		

नायब सूबेदार नरेश पाल, सेना मेडल	(2888398एन अब जेसी — 471436एच)	04 जुलाई 2014 *01 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह तोमर	(2888294एम अब जेसी — 471437एल)	02 जुलाई 2014 *01 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार शंकर लाल भिचर	(2888783एक्स अब जेसी — 471438एन)	18 जुलाई 2014 *01 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार राज कुमार सिंह सोमवंशी	(2888889के अब जेसी — 471439डब्ल्यू)	18 जुलाई 2014 *01 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार पूसा राम	(2890595पी अब जेसी — 471440एल)	09 सितम्बर 2014 *01 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार श्याम परताप सिंह	(2888625एच अब जेसी — 471441एन)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार राज सिंह	(2888708एन अब जेसी — 471442डब्ल्यू)	03 सितम्बर 2014 *01 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार चन्द्रभान	(2888893एम अब जेसी — 471443वाई)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार ब्रजेश कुमार	(2888954वाई अब जेसी — 471444एफ)	12 सितम्बर 2014 *01 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार रोशन लाल	(2889736एम अब जेसी — 471445के)	09 जुलाई 2014 *01 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार क्रिशन कुमार यादव	(2888071पी अब जेसी — 471446एम)	25 अगस्त 2014 *01 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार राम कला	(2887972पी अब जेसी — 471447पी)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार नरेन्द्र बिदियासर	(2888909एम अब जेसी — 471448एक्स)	01 सितम्बर 2014 *01 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार मुरारी सिंह चौहान	(2888125एल अब जेसी — 471449ए)	28 अगस्त 2014 *01 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार मुकेश कुमार	(2888127डब्ल्यू अब जेसी — 471450पी)	15 सितम्बर 2014 *01 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 दी जाएगी)		

नायब सूबेदार प्यारे लाल	(2889326डब्ल्यू अब जेसी — 471451एक्स)	21 अक्टूबर 2014 *01 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार प्रेम सिंह	(2887553एक्स अब जेसी — 471452ए)	09 अगस्त 2014 *02 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार विजय कुमार सिंह कुशवाह	(2890819के अब जेसी — 471453एच)	28 सितम्बर 2014 *02 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार कप्तान सिंह	(2890153डब्ल्यू अब जेसी — 471454एल)	29 सितम्बर 2014 *04 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार अजय बहादुर सिंह	(2890816डब्ल्यू अब जेसी — 471455एन)	28 सितम्बर 2014 *10 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार शेखावत महावीर सिंह, सेना मेडल	(2889111एक्स अब जेसी — 471456डब्ल्यू)	21 अगस्त 2014 *12 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार मेधा राम	(2888306डब्ल्यू अब जेसी — 471457वाई)	29 सितम्बर 2014 *13 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार राजेन्दर सिंह राजपूत	(2889184के अब जेसी — 471458एफ)	24 सितम्बर 2014 *25 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार राज बहादुर सिंह	(2888239डब्ल्यू अब जेसी — 471459के)	09 सितम्बर 2014 *28 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार बाबु लाल जाट	(2888331पी अब जेसी — 471460वाई)	29 सितम्बर 2014 *28 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार कंवराज सिंह राठौर	(2890902एफ अब जेसी — 471461एफ)	13 अगस्त 2014 *31 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह	(2889745एन अब जेसी — 471462के)	05 अगस्त 2014 *31 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 जुलाई 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार लिपिक बीरबल सिंह	(2890419एक्स अब जेसी — 471463एम)	02 अगस्त 2014 *01 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार कुलदीप सिंह	(2889409एफ अब जेसी — 471464पी)	21 अगस्त 2014 *01 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 दी जाएगी)		

नायब सूबेदार जयविन्दर सिंह	(2887592डब्ल्यू अब जेसी — 471465एक्स)	01 सितम्बर 2014 *01 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार धीर सिंह तंवर	(2889508के अब जेसी — 471466ए)	07 अक्टूबर 2014 *01 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार सत्यपाल सिंह	(2890056वाई अब जेसी — 471467एच)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार सुमेर सिंह	(2888768एच अब जेसी — 471468एल)	30 सितम्बर 2014 *01 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार गोपाल जी सिंह	(2890063पी अब जेसी — 471469एल)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार रण सिंह चौहान	(2888711एन अब जेसी — 471470एच)	03 सितम्बर 2014 *01 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह	(2889747वाई अब जेसी — 471471एल)	03 सितम्बर 2014 *01 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार बंशी लाल, सेना मेडल	(2889343डब्ल्यू अब जेसी — 471472एन)	01 सितम्बर 2014 *01 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार शिवनाथ सिंह	(2889423एन अब जेसी — 471473डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014 *01 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार समुन्दर लाल चौधरी	(2888163एफ अब जेसी — 471474वाई)	30 सितम्बर 2014 *01 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार शिव बहादुर सिंह भदोरिया	(2886731एच अब जेसी — 471475एफ)	08 अगस्त 2014 *04 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अगस्त 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार जयपाल सिंह	(2889597एन अब जेसी — 471476के)	29 अक्टूबर 2014 *11 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अगस्त 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार अनिल कुमार	(2889560एम अब जेसी — 471477एम)	07 अक्टूबर 2014 *19 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 अगस्त 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार कर्मबीर	(2888240एल अब जेसी — 471478पी)	30 सितम्बर 2014 *19 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 अगस्त 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार लिपिक ब्रजपाल सिंह	(2890422एक्स अब जेसी — 471479एक्स)	03 सितम्बर 2014 *01 सितम्बर 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 दी जाएगी)		

नायब सूबेदार लिपिक रविन्द्र कुमार	(2890506एल अब जेसी — 471480एम)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार लिपिक अशोक सिंह पूनिया	(2888740एच अब जेसी — 471481पी)	20 सितम्बर 2014 *01 सितम्बर 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार लिपिक विद्याधर सिंह	(2888076एन अब जेसी — 471482एक्स)	02 सितम्बर 2014 *01 सितम्बर 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार लिपिक योगेश कुमार सिंह	(2890278एन अब जेसी — 471483ए)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार दिनेश कुमार	(2888436वाई अब जेसी — 471484एच)	26 सितम्बर 2014 *01 सितम्बर 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार धर्मेन्द्र सिंह परिहार	(2887661एफ अब जेसी — 471485एल)	22 सितम्बर 2014 *01 सितम्बर 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार भीम सिंह	(2892523के अब जेसी — 471486एन)	09 सितम्बर 2014 *01 सितम्बर 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह	(2888557ए अब जेसी — 471487डब्ल्यू)	09 सितम्बर 2014 *01 सितम्बर 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार विनोद सिंह	(2887907पी अब जेसी — 471488वाई)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार ऐदवीर सिंह	(2888637एक्स अब जेसी — 471489एफ)	09 सितम्बर 2014 *01 सितम्बर 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार रणवीर सिंह शेखावत	(2889514एक्स अब जेसी — 471490डब्ल्यू)	04 अक्टूबर 2014 *01 सितम्बर 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह	(2888916एच अब जेसी — 471491वाई)	01 नवम्बर 2014 *01 सितम्बर 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार अदु राम जांगु	(2889473वाई अब जेसी — 471492एफ)	12 सितम्बर 2014 *01 सितम्बर 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार रोहताश सिंह	(2888201एम अब जेसी — 471493के)	28 सितम्बर 2014 *01 सितम्बर 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार	(2889348पी अब जेसी — 471494एम)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार मनोज कुमार	(2889878के अब जेसी — 471495पी)	28 सितम्बर 2014 *01 सितम्बर 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार दिनेश सिंह भदोरिया	(2890156के अब जेसी — 471496एक्स)	27 अक्टूबर 2014 *23 सितम्बर 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 सितम्बर 2014 दी जाएगी)		

नायब सूबेदार लिपिक राकेश कुमार	(2890423ए अब जेसी — 471497ए)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार राजेश	(2888840एन अब जेसी — 471498एच)	<u>22 अक्टूबर 2014</u> *01 अक्टूबर 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह	(2888437एफ अब जेसी — 471499एल)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार कैलाश सिंह	(2888640एक्स अब जेसी — 471500पी)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार संजय कुमार सिंह	(2889285एक्स अब जेसी — 471501एक्स)	<u>27 अक्टूबर 2014</u> *01 अक्टूबर 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार विनय कुमार सिंह	(2890811एक्स अब जेसी — 471502ए)	<u>08 नवम्बर 2014</u> *01 अक्टूबर 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार श्री पाल सिंह	(2888613एन अब जेसी — 471503एच)	<u>25 अक्टूबर 2014</u> *01 अक्टूबर 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार लिपिक सत्या कुमार नागर	(2889712एल अब जेसी — 471504एल)	01 नवम्बर 2014

मद्रास रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार वी कलाइवनन	(2597974पी अब जेसी 440975एक्स)	27 दिसम्बर 2013*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार एम शेखर	(2598564एल अब जेसी 440976ए)	25 जनवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार हलासिदप्पा पुजेरी	(2597083एम अब जेसी 440977एच)	01 जनवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार पालापोलु श्रीनिवासा राव	(2596519ए अब जेसी 440978एल)	02 दिसम्बर 2013*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार डी सुरेश	(2596409एल अब जेसी 440979एन)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार रवि ए	(13619247एन अब जेसी 440980एच)	19 दिसम्बर 2013*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार सिवप्पा चोगले	(2595649डब्ल्यू अब जेसी 440981एल)	02 दिसम्बर 2013*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार सुरेश कुमार टी आर	(2596253 वाई अब जेसी 440982एन)	16 दिसम्बर 2013*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार करना राधाकृष्णा	(2597384डब्ल्यू अब जेसी 440983डब्ल्यू)	02 दिसम्बर 2013*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार गोविन्दाराज	(2596231ए अब जेसी 440984वाई)	12 दिसम्बर 2013*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार नारायण राय	(2596589वाई अब जेसी 440985एफ)	12 दिसम्बर 2013*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार राधाकृष्णन नायर के ओ	(2598718एम अब जेसी 440986के)	24 दिसम्बर 2013*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		

हवलदार सुनुकुमार एस	(2597934एन अब जेसी 440987एम)	10 जनवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार कोमातला पाण्डुरंगा रेडडी	(2597947एल अब जेसी 440988पी)	22 दिसम्बर 2013*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार आरपुत्ता सगायाराज ए	(2599598एल अब जेसी 440989एक्स)	12 दिसम्बर 2013*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार प्रशांत वीके	(2599707एम अब जेसी 440990एम)	02 दिसम्बर 2013*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार वी त्रीलोक रेडडी	(2598015एल अब जेसी 440991पी)	10 जनवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार एस वेकटा सुब्बारेडडी	(2597356के अब जेसी 440992एक्स)	30 दिसम्बर 2013*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार जी जेम्स	(3992286डब्ल्यू अब जेसी 440993ए)	06 जनवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार एम नागाराज	(2596846एल अब जेसी 440994एच)	03 फरवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार आर महेश्वरन	(2598988एफ अब जेसी 440995एल)	07 फरवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार वाईरेडडी राजा रेडडी	(2595491वाई अब जेसी 440996एन)	01 जनवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक) रामा कुट्टी पीके	(2596452एम अब जेसी 440997डब्ल्यू)	01 जनवरी 2014
हवलदार वीरानन्द बाबु	(2597860के अब जेसी 440998वाई)	01 जनवरी 2014
हवलदार मलिकारजुन बीनाकानावर	(2598008पी अब जेसी 440999एफ)	01 जनवरी 2014
हवलदार नेतीनटी रामाराव	(2595576पी अब जेसी 441000एच)	01 जनवरी 2014
हवलदार देवेन्दरन एस	(2595496एक्स अब जेसी 441001एल)	01 अप्रैल 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार पालुकुरी कसाड्या	(2598043एक्स अब जेसी 441002एन)	01 जनवरी 2014
हवलदार सुधीर के ए	(2596367के अब जेसी 441003डब्ल्यू)	28 फरवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जनवरी 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सजी कुमार के	(2597484एफ अब जेसी 441004वाई)	03 फरवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जनवरी 2014 से दी जायेगी)		
हवलदारकोनडा धनाराजुलु	(2596690वाई अब जेसी 441005एफ)	13 फरवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)		
हवलदार के मन्दिरा मुर्ति	(2594915एक्स अब जेसी 441006के)	13 फरवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार मल्लपा वीरादर	(2595182डब्ल्यू अब जेसी 441007एम)	13 फरवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार मिताइगिरि फकरुद्दीन	(2597283एच अब जेसी 441008पी)	01 फरवरी 2014
हवलदार शाहजहा एम	(2597321एन अब जेसी 441009एक्स)	03 फरवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सोमेश एम एस	(2597318एन अब जेसी 441010एम)	12 फरवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सोमाशेकरप्पा के एच	(2597513एल अब जेसी 441011पी)	22 फरवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी)		

हवलदार शिव शंकर प्रभुनटी	(2597409एक्स अब जेसी 441012एक्स)	12 फरवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार मुरगन के	(2598991एफ अब जेसी 441013ए)	17 फरवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार अनाकपली इश्वरा राव	(2598877के अब जेसी 441014एच)	11 फरवरी 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 फरवरी 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार बसवंत सुतर	(2595361डब्ल्यू अब जेसी 441015एल)	12 मार्च 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 फरवरी 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार मुरली के	(2599001एक्स अब जेसी 441016एन)	11 मार्च 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 फरवरी 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार रवि कुमार पेडीनटी	(2597167ए अब जेसी 441017डब्ल्यू)	26 मार्च 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जनवरी 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार के माणिक्यम	(2596524एल अब जेसी 441018वाई)	03 मार्च 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार जयाकुमार पी	(2695219एम अब जेसी 441019एफ)	03 अप्रैल 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार बडीयप्पा लमानी	(2598621एफ अब जेसी 441020डब्ल्यू)	29 मार्च 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार एम जनारदना नायडु	(2597553एम अब जेसी 441021वाई)	01 मार्च 2014
हवलदार जी वेलुचामी	(2595497ए अब जेसी 441022एफ)	01 अप्रैल 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार हरी ए	(2597903एन अब जेसी 441023के)	01 मार्च 2014
हवलदार रमेश बाबु पी	(2595819पी अब जेसी 441024एम)	01 अप्रैल 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार के बूपती	(2595962एफ अब जेसी 441025पी)	01 अप्रैल 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार विनु एम डी	(2595984ए अब जेसी 441026एक्स)	01 अप्रैल 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सी मगेन्द्रन	(2598149के अब जेसी 441027ए)	01 मार्च 2014
हवलदार भास्कर कल्लापटी	(3995512एन अब जेसी 441028एच)	22 मार्च 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार डी शिवाराजा	(2598570वाई अब जेसी 441029एल)	29 मार्च 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मार्च 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार शंकर यरागटी	(2597758एफ अब जेसी 441030ए)	16 मार्च 2014
हवलदार एन वेलुचामी	(2596429वाई अब जेसी 441031एच)	07 मई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जनवरी 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार शिबु जे	(2595847एफ अब जेसी 441032एल)	27 अप्रैल 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मार्च 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार कुमार एन	(2595910एल अब जेसी 441033एन)	07 मई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार दशरथन एम	(2596014के अब जेसी 441034डब्ल्यू)	04 अप्रैल 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मार्च 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार लाचपा पोटारडी	(2596460एल अब जेसी 441035वाई)	26 अप्रैल 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मार्च 2014 से दी जायेगी)		

हवलदार जालान पीएस	(2608501वाई अब जेसी 441036एफ)	01 जुलाई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 मार्च 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक) एन जगन्नाथन	(2596011डब्ल्यू अब जेसी 441037के)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) रविन्द्रा लान्डे	(2596456एच अब जेसी 441038एम)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) टी वझराम	(2597699ए अब जेसी 441039पी)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) अजय कुमार शर्मा	(2598124एक्स अब जेसी 441040के)	02 अप्रैल 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक) देब कुमार गुरीया	(2597744एफ अब जेसी 441041एम)	25 अप्रैल 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक) निरज कुमार	(2598216के अब जेसी 441042पी)	27 अप्रैल 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक) रमन एस	(2595904एक्स अब जेसी 441043एक्स)2	5 अप्रैल 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार श्रीनिवासा मूर्ति के	(2595242ए अब जेसी 441044ए)	23 अप्रैल 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सजीव के एन	(2595287ए अब जेसी 441045एच)	03 अप्रैल 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार मुरगन सी	(2595231एन अब जेसी 441046एल)	03 अप्रैल 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार पी कृष्णामूर्ति	(3394213एल अब जेसी 441047एन)	07 मई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार मुदरासु श्रीनिवासलु	(2597917एन अब जेसी 441048डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2014
हवलदार कनचरला केसया	(2597966डब्ल्यू अब जेसी 441049वाई)	01 अप्रैल 2014
हवलदार के गोविन्द राज	(2597306वाई अब जेसी 441050एन)	01 अप्रैल 2014
हवलदार जयचन्द्रन इ एम	(2598211एल अब जेसी 441051डब्ल्यू)	28 अप्रैल 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार गुरु प्रसाद एस	(2598484एन अब जेसी 441052वाई)	02 जुलाई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जनवरी 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार उदया कुमार टी एस	(2599008एफ अब जेसी 441053एफ)	22 मई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार मनोज कुमार के	(2599090एफ अब जेसी 441054के)	22 मई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सुकेशन पी वी	(2599382के अब जेसी 441055एम)	22 मई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार अमनुल्ला शेख	(2598728डब्ल्यू अब जेसी 441056पी)	26 मई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार गोवरधनन आर	(2596698एल अब जेसी 441057एक्स)	01 मई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक) के के भार्गवन	(2596385एम अब जेसी 441058ए)	01 मई 2014
हवलदार (लिपिक) बिज्जु जॉर्ज	(2596665ए अब जेसी 441059एच)	08 मई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक) एच रमेश कुमार	(2597956एम अब जेसी 441060एक्स)	01 मई 2014
हवलदार (लिपिक) सुब्रातो सरकार	(2598069एम अब जेसी 441061ए)	20 जून 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी)		

हवलदार के मुरगन एस एम (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी)	(2597376एक्स अब जेसी 441062एच)	27 मई 2014*
हवलदार सरवनन वी	(2596707एफ अब जेसी 441063एल)	01 मई 2014
हवलदार जगदीशा आर एम	(2596782एल अब जेसी 441064एन)	01 मई 2014
हवलदार रघुकुमारा बी (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी)	(2596788एम अब जेसी 441065डब्ल्यू)	13 मई 2014*
हवलदार बीजु आर (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी)	(2597082के अब जेसी 441066वाई)	20 अगस्त 2014*
हवलदार मतसा वेकटा रमना (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी)	(2595417एक्स अब जेसी 441067एफ)	03 मई 2014*
हवलदार सोमेश्वरा राव बच्चु (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी)	(2596996एफ अब जेसी 441068के)	22 मई 2014*
हवलदार शेख महबूब बाशा	(2597201पी अब जेसी 441069एम)	01 मई 2014
हवलदार एम कृष्णन	(2597203ए अब जेसी 441070एफ)	01 मई 2014
हवलदार विश्वनाथा ए (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी)	(2597208वाई अब जेसी 441071के)	19 मई 2014*
हवलदार साजी के सी (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मई 2014 से दी जायेगी)	(2599642के अब जेसी 441072एम)	27 मई 2014*
हवलदार नागराज चाचाडी (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मई 2014 से दी जायेगी)	(2598003डब्ल्यू अब जेसी 441073पी)	27 जून 2014*
हवलदार गिनजला मंगा राजू (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मई 2014 से दी जायेगी)	(2597617एम अब जेसी 441074एक्स)	29 मई 2014*
हवलदार एन मुरगन (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)	(2595233वाई अब जेसी 441075ए)	23 जून 2014*
हवलदार अनिल कुमार एन वी (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)	(2597538एक्स अब जेसी 441076एच)	09 जून 2014*
हवलदार एल जोशेफ (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 मई 2014 से दी जायेगी)	(2597658डब्ल्यू अब जेसी 441077एल)	09 जून 2014*
हवलदार थोमस जी (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 मई 2014 से दी जायेगी)	(8033098डब्ल्यू अब जेसी 441078एन)	16 जून 2014*
हवलदार रमना दसारी (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 मई 2014 से दी जायेगी)	(2596493डब्ल्यू अब जेसी 441079डब्ल्यू)	26 जून 2014*
हवलदार हरशा कुमार ए एस (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)	(2597908एम अब जेसी 441080एल)	30 जून 2014*
हवलदार मनोज कुमार एम एस (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)	(3993001एल अब जेसी 441081एन)	12 जून 2014*
हवलदार अन्नापु रेडडी रमना रेडडी (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)	(2596611वाई अब जेसी 441082डब्ल्यू)	16 जून 2014*
हवलदार प्रवीण ओके (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)	(2596795एच अब जेसी 441083वाई)	02 जून 2014*
हवलदार ए सहाया राज (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)	(2596797एन अब जेसी 441084एफ)	02 जून 2014*
हवलदार अरुण कुमार पी बी (*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)	(2597989एक्स अब जेसी 441085के)	20 जून 2014*

हवलदार गलोरी टी जे	(2597899डब्ल्यू अब जेसी 441086एम)	16 जून 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार चन्द्राचारी कोडा कान्ती	(2601100एफ अब जेसी 441087पी)	12 जुलाई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार त्रीवेदी वी नारायणा	(2597232पी अब जेसी 441088एक्स)	16 जून 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार वी रेगोथमन	(2598360वाई अब जेसी 441089ए)	10 जुलाई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार बाढा श्रीनिवासलु	(2598212एन अब जेसी 441090पी)	26 अगस्त 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 जून 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार गाहेन्द्रा बहादुर खाती	(2598460के अब जेसी 441091एक्स)	31 जुलाई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 मई 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार विजय एस ए	(2595428के अब जेसी 441092ए)	12 जुलाई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जून 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार शिवा कुमार के	(2595456डब्ल्यू अब जेसी 441093एच)	24 जुलाई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जून 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सदानन्दन पी वी	(2596803डब्ल्यू अब जेसी 441094एल)	25 जुलाई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जून 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक) प्रेम कुमार बी	(2598123पी अब जेसी 441095एन)	09 जुलाई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार जे अन्नादुरई	(2597664के अब जेसी 441096डब्ल्यू)	12 जुलाई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सजीव के	(2596804वाई अब जेसी 441097वाई)	25 जुलाई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जुलाई 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार एम नागाराज	(2597578वाई अब जेसी 441098एफ)	25 जुलाई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जुलाई 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार के नागारजुना रेडडी	(2597674एन अब जेसी 441099के)	25 जुलाई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार आर लोगानाथन	(2596427एन अब जेसी 441100एन)	30 जुलाई 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जुलाई 2014 से दी जायेगी)		
जाट रेजिमेन्ट		
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार अर्जुन राम	(सैं0 3186357 पी अब जेसी-491266 एल)	20 नवम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार चमनपाल सिंह	(सैं0 3186505 पी अब जेसी-491267 एन)	13 नवम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार भगवान सिंह	(सैं0 3186521 एम अब जेसी-491268 डब्ल्यू)	15 नवम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार दिगम्बर सिंह	(सैं0 3185439 एल अब जेसी-491269 वाई)	15 जनवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार सुरेन्द्र कुमार	(सैं0 3184991 वाई अब जेसी-491270 एन)	01 जनवरी 2015
हवलदार सुरेन्द्र सिंह	(सैं0 3185523 एल अब जेसी-491271 डब्ल्यू)	15 जनवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जायेगी)		

हवलदार	हरिवीर सिंह	(सँ0 3185819 के अब जेसी-491272 वाई)	01 जनवरी 2015
हवलदार	राजे राम	(सँ0 3186745 एम अब जेसी-491273 एफ)	01 जनवरी 2015
हवलदार	मंगला प्रसाद	(सँ0 3188101 एल अब जेसी-491274 के)	16 जनवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	पवन कुमार	(सँ0 3188153 एफ अब जेसी-491275 एम)	01 जनवरी 2015
हवलदार	सत्यवीर सिंह चाहर	(सँ0 3188338 एच अब जेसी-491276 पी)	26 जनवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जनवरी 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार लिपिक	काशया कोरे	(सँ0 3188940 एच अब जेसी-491277 एक्स)	02 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	कृष्णकान्त यादव	(सँ0 3203672 के अब जेसी-491190 डब्ल्यू)	18 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	सतीश चन्द्र	(सँ0 3185215 एल अब जेसी-491191 वाई)	01 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जून 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुभाष चन्द	(सँ0 3186688 डब्ल्यू अब जेसी-491192 एफ)	01 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जून 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	नरेश कुमार	(सँ0 3200047 एक्स अब जेसी-491193 के)	22 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	जितेन्द्र सिंह	(सँ0 3186347 एल अब जेसी-491194 एम)	23 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुरेन्द्र सिंह	(सँ0 3186424 पी अब जेसी-491195 पी)	02 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	दिनेश कुमार वर्मा	(सँ0 3186403 वाई अब जेसी-491196 एक्स)	22 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	जाकिर हुसैन मण्डल	(सँ0 3186652 एक्स अब जेसी-491197 ए)	22 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	सत्यपाल सिंह	(सँ0 3184689 ए अब जेसी-491198 एच)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	श्यामनारायण कसनियां	(सँ0 3185663 एक्स अब जेसी-491199 एल)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	प्रदीप कुमार	(सँ0 3185669 वाई अब जेसी-491200 पी)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	मोहन राम	(सँ0 3186275 एम अब जेसी-491201 एक्स)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	मान सिंह	(सँ0 3187161 एन अब जेसी-491202 ए)	30 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	वीर सिंह लोचिब	(सँ0 3186055 एच अब जेसी-491203 एच)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	मोहन लाल चौधरी	(सँ0 3186072 एच अब जेसी-491204 एल)	21 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	ओम प्रकाश नायल	(सँ0 3185930 एन अब जेसी-491205 एन)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	अशोक कुमार	(सँ0 3186015 एफ अब जेसी-491206 डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	प्रमेश कुमार	(सँ0 3186921 वाई अब जेसी-491207 वाई)	22 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)			

हवलदार	राकेश कुमार	(सँ0 3187196 के अब जेसी-491208 एफ)	22 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	अमरजीत सिंह	(सँ0 3187170 पी अब जेसी-491209 के)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार	लाल बहादुर	(सँ0 3187543 एक्स अब जेसी-491210 वाई)	06 अक्टूबर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	धर्मेन्द्र कुमार	(सँ0 3187814 के अब जेसी-491211 एफ)	06 अक्टूबर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार लिपिक	योगेन्द्र कुमार	(सँ0 3188489 एफ अब जेसी-491212 के)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में			
रिक्रुट (धर्म शिक्षक)	वेद प्रकाश पांडेय	(सँ0 491188 वाई अब जेसी-491188 वाई)	27 सितम्बर 2014

इन्फेंट्री

11 जी आर

सूबेदार मेजर रैंक में

सूबेदार	बिकाश राई	जे सी 634673 वाई	01 अक्टूबर 13
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 13 से दी जायेगी)			
सूबेदार	भक्ता बहादुर थापा	जे सी 634643 एफ	01 नवम्बर 13
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 13 से दी जायेगी)			
सूबेदार	हरी बहादुर लिम्बु	जे सी 634587 एन	01 दिसम्बर 13
सूबेदार	देव प्रकाश राई	जे सी 634631 एम	01 दिसम्बर 13
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 13 से दी जायेगी)			
सूबेदार	मेघ राज राई	जे सी 634612 एफ	01 फरवरी 14
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 14 से दी जायेगी)			
सूबेदार	प्रदीप कुमार राई	जे सी 634675 के	01 अप्रैल 14
सूबेदार	राम काजी राई	जे सी 634688 एफ	01 अप्रैल 14
सूबेदार	महेन्द्र कुमार राई	जे सी 634794 ए	01 अप्रैल 14
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 14 से दी जायेगी)			
सूबेदार	अशोक प्रधान	जे सी 634724 एफ	01 मई 14
सूबेदार	अनिल देव राई	जे सी 634728 एक्स	01 मई 14
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 14 से दी जायेगी)			
सूबेदार (लिपिक)	शत्रुघ्न तिवारी	जे सी 634378 डब्ल्यू	01 जुलाई 14
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 14 से दी जायेगी)			
<u>सूबेदार रैंक में</u>			
नायब सूबेदार	राम काजी राई	जे सी 634970 एम	01 सितम्बर 13
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 13 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार (लिपिक)	मुरली धरन नायर	जे सी 634937 पी	01 अक्टूबर 13
नायब सूबेदार	दिल बहादुर तामांग	जे सी 634890 पी	01 अक्टूबर 13
नायब सूबेदार	भीम बहादुर लिम्बु	जे सी 634964 वाई	01 अक्टूबर 13

नायब सूबेदार	मन बहादुर राई	जे सी 634976 एन	01 अक्टूबर 13
नायब सूबेदार	टेक बहादुर लिम्बु	जे सी 635035 एम	01 अक्टूबर 13
नायब सूबेदार	कर्ण बहादुर लिम्बु	जे सी 635039 एच	01 अक्टूबर 13
नायब सूबेदार	चन्द्र वीर दिवान	जे सी 634995 वाई	01 अक्टूबर 13
नायब सूबेदार	नर कुमार लोकतम	जे सी 635000 डब्ल्यू	01 अक्टूबर 13
नायब सूबेदार	भरत कुमार राई	जे सी 635004 एम	01 अक्टूबर 13
नायब सूबेदार	नारायण तामांग	जे सी 635015 वाई	01 अक्टूबर 13
नायब सूबेदार	केसर कुमार लिम्बु	जे सी 635040 एक्स	01 अक्टूबर 13
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 13 से दी जायेगी)			

नायब सूबेदार रैंक में

नायब सूबेदार	धन बहादुर तामांग	जे सी 635059 डब्ल्यू	02 अक्टूबर 13
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अक्टूबर 13 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	इंद्र बहादुर मादेन	जे सी 635055 ए	03 अक्टूबर 13
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अक्टूबर 13 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	खुश मान राई	जे सी 636989 एल	09 अक्टूबर 13
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 अक्टूबर 13 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार (लिपिक)	बलवंत सिंह नेगी	जे सी 634951 एफ	01 नवम्बर 13
नायब सूबेदार	कर्ण कुमार लिम्बु	जे सी 634891 एक्स	01 नवम्बर 13
नायब सूबेदार	उत्तम कुमार राई	जे सी 634893 एच	01 नवम्बर 13
नायब सूबेदार	तिर्था कुमार राई	जे सी 635010 ए	01 नवम्बर 13
नायब सूबेदार	ओम प्रकाश प्रधान	जे सी 635022 पी	01 नवम्बर 13
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 13 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	पौधा सिंह राई	जे सी 634913 एल	01 दिसम्बर 13
नायब सूबेदार	मौला बहादुर तामांग	जे सी 634927 एल	01 दिसम्बर 13
नायब सूबेदार	काली राम झाकिरी	जे सी 635011 एच	01 दिसम्बर 13
नायब सूबेदार	इंद्र बहादुर लिम्बु	जे सी 635018 एम	01 दिसम्बर 13
नायब सूबेदार	गोविंद प्रसाद राई	जे सी 635063 वाई	01 दिसम्बर 13
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 13 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	ईश्वर मान राई	जे सी 634991 एच	01 जनवरी 14
नायब सूबेदार	ह्मग नारायण इश्वो	जे सी 635021 एम	01 जनवरी 14
नायब सूबेदार	रवि राई	जे सी 635034 के	01 जनवरी 14
नायब सूबेदार	बीर बहादुर लिम्बु	जे सी 635058 एन	01 जनवरी 14
नायब सूबेदार	बिर्खा राम तामांग	जे सी 635064 एफ	01 जनवरी 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 14 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	राम बहादुर तामांग	जे सी 635038 ए	16 जनवरी 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जनवरी 14 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार (लिपिक)	जय भगवान	जे सी 634952 के	01 फरवरी 14

नायब सूबेदार (लिपिक)	बाला कृष्णा राय के	जे सी 634953 एम	01 फरवरी 14
नायब सूबेदार (लिपिक)	एम के प्रधान	जे सी 634961 एल	01 फरवरी 14
नायब सूबेदार	दिल कुमार कंदनवा	जे सी 635016 एफ	01 फरवरी 14
नायब सूबेदार	प्रकाश राई	जे सी 635044 एन	01 फरवरी 14
नायब सूबेदार	राज कुमार राई	जे सी 635081 एफ	01 फरवरी 14
नायब सूबेदार	संता कुमार राई	जे सी 635093 डब्ल्यू	01 फरवरी 14
नायब सूबेदार	गणेश अंगदम्बे (लिम्बु)	जे सी 635094 वाई	01 फरवरी 14
नायब सूबेदार	देवा कुमार राई	जे सी 635110 एल	01 फरवरी 14
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र सिंह लिम्बु	जे सी 635111	01 फरवरी 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 14 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	आर के पी निराला	जे सी 634968 पी	01 मार्च 14
नायब सूबेदार	राम कुमार सोदेन	जे सी 635024 ए	01 मार्च 14
नायब सूबेदार	संता कुमार राई	जे सी 635025 एच	01 मार्च 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 14 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार (लिपिक)	प्रफुल कुमार साहू	जे सी 634988 एच	01 अप्रैल 14
नायब सूबेदार	कमान राई	जे सी 634987 ए	01 अप्रैल 14
नायब सूबेदार	मन कुमार लिम्बु	जे सी 634998 एम	01 अप्रैल 14
नायब सूबेदार	कुबेर मनी राई	जे सी 635033 एफ	01 अप्रैल 14
नायब सूबेदार	डम्बर बहादुर राई	जे सी 635043 एल	01 अप्रैल 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 14 से दी जायेगी)			

नायब सूबेदार रैंक में

नायब सूबेदार	तेज बहादुर वानेम	जे सी 635047 एफ	01 अप्रैल 14
नायब सूबेदार	गणेश बहादुर याक्शो, एस एम	जे सी 635053 पी	01 अप्रैल 14
नायब सूबेदार	मनी कुमार राई	जे सी 635067 पी	01 अप्रैल 14
नायब सूबेदार	राम थापा	जे सी 635077 वाई	01 अप्रैल 14
नायब सूबेदार	नेत्र कुमार खिमदिंग	जे सी 635087 एच	01 अप्रैल 14
नायब सूबेदार	पदम बहादुर लिम्बु	जे सी 635112 डब्ल्यू	01 अप्रैल 14
नायब सूबेदार	देव कुमार राई	जे सी 635117 पी	01 अप्रैल 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 14 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	लोक बहादुर लिम्बु	जे सी 635029 वाई	01 मई 14
नायब सूबेदार	कृष्णा कुमार लिम्बु	जे सी 635030 एन	01 मई 14
नायब सूबेदार	राम दल राई	जे सी 635042 एच	01 मई 14
नायब सूबेदार	श्री कुमार लिम्बु	जे सी 635052 एम	01 मई 14
नायब सूबेदार	सुजन कुमार राई	जे सी 635088 एल	01 मई 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 14 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	संतोष कुमार लिम्बु	जे सी 635062 डब्ल्यू	02 मई 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मई 14 से दी जायेगी)			

नायब सूबेदार	कृष्णा बहादुर कार्की	जे सी 635113 वाई	06 मई 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मई 14 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	अम्बर सिंह लिम्बु	जे सी 635079 के	13 मई 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मई 14 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	रत्न बहादुर शेरपा	जे सी 635126 डब्ल्यू	16 मई 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मई 14 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	मन कुमार पालुंगवा	जे सी 635127 वाई	19 मई 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मई 14 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार (लिपिक)	वज्रा कुमार बोरा	जे सी 634994 डब्ल्यू	01 जून 14
नायब सूबेदार	कर्ण बहादुर राई	जे सी 635086 ए	01 जून 14
नायब सूबेदार	नवीन राई	जे सी 635128 एफ	01 जून 14
नायब सूबेदार	राजन सोर राई	जे सी 635083 एम	01 जून 14
नायब सूबेदार	राम प्रसाद नेमबांग	जे सी 635092 एन	01 जून 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 14 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार (लिपिक)	कृष्णा राम	जे सी 635017 के	01 जुलाई 14
नायब सूबेदार (लिपिक)	निर्मल जीत सिंह	जे सी 635036 पी	01 जुलाई 14
नायब सूबेदार	नारायण प्रसाद लिम्बु	जे सी 635098 पी	01 जुलाई 14
नायब सूबेदार	मन बहादुर श्रेष्ठ	जे सी 635031 डब्ल्यू	01 जुलाई 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 14 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	रंदीप राई	जे सी 635084 पी	20 जुलाई 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जुलाई 14 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार (लिपिक)	राजु राम सोलंकी	जे सी 635045 डब्ल्यू	24 जुलाई 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जुलाई 14 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	श्याम बहादुर तामांग	जे सी 635097 एम	25 जुलाई 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जुलाई 14 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार (लिपिक)	नरेश चन्द्र	जे सी 635051 के	01 अगस्त 14
नायब सूबेदार	लिला ह्यग लिम्बु	जे सी 635099 एक्स	01 अगस्त 14
नायब सूबेदार	प्रेम बहादुर सिलिंग	जे सी 635103 पी	01 अगस्त 14
नायब सूबेदार	तोरण कुमार श्रेष्ठ	जे सी 635119 ए	01 अगस्त 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 14 से दी जायेगी)			

नायब सूबेदार रैंक में

नायब सूबेदार	रक्षा कुमार राई	जे सी 635106 एच	01 सितम्बर 14
नायब सूबेदार	संतोष तामांग	जे सी 635115 के	01 सितम्बर 14
नायब सूबेदार	जस मान राई	जे सी 635090 एच	01 सितम्बर 14
नायब सूबेदार	बल बहादुर राई	जे सी 635095 एफ	01 सितम्बर 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 14 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	बाग सिंह सियोल	जे सी 635060 एल	01 अक्टूबर 14

नायब सूबेदार	कुमार सिंह राई	जे सी 635065 के	01 अक्टूबर 14
नायब सूबेदार	भाग्य धन राई	जे सी 635100 एफ	01 अक्टूबर 14
नायब सूबेदार	लोक बहादुर खडका	जे सी 635096 के	01 अक्टूबर 14
नायब सूबेदार	पासंग तामांग	जे सी 607859 वाई	01 अक्टूबर 14
नायब सूबेदार	बिमल लिम्बु	जे सी 607918 ए	01 अक्टूबर 14
नायब सूबेदार	बिनेश राई	जे सी 635069 ए	01 अक्टूबर 14
नायब सूबेदार	भुपेन्द्र कुमार सुब्बा	जे सी 635070 पी	01 अक्टूबर 14
नायब सूबेदार	चन्द्र बहादुर राई	जे सी 635075 एन	01 अक्टूबर 14
नायब सूबेदार	धन मान थापा	जे सी 603007 एम	01 अक्टूबर 14
नायब सूबेदार	बिंद्रा मान राई	जे सी 635076 डब्ल्यू	01 अक्टूबर 14
नायब सूबेदार	सुक मान सुब्बा	जे सी 635080 वाई	01 अक्टूबर 14
नायब सूबेदार	अर्जुन राई	जे सी 635082 के	01 अक्टूबर 14
नायब सूबेदार	सांग दोर्जी तामांग	जे सी 635114 एफ	01 अक्टूबर 14
नायब सूबेदार	पवन राई	जे सी 635166 एक्स	01 अक्टूबर 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 14 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	दिल कुमार चेमजोंग	जे सी 635116 एम	01 नवम्बर 14
नायब सूबेदार	अमृत कुमार राई	जे सी 635019 पी	01 नवम्बर 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 14 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	राम कुमार लामा	जे सी 635120 पी	01 दिसम्बर 14
नायब सूबेदार	राम कुमार लिम्बु	जे सी 635121 एक्स	01 दिसम्बर 14
नायब सूबेदार	गजेन्द्र बहादुर सामभाम्पे	जे सी 635165 पी	01 दिसम्बर 14
नायब सूबेदार	कमल राई	जे सी 635123 एच	01 दिसम्बर 14
नायब सूबेदार	संजीव तामांग	जे सी 635102 एम	01 दिसम्बर 14
	अरुण कुमार थापा	जे सी 635109 डब्ल्यू	01 दिसम्बर 14
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 14 से दी जायेगी)			

कुमाऊं रेजिमेन्ट
सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार	राजेन्द्र कुमार पाण्डे	जेसी-539930ए	01 अप्रैल 14
सूबेदार	जगत सिंह	जेसी-540076एल	01 मई 14
सूबेदार म्युजिशियन	हरी राम	जेसी-540781के	14 अगस्त 14 01 जुलाई 14•
• सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 14 से दी गई है।			
सूबेदार लिपिक	सुकन्ता कुमार राणा	जेसी-540164एफ	01 सितम्बर 14
सूबेदार	शंकर सिंह	जेसी-540227वाई	01 अक्टूबर 14
सूबेदार	भवान सिंह	जेसी-540255एल	01 अक्टूबर 14
सूबेदार	खडक सिंह	जेसी-540042एक्स	01 मार्च 14
सूबेदार	भुवन सिंह मुडैला	जेसी-539804एन	01 मई 14

सूबेदार	धन बहादुर चन्द	जेसी-540071एम	01 मई 14
सूबेदार	रमेश चन्द्रा सिंह बरगाली	जेसी-540543एक्स	01 मई 14
सूबेदार	पूरन सिंह	जेसी-540315पी	01 जून 14

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार	गोविन्द सिंह	नं० 4184449वाई अब जेसी-541381ए	— 03 मई 14 31 मार्च 14•
--------	--------------	--------------------------------	----------------------------

• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 31 मार्च 14 से दी गई है।

हवलदार लिपिक	ऐ निशी कुमार सिंघा	नं० 4184470एफ अब जेसी-541382एम	— 01 अप्रैल 14
हवलदार लिपिक	ललित प्रसाद उप्रेती	नं० 4184079के अब जेसी-541383पी	— 01 अप्रैल 14
हवलदार लिपिक	प्रमोद कुमार कर्नाटका	नं० 4184162एफ अब जेसी-541384एक्स	— 01 अप्रैल 14
हवलदार लिपिक	कश्मीर सिंह यादव	नं० 4184519एम अब जेसी-541385ए	— 01 अप्रैल 14
हवलदार लिपिक	पुरन सिंह कन्याल	नं० 4183893एच अब जेसी-541386एच	— 01 अप्रैल 14
हवलदार लिपिक	हरीश कुमार सिंह	नं० 4184168एच जेसी-541387एल	— 01 अप्रैल 14
हवलदार लिपिक	संजय कुमार सिंह	नं० 4184348एल अब जेसी-541388एन	— 01 अप्रैल 14
हवलदार लिपिक	हिंमत सिंह	नं० 4184290वाई अब जेसी-541389डब्ल्यू	— 01 अप्रैल 14
हवलदार लिपिक	राजेन्द्र सिंह	नं० 4183907एक्स अब जेसी-541390एल	— 01 अप्रैल 14
हवलदार	अवधेश कुमार सिंह	नं० 4184792एफ अब जेसी-541391एन	— 01 अप्रैल 14
हवलदार	सत्यवीर सिंह	नं० 4184984वाई अब जेसी-541392डब्ल्यू	— 22 अप्रैल 14 01 अप्रैल 14•

• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 14 से दी गई है।

हवलदार	ईश्वर सिंह	नं० 4184671ए अब जेसी-541393वाई	— 01 अप्रैल 14
हवलदार	राज नाथ यादव	नं० 4184484एफ अब जेसी-541394एफ	— 01 अप्रैल 14
हवलदार	नैन सिंह	नं० 4184709वाई अब जेसी-541395के	— 21 अप्रैल 14 02 अप्रैल 14•

• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 02 अप्रैल 14 से दी गई है।

हवलदार	डम्बर चन्द	नं० 4184688एन अब जेसी-541396एम	— 05 मई 14 01 मई 14•
--------	------------	--------------------------------	-------------------------

• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 14 से दी गई है।

हवलदार	जीवन सिंह नयाल	नं० 4184656एल अब जेसी-541397पी	— 01 मई 14
हवलदार	श्याम सुन्दर सिंह	नं० 4184828पी अब जेसी-541398एक्स	— 01 मई 14
हवलदार	राजेश कुमार	नं० 4182708एक्स अब जेसी-541399ए	— 01 मई 14
हवलदार	गोविन्द बल्लभ	नं० 4184305डब्ल्यू अब जेसी-541400के	— 01 मई 14
हवलदार	धन सिंह	नं० 4184287वाई अब जेसी-541401एम	— 01 मई 14
हवलदार	सन्जेश कुमार	नं० 4185263एफ अब जेसी-541402पी	— 01 मई 14
हवलदार	हरीश सिंह महारा	नं० 4184922वाई अब जेसी-541403एक्स	— 01 मई 14
हवलदार	उमेश चन्द्रा	नं० 4185899एच अब जेसी-541404ए	— 01 मई 14
हवलदार	छत्तर पाल	नं० 4185252पी अब जेसी-541405एच	— 01 मई 14

हवलदार	गोपाल सिंह	नं० 4183180एक्स अब जेसी-541406एल	—	31 मई 14 01 मई 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 14 से दी गई है।				
हवलदार	खुशहाल सिंह चौहान	नं० 4183857एक्स अब जेसी-541407एन	—	01 मई 14
हवलदार	राजेन्द्र सिंह सुयाल	नं० 4183944एल अब जेसी-541408डब्ल्यू	—	01 मई 14
हवलदार	प्रकाश चन्द्रा जोशी	नं० 4188129एफ अब जेसी-541409वाई	—	01 मई 14
हवलदार	राम दत्त भट्ट	नं० 4184738एन अब जेसी-541410एन	—	02 मई 14 01 मई 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 14 से दी गई है।				
हवलदार	त्रिलोक सिंह	नं० 4183918के अब जेसी-541411डब्ल्यू	—	01 मई 14
हवलदार	हरीश सिंह	नं० 4186311एच अब जेसी-541412वाई	—	28 मई 14 01 मई 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 14 से दी गई है।				
हवलदार	बच्चे लाल यादव, सैना मैडल	नं० 4184494एल अब जेसी-541413एफ	—	01 मई 14
हवलदार	विरेन्द्र यादव	नं० 4187352वाई अब जेसी-541414ए	—	13 मई 14 01 मई 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 14 से दी गई है।				
हवलदार	सत्य देव	नं० 4186205के अब जेसी-541415एम	—	01 मई 14
हवलदार लिपिक	गोरे रमेश शंकर	नं० 4184524एक्स अब जेसी-541418ए	—	02 जून 14 01 जून 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 14 से दी गई है।				
हवलदार लिपिक	प्रकाश सिंह बिष्ट	नं० 4183917एफ अब जेसी-541419एच	—	01 जून 14
हवलदार लिपिक	रेबाधर जोशी	नं० 4184001वाई अब जेसी-541420एक्स	—	01 जून 14
हवलदार लिपिक	खुशाल सिंह कुलेगी	नं० 4184265ए अब जेसी-541421ए	—	02 जून 14 01 जून 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 14 से दी गई है।				
हवलदार	सूरवीर सिंह राठौर	नं० 4185165एफ अब जेसी-541422एच	—	01 जून 14
हवलदार	सुरेन्द्र कुमार	नं० 4185238एच जेसी-541423एल	—	02 जून 14 01 जून 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 14 से दी गई है।				
हवलदार	बहादुर चन्द	नं० 4185068के अब जेसी-541424एन	—	01 जून 14
हवलदार	चन्द्र सिंह	नं० 4184633के अब जेसी-541425डब्ल्यू	—	10 जून 14 01 जून 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 14 से दी गई है।				
हवलदार	आन्नद सिंह	नं० 4184017के अब जेसी-541426वाई	—	01 जून 14
हवलदार	ईश्वर सिंह	नं० 4185446एक्स अब जेसी-541427एफ	—	09 जून 14 01 जून 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 14 से दी गई है।				
हवलदार	रविन्द्र कुमार	नं० 4185626ए अब जेसी-541428के	—	06 जून 14 01 जून 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 14 से दी गई है।				

हवलदार	दलिप सिंह	नं० 4184020के अब जेसी—541429एम	—	12 जून 14 01 जून 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 14 से दी गई है।				
हवलदार	सन्जीव राजा	नं० 4195606ए अब जेसी—541430एफ	—	02 जून 14 01 जून 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 14 से दी गई है।				
हवलदार	राकेश चन्द्रा पुनेठा	नं० 4197507डब्ल्यू अब जेसी—541431के	—	01 जून 14
हवलदार	चन्द्र शेखर पंत	नं० 4184969के अब जेसी—541432एम	—	01 जून 14
हवलदार	दरवान सिंह	नं० 4184477एल अब जेसी—541433पी	—	01 जून 14
हवलदार	तहसीलदार सिंह यादव	नं० 4185979ए अब जेसी—541434एक्स	—	01 जून 14
हवलदार	सुरेन्द्र सिंह काफलिया	नं० 4183067एच अब जेसी—541435ए	—	01 जून 14
हवलदार	जगत सिंह	नं० 4183317वाई अब जेसी—541436एच	—	02 जून 14 01 जून 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 14 से दी गई है।				
हवलदार	मोहन चन्द्रा कान्डपाल	नं० 4184757वाई अब जेसी—541437एल	—	02 जून 14 01 जून 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 14 से दी गई है।				
हवलदार	कृष्णा सिंह	नं० 4183371एम अब जेसी—541438एन	—	02 जून 14 01 जून 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 14 से दी गई है।				
हवलदार	प्रवीन सिंह	नं० 4183864एन अब जेसी—541439डब्ल्यू	—	06 जून 14 01 जून 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 14 से दी गई है।				
हवलदार	प्रेम सिंह	नं० 4185143एच अब जेसी—541440एल	—	01 जून 14
हवलदार	हरीश चन्द्रा सिंह	नं० 4185167एम अब जेसी—541441एन	—	02 जून 14 01 जून 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 14 से दी गई है।				
हवलदार	दिनेश चन्द्रा भट्ट	नं० 4185169एक्स अब जेसी—541442डब्ल्यू	—	01 जून 14
हवलदार	किशन सिंह बिष्ट	नं० 4185211एल अब जेसी—541443वाई	—	01 जून 14
हवलदार	प्रदीप कुमार	नं० 4184086ए अब जेसी—541444एफ	—	06 जून 14 01 जून 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 14 से दी गई है।				
हवलदार	त्रिलोक चन्द कापडी	नं० 4184088एल अब जेसी—541445के	—	11 जून 14 01 जून 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 14 से दी गई है।				
हवलदार	कुन्दन सिंह	नं० 4184263पी अब जेसी—541446एम	—	01 जून 14
हवलदार	याविन्द्र कुमार	नं० 4184503एफ अब जेसी—541447पी	—	01 जून 14
हवलदार	नारायण दत्त पाण्डे	नं० 4183190एफ अब जेसी—541448एक्स	—	01 जुलाई 14

हवलदार	होशियार सिंह	नं० 4185084एफ अब जेसी-541449ए	—	01 जुलाई 14
हवलदार	सुरेन्द्र चन्द	नं० 4185087पी अब जेसी-541450पी	—	01 जुलाई 14
हवलदार	दोलत सिंह बोरा	नं० 4185113एल अब जेसी-541451एक्स	—	11 जुलाई 14 01 जुलाई 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 14 से दी गई है।				
हवलदार	ओम प्रकाश	नं० 4183470पी अब जेसी-541452ए	—	01 जुलाई 14
हवलदार	मनोज सिंह मेहरा	नं० 4193423एल अब जेसी-541453एच	—	01 जुलाई 14
हवलदार	नन्दन सिंह	नं० 4184288एफ अब जेसी-541454एल	—	01 जुलाई 14
हवलदार	दिवान सिंह	नं० 4184296ए अब जेसी-541455एन	—	01 जुलाई 14
हवलदार	महेश चन्द्रा भट्ट	नं० 4184502वाई अब जेसी-541456डब्ल्यू	—	01 जुलाई 14
हवलदार	हर्ष कुमार सिंह	नं० 4183083ए अब जेसी-541457वाई	—	01 जुलाई 14
हवलदार	कुण्डल सिंह	नं० 4185245वाई अब जेसी-541458एफ	—	01 जुलाई 14
हवलदार	केशर सिंह धामी	नं० 4185009एक्स अब जेसी-541459के	—	01 जुलाई 14
हवलदार	भूपाल सिंह महोरी	नं० 4184093डब्ल्यू अब जेसी-541460वाई	—	01 जुलाई 14
हवलदार	बहादुर सिंह	नं० 4185057एक्स अब जेसी-541461एफ	—	01 जुलाई 14
हवलदार	पूरन चन्द्रा	नं० 4185227डब्ल्यू अब जेसी-541462के	—	08 जुलाई 14 01 जुलाई 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 14 से दी गई है।				
हवलदार	गोपाल दत्त	नं० 4183450एफ अब जेसी-541463एम	—	01 जुलाई 14
हवलदार	दयाल सिंह	नं० 4184179पी अब जेसी-541464पी	—	01 जुलाई 14
हवलदार	भगवान सिंह	नं० 4184092एन अब जेसी-541465एक्स	—	03 जुलाई 14 01 जुलाई 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 14 से दी गई है।				
हवलदार	राम सिंह	नं० 4185153एम अब जेसी-541466ए	—	01 जुलाई 14
हवलदार	शिव सिंह	नं० 13619482एम अब जेसी-541467एच	—	03 जुलाई 14 01 जुलाई 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 14 से दी गई है।				
हवलदार	राजेन्द्र सिंह धोनी	नं० 4184551एफ अब जेसी-541468एल	—	02 जुलाई 14 01 जुलाई 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 14 से दी गई है।				
हवलदार	माधो सिंह	नं० 4184679एम अब जेसी-541469एन	—	02 जुलाई 14 01 जुलाई 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 14 से दी गई है।				
हवलदार	हरीश सिंह राठौर	नं० 4184681के अब जेसी-541470एच	—	13 जुलाई 14 03 जुलाई 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 03 जुलाई 14 से दी गई है।				

नागा रेजिमेन्ट				
हवलदार	सिनरवंग एलवेन्सन अनल	नं० 14703047वाई अब जेसी-590369एम	—	15 जून 14 26 मार्च 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 26 मार्च 14 से दी गई है।				
हवलदार	एल के टनहरिंग अनल	नं० 14702834एन अब जेसी-590370एफ	—	25 अप्रैल 14 01 अप्रैल 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 14 से दी गई है।				
हवलदार	हिरा सिंह	नं० 14702801एच अब जेसी-590371के	—	25 अप्रैल 14 01 अप्रैल 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 14 से दी गई है।				
हवलदार	संजय दत्त	नं० 14702882एन अब जेसी-590372एम	—	25 अप्रैल 14 01 अप्रैल 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 14 से दी गई है।				
हवलदार	एस टेनिसन टंगखुल	नं० 14702727एम अब जेसी-590373पी	—	25 अप्रैल 14 01 अप्रैल 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 14 से दी गई है।				
हवलदार	तिला राम छेत्री	नं० 14702949एफ अब जेसी-590374एक्स	—	01 अप्रैल 14
हवलदार	एन हैतो रोचिल	नं० 14702856एम अब जेसी-590375ए	—	01 मई 14
हवलदार	खाकनियां कोन्याक	नं० 14702749एल अब जेसी-590376एच	—	01 मई 14
हवलदार	डब्लु एस मार्टेन अनल	नं० 14702899एफ अब जेसी-590377एल	—	28 जून 14 06 मई 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 06 मई 14 से दी गई है।				
हवलदार	धीरेन तमंग	नं० 14702905के अब जेसी-590378एन	—	01 जुलाई 14
हवलदार	शिव राज सिंह	नं० 4186612एम अब जेसी-590379डब्ल्यू	—	09 जुलाई 14 01 जुलाई 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 14 से दी गई है।				
हवलदार लिपिक	नरेन्द्र कुमार यादव	नं० 4184506पी अब जेसी-541493के	—	01 अगस्त 14
हवलदार लिपिक	आनन्द सिंह मेहरा	नं० 4184549के अब जेसी-541494एम	—	21 अगस्त 14 16 अगस्त 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 16 अगस्त 14 से दी गई है।				
हवलदार लिपिक	कमला प्रसाद यादव	नं० 4184701एम अब जेसी-541495पी	—	01 सितम्बर 14
हवलदार लिपिक	नरेश कुमार	नं० 4186025एफ अब जेसी-541496एक्स	—	01 सितम्बर 14
हवलदार	सोबन सिंह	नं० 4185271ए अब जेसी-541497ए	—	01 सितम्बर 14
हवलदार	मुकेश	नं० 4185545ए अब जेसी-541498एच	—	01 सितम्बर 14
हवलदार	लक्ष्मन कुमार	नं० 4184917एन अब जेसी-541499एल	—	01 सितम्बर 14
हवलदार	पुष्कर सिंह धामी	नं० 4185272एच अब जेसी-541500पी	—	01 सितम्बर 14
हवलदार	इन्द्र सिंह रौतेला	नं० 4185230डब्ल्यू अब जेसी-541501एक्स	—	01 सितम्बर 14
हवलदार	रामा नन्द	नं० 4184560एच अब जेसी-541502ए	—	01 सितम्बर 14

हवलदार	देवेन्द्र प्रसाद	नं० 4185286एच अब जेसी-541503एच	—	01 सितम्बर 14
हवलदार	ललिता प्रसाद सिंह मेहता	नं० 4185236एक्स अब जेसी-541504एल	—	01 सितम्बर 14
हवलदार	देवकी नन्दन	नं० 4185259वाई अब जेसी-541505एन	—	01 सितम्बर 14
हवलदार	गिरीश चन्द्रा पन्त	नं० 4185278के अब जेसी-541506डब्ल्यू	—	13 अक्टूबर 14 01 सितम्बर 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 14 से दी गई है।				
हवलदार	हीरा सिंह रावत	नं० 4184303एल अब जेसी-541507वाई	—	02 सितम्बर 14 01 सितम्बर 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 14 से दी गई है।				
हवलदार	सुरेश चन्द्रा	नं० 4184304एन अब जेसी-541508एफ	—	01 सितम्बर 14
हवलदार	कृपाल सिंह	नं० 4185250के अब जेसी-541509के	—	01 सितम्बर 14
हवलदार	मनोहर सिंह	नं० 4183822एम अब जेसी-541510वाई	—	01 सितम्बर 14
हवलदार	खडक सिंह	नं० 4183858ए अब जेसी-541511एफ	—	01 सितम्बर 14
हवलदार	नरेन्द्र सिंह कठेत	नं० 4185179एफ अब जेसी-541512के	—	01 सितम्बर 14
हवलदार	झुगर सिंह	नं० 4184121एक्स अब जेसी-541513एम	—	01 सितम्बर 14
हवलदार	ललित मोहन सामन्त	नं० 4185481ए अब जेसी-541514पी	—	01 सितम्बर 14
हवलदार	देवेन्द्र सिंह	नं० 4184955के अब जेसी-541515एक्स	—	01 सितम्बर 14
हवलदार	चेत राम यादव	नं० 4184643एन अब जेसी-541516ए	—	04 सितम्बर 14 01 सितम्बर 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 14 से दी गई है।				
हवलदार	आशीश सिंह चौहान	नं० 4198593वाई अब जेसी-541517एच	—	13 सितम्बर 14 11 सितम्बर 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 11 सितम्बर 14 से दी गई है।				
हवलदार	उदय बीर	नं० 4184672एच अब जेसी-541518एल	—	01 अक्टूबर 14
हवलदार	मोहन सिंह	नं० 4184908एम अब जेसी-541519एन	—	01 अक्टूबर 14
हवलदार	दारा सिंह	नं० 4185152के अब जेसी-541520एच	—	01 अक्टूबर 14
हवलदार	अर्जुन सिंह	नं० 4184306वाई अब जेसी-541521एल	—	01 अक्टूबर 14
हवलदार	ठाकुर सिंह	नं० 4184307एफ अब जेसी-541522एन	—	01 अक्टूबर 14
हवलदार	खुशाल सिंह	नं० 4183810एम अब जेसी-541523डब्ल्यू	—	01 अक्टूबर 14
हवलदार	शिवेन्द्र सिंह	नं० 4184956एम अब जेसी-541524वाई	—	01 अक्टूबर 14
हवलदार	सतीश कुमार	नं० 4202783एल अब जेसी-541525एफ	—	28 नवम्बर 14 04 अक्टूबर 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 04 अक्टूबर 14 से दी गई है।				
हवलदार	गोपाल सिंह राणा	नं० 4184958एक्स अब जेसी-541526के	—	10 नवम्बर 14 01 नवम्बर 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 14 से दी गई है।				
हवलदार	विजय कुमार	नं० 4185137पी अब जेसी-541527एम	—	01 नवम्बर 14
हवलदार	जीवन सिंह	नं० 4185363एम अब जेसी-541528पी	—	01 नवम्बर 14

हवलदार	कश्मीर सिंह	नं० 4184545एन अब जेसी-541529एक्स	—	01 नवम्बर 14
हवलदार	गोन्विद सिंह	नं० 4184414एच अब जेसी-541530एम	—	01 नवम्बर 14
हवलदार	हरीश चन्द्र सिंह, सैना मेडल	नं० 4184805एन अब जेसी-541531पी	—	07 दिसम्बर 14 02 नवम्बर 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 02 नवम्बर 14 से दी गई है।				
हवलदार	रमेश सिंह	नं० 4184815एक्स अब जेसी-541532एक्स	—	07 दिसम्बर 14 01 दिसम्बर 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 14 से दी गई है।				
हवलदार	हरीश सिंह कन्याल	नं० 4184875एम अब जेसी-541533ए	—	01 दिसम्बर 14
हवलदार	रमेश सिंह यादव	नं० 4184940एफ अब जेसी-541534एच	—	01 दिसम्बर 14
हवलदार	चंचल सिंह चौहान	नं० 4184229पी अब जेसी-541535एल	—	01 दिसम्बर 14
हवलदार	इन्द्र सिंह	नं० 4185205एक्स अब जेसी-541536एन	—	01 दिसम्बर 14
हवलदार	महेन्द्र सिंह	नं० 13619902एफ अब जेसी-541537डब्ल्यू	—	01 दिसम्बर 14
हवलदार	कुन्दन सिंह खोलिया	नं० 4184000डब्ल्यू अब जेसी-541538वाई	—	01 दिसम्बर 14
हवलदार	गोविन्द सिंह	नं० 4185381पी अब जेसी-541539एफ	—	01 दिसम्बर 14
हवलदार	सुन्दर सिंह	नं० 4185452एल अब जेसी-541540डब्ल्यू	—	01 दिसम्बर 14
हवलदार	रविन्द्र सिंह	नं० 4185466एल अब जेसी-541541वाई	—	01 दिसम्बर 14
हवलदार	लाल सिंह रावत	नं० 4184123एच अब जेसी-541542एफ	—	06 दिसम्बर 14 01 दिसम्बर 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 14 से दी गई है।				
हवलदार	मोहन चन्द्रा	नं० 4184393एक्स अब जेसी-541543के	—	01 दिसम्बर 14
हवलदार	भुपेन्द्र सिंह धामी	नं० 4185533एल अब जेसी-541544एम	—	01 दिसम्बर 14
नागा रेजिमेन्ट				
हवलदार	के एल तगसेल अनल	नं० 14702948वाई अब जेसी-590381एन	—	23 अगस्त 14 12 अगस्त 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 12 अगस्त 14 से दी गई है।				
हवलदार	मन मोहन सिंह	नं० 14703014एन अब जेसी-590382डब्ल्यू	—	12 सितम्बर 14 01 सितम्बर 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 14 से दी गई है।				
हवलदार	डब्ल्यू एस गेब्रियल अनल	नं० 14702810के अब जेसी-590383वाई	—	11 दिसम्बर 14 13 जुलाई 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 13 जुलाई 14 से दी गई है।				
हवलदार	सी एच लोखो	नं० 14702968एम अब जेसी-590384एफ	—	11 दिसम्बर 14 13 जुलाई 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 13 जुलाई 14 से दी गई है।				
हवलदार	फ़रंग रगवार	नं० 14703184एक्स अब जेसी-590385के	—	04 जनवरी 15 20 जुलाई 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 20 जुलाई 14 से दी गई है।				

हवलदार	योत्सुमोंग पुमचुंगरू	नं० 14703394एक्स अब जेसी—590386एम	—	11 दिसम्बर 14 01 सितम्बर 14•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 14 से दी गई है।				
हवलदार	एल अमोस कॉम	नं० 14702819वाई अब जेसी—590387पी	—	01 अक्टूबर 14
हवलदार	नन्दन सिंह	नं० 14703077डब्ल्यू अब जेसी—590388एक्स	—	01 नवम्बर 14

डोगरा रेजिमेण्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार करम चन्द	(3993165एफ अब जेसी 522033एन)	\$4 सितम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2014 से।		
हवलदार सुरेन्द्र सिंह	(3991260पी अब जेसी 522034डब्ल्यू)	\$20 अगस्त 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 मई 2014 से।		
हवलदार राजेश कुमार	(3993185पी अब जेसी 522035वाई)	\$21 अगस्त 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 मई 2014 से।		
हवलदार पवन कुमार	(3991298वाई अब जेसी 522036एफ)	\$20 अगस्त 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 7 जून 2014 से।		
हवलदार पवन कुमार	(3993189एल अब जेसी 522037के)	\$1 अगस्त 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जून 2014 से।		
हवलदार अमित राना	(4000550एफ अब जेसी 522038एम)	\$11 सितम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जुलाई 2014 से।		
हवलदार दीदार सिंह	(3991330एच अब जेसी 522039पी)	\$22 अगस्त 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2014 से।		
हवलदार गुरमिन्द्र सिंह	(3991524एल अब जेसी 522040के)	\$30 अगस्त 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2014 से।		
हवलदार निक्का राम	(3991318एफ अब जेसी 522041एम)	\$11 सितम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2014 से।		
हवलदार बेसर सिंह	(3993283पी अब जेसी 522042पी)	\$13 सितम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2014 से।		
हवलदार सुरेन्द्र सिंह	(3991946डब्ल्यू अब जेसी 522043एक्स)	\$31 अक्टूबर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 जुलाई 2014 से।		
हवलदार पुल्ला सिंह	(3992002एफ अब जेसी 522044ए)	\$25 अक्टूबर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 जुलाई 2014 से।		
हवलदार नरेश कुमार	(3991792पी अब जेसी 522045एच)	\$7 सितम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 8 जुलाई 2014 से।		
हवलदार संजीव कुमार	(3991813ए अब जेसी 522046एल)	\$15 सितम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2014 से।		
हवलदार नरोत्तम सिंह	(3991831एच अब जेसी 522047एन)	\$7 सितम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अगस्त 2014 से।		
हवलदार राजेश कुमार	(3991836एफ अब जेसी 522048डब्ल्यू)	\$15 सितम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2014 से।		
हवलदार कुल्दीप राज	(3991526डब्ल्यू अब जेसी 522049वाई)	\$11 अक्टूबर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 सितम्बर 2014 से।		
हवलदार यशपाल सिंह	(3991530वाई अब जेसी 522050एन)	\$11 अक्टूबर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 सितम्बर 2014 से।		

हवलदार राम मूर्ती	(3991533एम अब जेसी 522051डब्ल्यू)	\$3 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार जय रथ	(3990566एल अब जेसी 522052वाई)	\$30 अक्टूबर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार राम लाल	(3991108एफ अब जेसी 522053एफ)	\$30 अक्टूबर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार देविन्द्र सिंह	(3991329एन अब जेसी 522054के)	\$31 अक्टूबर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार लाल बहादुर	(3991532के अब जेसी 522055एम)	\$1 अक्टूबर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2014 से ।		
हवलदार अनिल कुमार शर्मा	(3991196एच अब जेसी 522056पी)	\$25 सितम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2014 से ।		
हवलदार कलवन्त सिंह	(3991875ए अब जेसी 522057एक्स)	\$11 अक्टूबर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 सितम्बर 2014 से ।		
हवलदार नरेन्द्र प्रकाश	(3991246एच अब जेसी 522058ए)	\$12 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार पवन कुमार	(3991345एल अब जेसी 522059एच)	\$5 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार तिलक राज	(3991359एल अब जेसी 522060एक्स)	\$5 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार राकेश कुमार	(3991264एल अब जेसी 522061ए)	\$5 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार कमल सिंह	(3991375एच अब जेसी 522062एच)	\$5 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार अशोक कुमार	(3991413एन अब जेसी 522063एच)	\$5 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2014 से ।		
हवलदार जीवन सिंह	(3992384डब्ल्यू अब जेसी 522068के)	\$25 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2014 से ।		
हवलदार अशोक कुमार	(3185384एम अब जेसी 522069एम)	\$28 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 सितम्बर 2014 से ।		
हवलदार अशोक कुमार	(3991908ए अब जेसी 522070एफ)	\$6 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार राकेश कुमार	(3992134पी अब जेसी 522071के)	\$14 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार रन्जीत	(3992216एक्स अब जेसी 522072एम)	\$15 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार राकेश कुमार	(3992232पी अब जेसी 522073पी)	\$14 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार राजीव कुमार	(3992407एम अब जेसी 522074एक्स)	\$18 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार जगदेव सिंह	(3992945ए अब जेसी 522075ए)	\$29 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2014 से ।		
हवलदार राजेश कुमार	(3991970एम अब जेसी 522076एच)	\$1 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2014 से ।		
हवलदार जितेन्द्र कुमार	(3991235डब्ल्यू अब जेसी 522077एल)	1 दिसम्बर 2014
हवलदार चुनी लाल	(3991459डब्ल्यू अब जेसी 522078एन)	1 दिसम्बर 2014

हवलदार अशोक कुमार	(3991988एच अब जेसी 522079डब्ल्यू)	1 दिसम्बर 2014
हवलदार अमरजीत सिंह पटियाल	(3992476एच अब जेसी 522080एल)	1 दिसम्बर 2014
हवलदार दीपक कुमार	(3992316एच अब जेसी 522081एन)	\$25 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2014 से ।		
हवलदार ओम प्रकाश	(3992596एफ अब जेसी 522082डब्ल्यू)	\$12 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2014 से ।		
हवलदार संजय गौतम	(3992632एफ अब जेसी 522083वाई)	\$3 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जुलाई 2014 से ।		
हवलदार यश पाल सिंह	(3992634एम अब जेसी 522084एफ)	\$3 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जुलाई 2014 से ।		
हवलदार राम सिंह	(3992685ए अब जेसी 522085के)	\$12 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2014 से ।		
हवलदार प्रदीप कुमार	(3992687एल अब जेसी 522086एम)	\$3 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2014 से ।		
हवलदार नरेश सिंह	(3992668ए अब जेसी 522087पी)	\$3 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 8 सितम्बर 2014 से ।		
हवलदार अनिल कुमार	(3992486एम अब जेसी 522088एक्स)	\$22 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 सितम्बर 2014 से ।		
हवलदार करम चन्द	(3991845एच अब जेसी 522089ए)	\$24 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार रशपाल शर्मा	(3991856पी अब जेसी 522090पी)	\$28 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार सुरेश कुमार	(3991877एल अब जेसी 522091एक्स)	\$24 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार रघबीर सिंह	(3991891एक्स अब जेसी 522092ए)	\$24 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2014 से ।		
हवलदार सुभाष चन्द्र	(3991902वाई अब जेसी 522093एच)	\$26 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2014 से ।		
हवलदार जालम सिंह	(3991943एच अब जेसी 522094एल)	\$24 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2014 से ।		
हवलदार सरवन कुमार	(3991967एम अब जेसी 522095एन)	\$24 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2014 से ।		
हवलदार सुभाष चन्द	(3991979एफ अब जेसी 522096डब्ल्यू)	\$24 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2014 से ।		
हवलदार हंश राज	(3991986एक्स अब जेसी 522097वाई)	\$16 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2014 से ।		
हवलदार राजेश कुमार	(3992123एच अब जेसी 522098एफ)	\$13 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 नवम्बर 2014 से ।		
हवलदार संजीव कुमार	(3989453डब्ल्यू अब जेसी 522099के)	\$12 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2014 से ।		
हवलदार राज कुमार	(3989819एच अब जेसी 522100एन)	\$12 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2014 से ।		
हवलदार मोती सिंह	(3990031एक्स अब जेसी 522101डब्ल्यू)	\$12 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2014 से ।		
हवलदार राजेश पाल सिंह	(3992580डब्ल्यू अब जेसी 522102वाई)	\$13 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2014 से ।		

हवलदार जगदेव सिंह	(3993297पी अब जेसी 522103एफ)	\$24 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2014 से ।		
हवलदार राजेन्द्र कुमार	(3993316पी अब जेसी 522104के)	\$24 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2014 से ।		
हवलदार सुरेश कुमार	(3992177के अब जेसी 522105एम)	\$3 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2014 से ।		
हवलदार सुरेन्द्र सिंह	(3991896डब्ल्यू अब जेसी 522106पी)	\$10 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार सिमल चन्द	(3991640एन अब जेसी 522107एक्स)	\$23 नवम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अक्टूबर 2014 से ।		
हवलदार सुरेन्द्र सिंह कटोच	(3991789पी अब जेसी 522108ए)	\$13 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2014 से ।		
हवलदार आत्मा सिंह	(3992159एफ अब जेसी 522109एच)	\$27 दिसम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2014 से ।		

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार@लिपिक एम मंगेश कुमार	(3994572डब्ल्यू अब जेसी 522064एन)	\$1 जुलाई 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2014 से ।		
हवलदार@लिपिक बलदेव राज	(3993145एन अब जेसी 522065डब्ल्यू)	\$18 सितम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2014 से ।		
हवलदार@लिपिक अतुल तिवारी	(3992369एफ अब जेसी 522066वाई)	\$20 सितम्बर 2014
\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2014 से ।		

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिए

सूबेदार दर्शन कुमार	(जेसी 593024डब्ल्यू)	02 मई 2014
सूबेदार मेजर रैंक में 01 मई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है		
सूबेदार प्रभोत्तम सिंह	(जेसी 593333वाई)	01 अगस्त 2014
सूबेदार मेजर रैंक में 01 अगस्त 2014 से वरिष्ठता दी जाती है		

नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए

हवलदार कर्म चंद	(9096618एफ अब जेसी 594456एक्स)	20 अगस्त 2014
नायब सूबेदार रैंक में 11 अप्रैल 2014 से वरिष्ठता दी जाती है		
हवलदार जगताप सिंह	(9089925डब्ल्यू अब जेसी 594457ए)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अगस्त 2014 से वरिष्ठता दी जाती है		
हवलदार बीर सिंह	(9094355पी अब जेसी 594458एच)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अगस्त 2014 से वरिष्ठता दी जाती है		
हवलदार सत पाल	(9094623एन अब जेसी 594459एल)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अगस्त 2014 से वरिष्ठता दी जाती है		
हवलदार मोहम्मद अशफाक	(9094170एन अब जेसी 594460ए)	24 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 18 सितम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है		
हवलदार गुलाम मुस्तफा	(9096261डब्ल्यू अब जेसी 594461एच)	10 जुलाई 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014 से वरिष्ठता दी जाती है		
हवलदार प्रभ दयाल	(9094453पी अब जेसी 594462एल)	13 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अगस्त 2014 से वरिष्ठता दी जाती है		
हवलदार कस्तूरी लाल, सेना मैडल	(9094456एच अब जेसी 594463एन)	12 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अगस्त 2014 से वरिष्ठता दी जाती है		

हवलदार पूरन चंद (9096480एक्स अब जेसी 594464डब्ल्यू)	18 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 सितम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार वजाहत हुसैन (9096039पी अब जेसी 594465वाई)	27 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 18 सितम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार योग राज (9094796एल अब जेसी 594466एफ)	27 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 18 सितम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अश्वनी कुमार (9096123पी अब जेसी 594467के)	27 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 18 सितम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार रविन्द्र सिंह (9096204पी अब जेसी 594468एम)	27 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 18 सितम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार करपाल सिंह (9089709एच अब जेसी 594469पी)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अक्टूबर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार रोमेश सिंह (9094322के अब जेसी 594470के)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अक्टूबर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अबदुल रशीद (9094600एम अब जेसी 594471एम)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अक्टूबर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार लियाकत अली (9094601पी अब जेसी 594472पी)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अक्टूबर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार प्रीतम दास (9094656वाई अब जेसी 594473एक्स)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अक्टूबर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार लिपिक सुरेन्द्र सिंह चौहान (3392770एल अब जेसी 594474ए)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अक्टूबर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार चैन सिंह (9113206वाई अब जेसी 594475एच)	18 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 13 मार्च 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मंजूर हुसैन (9095826के अब जेसी 594476एल)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अक्टूबर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार नूर अलाई (9095878ए अब जेसी 594477एन)	02 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 02 अक्टूबर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार राजेश शर्मा (9094434के अब जेसी 594480एन)	11 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 21 सितम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार आशा राम (9094444ए अब जेसी 594481डब्ल्यू)	28 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 30 सितम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार प्रीतम सिंह (9094473एच) अब जेसी 594482वाई)	10 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 07 अक्टूबर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार तारा चन्द्र (9094427एन अब जेसी 594483एफ)	29 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 18 अक्टूबर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार लखबिन्दर सिंह (9089535एन अब जेसी 594484के)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद अफजल (9094504एक्स अब जेसी 594485एम)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मुस्ताक अहमद (9089976के अब जेसी 594486पी)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार जिया लाल (9094436पी अब जेसी 594487एक्स)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार (लिपिक) जय पाल सिंह (9099325एफ अब जेसी 594488ए)	07 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	

हवलदार रघुनाथ सिंह (9089768पी अब जेसी 594489एच)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार राजेन्द्र सिंह (9094417के अब जेसी 594490एक्स)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अमरीक सिंह (9094681एक्स अब जेसी 594491ए)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार परषोत्तम सिंह (9094714एक्स अब जेसी 594412एच)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मजीद अहमद (9094488एल अब जेसी 594493एल)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार जुल्फकार खान (9096020डब्ल्यू अब जेसी 594494एन)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद क्यूम (9096088एक्स अब जेसी 594415डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार जाकर हुसैन (9094952के अब जेसी 594496वाई)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुरेश कुमार (9096602एम) अब जेसी 594497एफ)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सरफराज अहमद खान (9096700डब्ल्यू अब जेसी 594498के)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार गुलाम मोहम्मद उद दीन तेली (9096937एन अब जेसी 594499एम)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार र्बर्ण सिंह (9094759एक्स अब जेसी 594500डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद नसीर (9094814एच अब जेसी 594501वाई)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार पवन कुमार (9094914एन अब जेसी 594502एफ)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुनील दत्त, सेना मैडल (9095594 डब्ल्यू अब जेसी 594503के)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहिन्दर लाल (9095563डब्ल्यू अब जेसी 594504एम)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार शंकर सिंह (9096145एन अब जेसी 594505पी)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार उत्तम सिंह (9095599पी अब जेसी 594506पी)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार जगदीश सिंह (9096487एफ अब जेसी 594507ए)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार (लिपिक) अगलावे दशरथ चिलाप्पा (9099326के अब जेसी 594508एच)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सधीर अहमद (9094516एम अब जेसी 594509एल)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मीर हुसैन (9094518के अब जेसी 594510ए)	13 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुरजीत सिंह (9094405पी अब जेसी 594511एच)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	

हवलदार विक्रम सिंह (9094732ए अब जेसी 594512एल)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार संदीप कुमार (9094372पी अब जेसी 594513एन)	03 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार जगदीश चंदर (9095568पी अब जेसी 594514डब्ल्यू)	21 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार दर्शन सिंह (9095589एल अब जेसी 594515वाई)	03 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार योगिन्द्र पाल (9095598एम अब जेसी 594516एल)	15 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार राज कुमार (9094470पी अब जेसी 594517के)	15 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद अशरफ (9094531एफ अब जेसी 594518एम)	15 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मनजीत सिंह (9094650एक्स अब जेसी 594519पी)	15 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुरेन्द्र सिंह (9094739के अब जेसी 594520के)	15 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मंगर सिंह (9094713पी अब जेसी 594521एम)	15 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार गर्ध्व सिंह (9094719डब्ल्यू अब जेसी 594522पी)	15 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुभाश लाल (9094896 डब्ल्यू अब जेसी 594523एक्स)	15 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद इकवाल (9094900एन अब जेसी 594524ए)	15 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुरेन्द्र कुमार (9094985पी अब जेसी 594525एच)	15 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
नायक (लिपिक) राकेश पाण्डेय (6396550एफ अब जेसी 594526एल)	27 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (धर्म गुरु) रैंक में 27 सितम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अशोक कुमार (9095483वाई अब जेसी 594527एन)	05 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार संजय कुमार (9096626ए अब जेसी 594528डब्ल्यू)	12 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार शकूर अहमद (9096772ए अब जेसी 594529वाई)	12 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार नसीर अहमद (9089832एफ अब जेसी 594530एन)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार बलवीर सिंह (9094984एम अब जेसी 594531डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद अनवर (9094993एन अब जेसी 594532वाई)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सोम दत्त (9095680एफ अब जेसी 594533एफ)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार रवि कुमार (9097457डब्ल्यू अब जेसी 594534के)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	

हवलदार राज सिंह (9097527के अब जेसी 594535एम)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सरदारी लाल (9096988एफ अब जेसी 594536पी)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अशोक कुमार (9095517 एफ अब जेसी 594404एफ)	23 मई 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार नसीब सिंह (9089915एम अब जेसी 594405के)	01 मई 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अब्दुल क्यूम (9094296एन अब जेसी 594406एम)	26 मई 2014
नायब सूबेदार रैंक में 07 मई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुभाष चन्द्र (9094392एच अब जेसी 594407पी)	10 मई 2014
नायब सूबेदार रैंक में 07 मई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार लिपिक परसनाथ तिवारी (9102528वाई अब जेसी 594408एक्स)	02 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार लिपिक योगेन्द्रा सिंह (9101066एल अब जेसी 594409ए)	02 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार गुलाम रसूल (9089874एन अब जेसी 594410पी)	21 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार रैंक में 08 अक्टूबर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार गुलजार हुसैन (9096108ए अब जेसी 594411एक्स)	14 मई 2014
नायब सूबेदार रैंक में 03 दिसम्बर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद अफजल (9096386एन अब जेसी 594412ए)	21 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार रैंक में 03 दिसम्बर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अशोक कुमार (9089896एम अब जेसी 594413एच)	01 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अब्दुल लतीफ (9095676वाई अब जेसी 594414एल)	01 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार जरनैल सिंह (9095805एन अब जेसी 594415एन)	01 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद आजम (9089870एक्स अब जेसी 594416डब्ल्यू)	10 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 24 अप्रैल 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार प्रहलाद सिंह (9094394एन अब जेसी 594417वाई)	01 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 07 मई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सादिक हुसैन (9089857एन अब जेसी 594418एफ)	01 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 25 मई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद ईकबाल (9094213एक्स अब जेसी 594419के)	04 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार धर्म सिंह (9094246एच अब जेसी 594420वाई)	04 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अंग्रेज सिंह (9094241के अब जेसी 594421एफ)	11 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार यशपाल (9094249डब्ल्यू अब जेसी 594422के)	11 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद सफी मीर (9094333डब्ल्यू अब जेसी 594423एम)	10 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुरेन्द्र सिंह (9094888एक्स अब जेसी 594424पी)	10 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	

हवलदार मोहम्मद फारुक (9094290एम अब जेसी 594425एक्स)	01 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सोहन सिंह बहू (9094395डब्ल्यू अब जेसी 594426ए)	01 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार कृष्ण चन्द (9094400डब्ल्यू अब जेसी 594427एच)	01 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार रशपाल चन्द (9089771पी अब जेसी 594428एल)	01 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार शाम लाल (9089773ए अब जेसी 594429एन)	01 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अशोक कुमार (9089775एल अब जेसी 594430एच)	01 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार लिपिक गुरमीत सिंह रंधावा (9099213एफ अब जेसी 594431एल)	01 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद इकबाल (9095632एफ अब जेसी 594432एन)	12 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 04 जून 2013से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुरेश कुमार (9096452एल अब जेसी 594433डब्ल्यू)	18 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 03 दिसम्बर 2013से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मदन लाल (9096651वाई अब जेसी 594434वाई)	18 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 07 मई 2014से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार तरसेम लाल (9096630एच अब जेसी 594435एफ)	08 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 18 मई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार करण सिंह (9096471 डब्ल्यू अब जेसी 594436के)	08 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 18 मई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार भूषण लाल (9089893वाई अब जेसी 594437एम)	11जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार इन्द्रजीत सिंह (9094269के अब जेसी 594438पी)	26जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अमीर चन्द (9094328एल अब जेसी 594439एक्स)	17जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार लिपिक दीपक कुमार डिमरी (9101067एन अब जेसी 594440एम)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जुलाई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार लिपिक शिव कुमार (9101069वाई अब जेसी 594441पी)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जुलाई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुरेन्द्र सिंह (9095425पी अब जेसी 594442एक्स)	24 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अलताफ हुसैन(9089979एक्स अब जेसी 594443ए)	05 जुलाई 2014
नायब सूबेदार रैंक में 21 मई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार राजेन्द्र कुमार (9094404एम अब जेसी 594444एच)	23 जून 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार बिसम्बर दास (9094242एम अब जेसी 594445एल)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जुलाई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद बसीर (9095996एन अब जेसी 594446एन)	05 जुलाई 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जुलाई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अशोक कुमार (9089899ए अब जेसी 594447डब्ल्यू)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 जुलाई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	

हवलदार लिपिक यशपाल सिंह (9101071डब्ल्यू अब जेसी 594448वाई)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अगस्त 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मुस्ताक हुसैन (9089509एम अब जेसी 594449एफ)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अगस्त 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद हनीफ (9094598ए अब जेसी 594450डब्ल्यू)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अगस्त 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार कुलदीप सिंह, सेना मेडल (9094326ए अब जेसी 594451वाई)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अगस्त 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार प्रवीन सिंह (9089916पी अब जेसी 594452एफ)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अगस्त 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सत पाल (9094449एम अब जेसी 594453के)	15 अगस्त 2014
नायब सूबेदार रैंक में 13 जुलाई 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार राकेश कुमार (9094408एम अब जेसी 594454एम)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 सितम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार लिपिक विजय सिंह (9101072वाई अब जेसी 594455पी)	03 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 सितम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार रतन लाल (9096011पी अब जेसी 594539एच)	29 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अक्टूबर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अशोक कुमार (9094468एक्स अब जेसी 594540एक्स)	19 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 12 अक्टूबर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद अशरफ खान (9096012एक्स अब जेसी 594541ए)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार कुलदीप सिंह (9096047एन अब जेसी 594542एच)	02 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मुश्ताक अहमद वानी (9096750एफ अब जेसी 594543एल)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार बोध राज (9094724एफ अब जेसी 594544एन)	13 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 सितम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार जगन्नाथ (9094445 डब्ल्यू अब जेसी 594545डब्ल्यू)	16 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 अक्टूबर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार हरगोविन्द लाल (9094472ए अब जेसी 594546वाई)	15 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार कृष्ण लाल (9089721के अब जेसी 594547एफ)	12 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार रशीद अहमद (9094988एच अब जेसी 594548के)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार विजय कुमार (9095441एम अब जेसी 594549एम)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मदन लाल (9095447एन अब जेसी 594550एफ)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मनहोर सिंह (9096146डब्ल्यू अब जेसी 594551के)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार संजय कुमार (9096206ए अब जेसी 594552एम)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार दर्शन लाल (9096273एल अब जेसी 594553पी)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	

हवलदार संजय कुमार (9096290एल अब जेसी 594554एक्स)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार तिलक राज (9096330एफ अब जेसी 594555ए)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार चंचल राम (9094409एल अब जेसी 594556एच)	22 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 04 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुभाष चंद्र (9095606ए अब जेसी 594557एल)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 13 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार शकील अहम्मद (9096821एक्स अब जेसी 594558एन)	03 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2015 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सूरम सिंह (9095505एम अब जेसी 594559डब्ल्यू)	30 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 06 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद सईद (9096070एफ अब जेसी 594560एल)	10 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 08 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार विजय कुमार (9096154पी अब जेसी 594561एन)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 08 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार (लिपिक) दोम्बले मचिन्द्रा तुकाराम (9099330एम अब जेसी 594562डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार राम पाल (9097175एक्स अब जेसी 594563वाई)	12 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार शौकत अली (9094306एम अब जेसी 594564एफ)	12 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार वशारत हुसैन शाह (9094493डब्ल्यू अब जेसी 594565के)	30 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 11 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार लेख राज (9094980डब्ल्यू अब जेसी 594566एम)	16 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 14 नवम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार शाम लाल (9095591एच अब जेसी 594567 पी)	12 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार जाकर हुसैन (9096586के अब जेसी 594568एक्स)	18 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 02 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार करन सिंह (9095495एन अब जेसी 594569ए)	26 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 04 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार इमतियाज अहमद (9096817पी अब जेसी 594570पी)	08 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 04 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद लतीफ (9094538एल अब जेसी 594571एक्स)	03 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 06 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार शौकतअहम्मद भट्ट (9094604एच अब जेसी 594572ए)	30 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 06 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद मुश्ताक (9094761पी अब जेसी 594573एच)	30 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 06 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद आसुफ (9094779एल अब जेसी 594574एल)	30 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 06 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार चमेलसिंह (9094824एम अब जेसी 594575एन)	30 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार रैंक में 06 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार पवन कुमार (9097273एक्स अब जेसी 594576डब्ल्यू)	12 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 13 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	

हवलदार सुरेंद्र पाल (9096230डब्ल्यू अब जेसी 594577वाई)	12 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 14 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुरजीत सिंह (9095609एन अब जेसी 594578एफ)	07 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 16 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अशोक कुमार (9095631वाई अब जेसी 594579के)	07 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 17 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार परमजीत सिंह (9094678एक्स अब जेसी 594580वाई)	06 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 20 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार फयाज आलम (9094570ए अब जेसी 594581एफ)	07 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 24 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार इश्ताक अहम्मद (9094577के अब जेसी 594582के)	12 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 24 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार ओकांर सिंह (9094671एन अब जेसी 594583एम)	06 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 25 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार जाकिर हुसैन (9094696ए अब जेसी 594584पी)	12 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 28 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार नजक हुसैनशाह (9094924एक्स अब जेसी 594585एक्स)	12 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार बिशन दास (9095567एम अब जेसी 594586ए)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार राम पाल सिंह (9095636एक्स अब जेसी 594587एच)	07 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मूल राज (9095683पी अब जेसी 594588एल)	07 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अजय कुमार (9095696एम अब जेसी 594589एन)	07 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मस्त राम (9095715एम अब जेसी 594590एच)	10 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद अयूब (9096846के अब जेसी 594591एल)	08 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार शमशेर सिंह (9097533एक्स अब जेसी 594592एन)	12 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार रवन कुमार (9097502एक्स अब जेसी 594593डब्ल्यू)	29 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 06 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सतनाम सिंह (9094410ए अब जेसी 594594वाई)	29 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 06 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार परवीन कुमार (9097555डब्ल्यू अब जेसी 594595एफ)	27 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 11 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार राज अली (9094642वाई अब जेसी 594596के)	24 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 22 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार जंग वहादुर (9095709वाई अब जेसी 594597एम)	29 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 30 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार गोवर्धन लाल (9094706वाई अब जेसी 594598पी)	23 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 31 दिसम्बर 2014 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार राज कुमार (9096060एक्स अब जेसी 594599एक्स)	29 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है	

हवलदार जसवंत सिंह (9097072वाई अब जेसी 594600एफ)	24 जनवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 07 जनवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार काकू दीन (9096091एक्स अब जेसी 594601के)	02 फरवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 11 जनवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार उत्तम सिंह (9095685ऐ अब जेसी 594602एम)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार (लिपिक) अर्जुन सिंह (9101083एल अब जेसी 594603पी)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार (लिपिक) राजीव रजन सिंह (9098579एम अब जेसी 594604एक्स)	02 फरवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार (लिपिक) बिजेन्द्र कुमार (9098580एफ अब जेसी 594605ए)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार (लिपिक) भरत कुमार शर्मा (9101078ऐ अब जेसी 594606एच)	02 फरवरी 2015
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2015 से वरिष्ठता दी जाती है	

वी एन रविन्द्रन
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 30th May 2015

(AIR BRANCH)

No. 133, dated 12 May 2015—The President is pleased to grant Permanent Commission to the undermentioned SSC officers, on completion of their tenure of SSC wef from the date shown against their names under the provision of Govt of India, Min of Def letter No. 160CC/D(Air-III)/2011, Air HQ/21901/SSC/PC/PO-3(E) dated 05 Aug 11.

ACCTS BRANCH

Wg Cdr T Asha Jyothirmai (25038) wef 20 Dec 02

Sqn Ldr Mrinalini Sinha (25417) wef 19 Dec 03

Sqn Ldr Kavita Kathuria (25418) wef 19 Dec 03

Sqn Ldr Pushpa Mishra (26177) wef 16 Jun 05

ADM BRANCH

Wg Cdr U Shaligram (24114) wef 29 Jun 01

Wg Cdr Bhawana Mehra (24116) wef 29 Jun 01

Wg Cdr Sweta Rawat (24308) wef 21 Dec 01

Wg Cdr Tarannum Misbah (24312) wef 21 Dec 01

Wg Cdr Rashmi Bharadwaj (24591) wef 21 Jun 02

Wg Cdr Amrita Basudev (24596) wef 21 Jun 02

Wg Cdr Sukhbir Kaur Minhas (24599) wef 05 Jul 02

Wg Cdr Vasini Ramachandran (24608) wef 05 Jul 02

Wg Cdr Sujatha Ponnusamy (24614) wef 05 Jul 02

Wg Cdr Rinku Pandhi (24635) wef 05 Jul 02

Wg Cdr Shikha Garg (25030) wef 20 Dec 02

Wg Cdr V Ajita (25031) wef 20 Dec 02

Wg Cdr Nidhi Sharma (25179) wef 20 Jun 03

Wg Cdr Mamta Dharwal (25180) wef 20 Jun 03

Wg Cdr Rachana Purohit (25182) wef 20 Jun 03

Wg Cdr Asha Vashist (25183) wef 20 Jun 03

Wg Cdr Shailja Sharma (25184) wef 20 Jun 03

Wg Cdr Sangeeta Sikri (25185) wef 20 Jun 03

Sqn Ldr Reena Bahl (25404) wef 19 Dec 03

Sqn Ldr Sourabh Sood (25405) wef 19 Dec 03

Sqn Ldr Meenakshi Nigam (25406) wef 19 Dec 03

Sqn Ldr Nirmala Tyagi (25692) wef 19 Jun 04

Sqn Ldr Anjali Iyer (25694) wef 19 Jun 04

Sqn Ldr Anisha Hatwal (25921) wef 18 Dec 04

Sqn Ldr Manju Bhaskar (25922) wef 18 Dec 04

Sqn Ldr Rohina Saxena (25925) wef 18 Dec 04

Sqn Ldr Mahima Sharma (25926) wef 18 Dec 04

Sqn Ldr Julie Paikkatt (25927) wef 18 Dec 04

Sqn Ldr Sujata Tiwari (25928) wef 18 Dec 04

Sqn Ldr Lathika Bolkaranda Madaiah (26172) wef 16 Jun 05

Sqn Ldr Rochelle Cecelia D'silva (26175) wef 16 Jun 05

Sqn Ldr Ved Prakash (26188) wef 23 Jun 06
Sqn Ldr Rajesh Nambiar (26189) wef 23 Jun 06
Sqn Ldr M Vinay Kumar (26190) wef 23 Jun 06
Sqn Ldr Kuniyil Santosh (26191) wef 23 Jun 06
Sqn Ldr Gagan Kant Sharma (26192) wef 23 Jun 06
Sqn Ldr Veggalam Sateesh (26194) wef 23 Jun 06
Sqn Ldr Ajay Nautiyal (26197) wef 23 Jun 06
Sqn Ldr Ravi Ahlawat (26198) wef 23 Jun 06
Sqn Ldr Jagath Prasanth (26199) wef 23 Jun 06
Sqn Ldr Prateek Kumar Tailang (26200) wef 23 Jun 06
Sqn Ldr PN Siva Subramaniam (26203) wef 23 Jun 06
Sqn Ldr Narinder Singh (26207) wef 23 Jun 06
Sqn Ldr Sonia Raheja (26366) wef 16 Dec 05
Sqn Ldr Jagriti Chandna (26367) wef 16 Dec 05
Sqn Ldr Manju Pandey (26368) wef 16 Dec 05
Sqn Ldr P Sudha Rani (26369) wef 16 Dec 05
Sqn Ldr Arundhati Murlidhar Kurtadikar (26370) wef 16 Dec 05
Sqn Ldr Ritushree (26372) wef 16 Dec 05
Sqn Ldr Rajni Kosta (26373) wef 16 Dec 05

AE(L) BRANCH

Wg Cdr Pallavi Bharade (24150) wef 27 May 02
Wg Cdr Bornali Gogoi (24151) wef 27 May 02
Wg Cdr Arti Vasudev (24155) wef 27 May 02
Wg Cdr Vineet Lamba (24699) wef 26 May 03
Wg Cdr Avani Pandey (25267) wef 06 Jul 04
Wg Cdr Yogini Mahindra Joshi (25269) wef 06 Jul 04
Sqn Ldr Dolly Devgon (25808) wef 26 Jul 05
Sqn Ldr Paramjit Kaur (25809) wef 26 Jul 05
Sqn Ldr Vikram Singh (26257) wef 10 Jul 06
Sqn Ldr Satwinder Singh (26259) wef 10 Jul 06
Sqn Ldr Chetna Chaudhary (26264) wef 10 Jul 06
Sqn Ldr Jyoti D Kulkarni (26265) wef 10 Jul 06
Sqn Ldr Reshu Saini (26270) wef 18 Jul 06
Sqn Ldr Alok Singh Sachan (26396) wef 08 Jan 07
Sqn Ldr Kapil Kumar Aggarwal (26887) wef 07 Jan 12
Sqn Ldr Sudhakar Verma (26891) wef 07 Jan 12
Sqn Ldr Taranjeet Singh (26892) wef 07 Jan 12
Sqn Ldr S Raja Prabhu (26893) wef 07 Jan 12
Sqn Ldr Amandeep Sharma (26894) wef 07 Jan 12
Sqn Ldr Aju Kumar Revi (26896) wef 07 Jan 12

AE(M) BRANCH

Sqn Ldr LK Tandon (26253) wef 10 Jul 06
Sqn Ldr Tejesh Chandrakant Shah (26393) wef 08 Jan 07
Sqn Ldr Wasim Pathan (26880) wef 07 Jan 12
Sqn Ldr S Jagan Mohan (26885) wef 07 Jan 12
Sqn Ldr Arun Manohar (26886) wef 07 Jan 12

EDN BRANCH

Sqn Ldr Anuradha Sharma (26181) wef 16 Jun 05

Sqn Ldr Pratibha Bisht (26182) wef 16 Sep 05

LGS BRANCH

Wg Cdr Mou Mondal (24316) wef 21 Dec 01

Wg Cdr Swati Joshi (25034) wef 20 Dec 02

Sqn Ldr Shalini Anand (25411) wef 19 Dec 03

Sqn Ldr Kamana Khattri (25413) wef 19 Dec 03

Sqn Ldr Sumisha Pradhan (25414) wef 19 Dec 03

Sqn Ldr Kuljinder Hundal (25930) wef 18 Dec 04

Sqn Ldr Seema Kanoujia (25931) wef 18 Dec 04

Sqn Ldr Rajni Gupta (26377) wef 16 Dec 05

Sqn Ldr Shanta Mishra (26378) wef 16 Dec 05

Sqn Ldr Amrit Kaur Chani (26379) wef 16 Dec 05

Sqn Ldr Anjali Dixit (26380) wef 16 Dec 05

Sqn Ldr Neena Bhati (26381) wef 16 Dec 05

The President is pleased to reinstate wef 01 Sep 11 and grant Permanent Commission to the undermentioned SSC officers, on completion of their initial tenure of SSC wef from the date shown against their names under the provision of Govt of India, Min of Def letter No. 160CC//D (Air-III) /2011, Air HQ/21901/SSC/PC/PO-3(E) dated 05 Aug 11.

ACCTS BRANCH

Sqn Ldr Archana Rogers (26180) wef 17 Jun 05

ADM BRANCH

Wg Cdr Vandana Hatwal (23646) wef 17 Jun 2000

Wg Cdr Ruhi Kushwaha Bhullar (23941) wef 24 May 01

AE BRANCH

Wg Cdr Vani Mishra (23699) wef 29 May 01

Sqn Ldr Abha Mendiratta (25804) 26 Jul 05

EDN BRANCH

Wg Cdr Preeti Lawale (23648) wef 17 Jun 2000

LGS BRANCH

Sqn Ldr Richa Markandeya (25929) wef 18 Dec 04

SK KHANUJA

Wg Cdr

JDPO-3(E)

No. 134, dated 13rd May 2015—The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY

ARMY POSTAL SERVICE CORPS

TO BE SUB/CLK (SD)			
Nb Sub/Clk (SD)	Rajendra Prasad	JC-834961P	01 Feb 2014
Nb Sub/Clk (SD)	Vijay Kumar Yadav	JC-834962X	01 Feb 2014
Nb Sub/Clk (SD)	Bharat Bhushan	JC-834963A	14 Mar 2014*
Nb Sub/Clk (SD)	Mahesh Goswami	JC-834964H	05 Mar 2014*
Nb Sub/Clk (SD)	G Moorthy	JC-834965L	01 Mar 2014
Nb Sub/Clk (SD)	Manickavel P	JC-834980A	01 Mar 2014
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 14 without effect on pay & allowances)			

R.P.S NEGI

Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 135, dated 14th May 2015—The President is pleased to made the following promotions :-

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE SIKH REGIMENT

To be Subedar Major (GD)

Sub	Gulzar Singh	JC-499532N	01 Oct 2014
Sub	Ajit Singh	JC-499486K	01 Nov 2014

To be Subedar (GD)

Nb Sub	Jagtar Singh	JC-500128N	30 Aug 2014
--------	--------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances

Nb Sub	Jagroop Singh	JC-500130L	12 Sep 2014
--------	---------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances

Nb Sub	Harjinder Singh	JC-500267X	20 Aug 2014
--------	-----------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances

Nb Sub	Kuldip Singh	JC-500289W	02 Sep 2014
--------	--------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances

Nb Sub	Amritpal Singh	JC-500362K	22 Aug 2014
--------	----------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances

Nb Sub	Davinder Singh	JC-500352A	28 Aug 2014
--------	----------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances

Nb Sub	Jasbir Singh	JC-500392F	01 Oct 2014
--------	--------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances

Nb Sub	Sukhdev Singh	JC-500412K	30 Aug 2014
--------	---------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances

Nb Sub	Kikar Singh	JC-500415X	19 Aug 2014
--------	-------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances

Nb Sub	Balwinder Singh	JC-500416A	19 Aug 2014
--------	-----------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances

Nb Sub	Joginder Singh	JC-500473F	06 Oct 2014
--------	----------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances

Nb Sub	Mukhtiar Singh	JC-500395P	18 Oct 2014
--------	----------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances

Nb Sub	Harjit Singh	JC-500479H	01 Nov 2014
--------	--------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances

Nb Sub	Rajvinder Singh	JC-500545A	21 Aug 2014
--------	-----------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances

To be Subedar Clerk (SD)

Nb Sub Clk	Jagdish Prasad	JC-500242L	01 Oct 2014
------------	----------------	------------	-------------

Nb Sub Clk	Ravinder Singh	JC-500331K	01 Oct 2014
Nb Sub Clk	Nand Kishor Pathak	JC-500332M	01 Oct 2014
Nb Sub Clk	Thakur Singh	JC-500333P	01 Nov 2014
To be Subedar Major (GD)			
Sub	Shamsher Singh	JC-499260Y	01 Oct 2014
To be Subedar (GD)			
Nb Sub	Kulbir Singh	JC-500411F	25 Aug 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 29 Jun 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Satinder Singh	JC-500475M	17 Sep 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Balwant Singh	JC-500491K	10 Nov 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 12 Aug 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Avtar Singh	JC-500178Y	03 Sep 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Jagdev Singh	JC-500271A	30 Sep 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Jaspal Singh	JC-500296M	19 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Dharminder Singh	JC-500476P	01 Sep 2014
Nb Sub	Khushpal Singh	JC-500531A	20 Dec 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Dilbagh Singh	JC-500276Y	01 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 03 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Dilbag Singh	JC-500384H	22 Dec 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 11 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Gursewak Singh	JC-500595L	03 Jan 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 12 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Baljeet Singh	JC-500477X	01 Oct 2014
Nb Sub	Satnam Singh	JC-500684K	01 Oct 2014
Nb Sub	Jaswinder Singh	JC-500322H	01 Nov 2014
Nb Sub	Sukhwinder Singh	JC-500393K	03 Dec 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Gurpreet Singh	JC-500423W	19 Nov 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Lakhwinder Singh	JC-500454W	01 Nov 2014
Nb Sub	Balkar Singh	JC-500520N	01 Nov 2014
Nb Sub	Balwinder Singh	JC-499740H	01 Jan 2015
Nb Sub	Jasvir Singh	JC-500388Y	01 Jan 2015
Nb Sub	Kuldeep Singh	JC-500389F	01 Jan 2015

Nb Sub	Jarnail Singh	JC-500401X	01 Jan 2015
Nb Sub	Gurmail Singh	JC-500418L	01 Jan 2015
Nb Sub	Darshan Singh	JC-500435L	01 Jan 2015
Nb Sub	Sukhwinder Singh	JC-500437W	01 Jan 2015
Nb Sub	Baljit Singh	JC-500442F	01 Jan 2015
Nb Sub	Sukhdev Singh	JC-500463X	01 Jan 2015
Nb Sub	Satnam Singh	JC-500460K	01 Jan 2015
Nb Sub	Jaswant Singh	JC-500471W	01 Jan 2015
Nb Sub	Bhupinder Singh	JC-500485W	01 Jan 2015
Nb Sub	Piara Singh	JC-500534N	01 Jan 2015
Nb Sub	Hardip Singh	JC-500553Y	01 Jan 2015
Nb Sub	Gurmeet Singh	JC-500554F	01 Jan 2015
To be Subedar (RT)			
Nb Sub (RT)	Harjit Singh	JC-499435W	01 Jan 2015
To be Subedar (GD)			
Nb Sub	Nishan Singh	JC-500426K	14 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Sukhwinder Singh	JC-500449L	01 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Naib Singh	JC-500468W	01 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Pargat Singh	JC-500480X	22 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Gurdev Singh	JC-500472Y	07 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Karam Singh	JC-500482H	01 Sep 2014
Nb Sub	Harbhajan Singh	JC-500502L	10 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Didar Singh	JC-500510K	01 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Baliyar Singh	JC-500503N	10 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Amritpal Singh	JC-500546H	01 Nov 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Gurdeep Singh	JC-500549W	01 Nov 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Harpal Singh	JC-500550L	04 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Kulbir Singh	JC-500551N	04 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			

Nb Sub	Dilbag Singh	JC-500583W	04 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Sukhwinder Singh	JC-500593A	04 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Sukhvinder Singh	JC-500594H	04 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Nirmaljit Singh	JC-500516L	01 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 02 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Uttam Singh	JC-500354L	01 Oct 2014
Nb Sub	Palwinder Singh	JC-500404L	01 Oct 2014
Nb Sub	Sukhdev Singh	JC-500444M	01 Oct 2014
Nb Sub	Tajinder Singh	JC-500481A	04 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Balbir Singh	JC-500493P	03 Nov 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Mastan Singh	JC-500529H	11 Nov 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Balkar Singh	JC-500643A	11 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Chamkaur Singh	JC-500239L	03 Nov 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Jasvir Singh	JC-500265M	03 Nov 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Nirbhai Singh	JC-500299A	01 Nov 2014
Nb Sub	Manjit Singh	JC-500315M	01 Nov 2014
Nb Sub	Satnam Singh	JC-500436N	01 Nov 2014
Nb Sub	Gurmeet Singh	JC-500518W	05 Nov 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances			
To be Subedar (GD)			
Nb Sub	Kartar Singh	JC-500129W	01 Sep 2014
Nb Sub	Nishan Singh	JC-500144L	01 Sep 2014
Nb Sub	Balwinder Singh	JC-500137P	01 Sep 2014
Nb Sub	Paramjit Singh	JC-500154P	01 Sep 2014
Nb Sub	Gurmel Singh	JC-500140P	01 Sep 2014
Nb Sub	Jagtar Singh	JC-500148F	01 Sep 2014
Nb Sub	Shiv Singh	JC-500183K	08 Sep 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			

Nb Sub	Labh Singh	JC-500208L	01 Sep 2014
Nb Sub	Harjit Singh	JC-500220M	10 Nov 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Paramjit Singh	JC-500282M	02 Sep 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Paramjit Singh	JC-500272H	07 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Jasdev Singh	JC-500273L	01 Sep 2014
Nb Sub	Gurpreet Singh	JC-500292W	03 Sep 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Amrik Singh	JC-500298X	02 Sep 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Malkit Singh	JC-500353H	23 Sep 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Manjit Singh	JC-500370H	03 Sep 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Gurbachan Singh	JC-500374Y	07 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Hardev Singh	JC-500402A	15 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Jaswinder Singh	JC-500433A	01 Sep 2014
Nb Sub	Sarbjit Singh	JC-500434H	01 Sep 2014
Nb Sub	Hardip Singh	JC-500424Y	01 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Sikander Singh	JC-500425F	07 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
To be Nb Sub			
Hav	Kashmir Singh	(3394428K now JC-500915P)	29 Sep 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances			
Hav	Darshan Singh	(3392245P now JC-500916X)	20 Oct 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Aug 2014 without effect on pay and allowances			
Hav	Sukhpal Singh	(3392968K now JC-500917A)	01 Sep 2014
Hav	Jagseer Singh	(3393359M now JC-500918H)	01 Nov 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Hav	Mohinder Singh	(3393147F now JC-500919L)	05 Sep 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Hav	Jasbir Singh	(3393586M now JC-500920A)	01 Nov 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			

Hav Rajinder Singh (3396003K now JC-500921H) 28 Oct 2014

Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Sep 2014 without effect on pay and allowances

Hav Jaskaran Singh (3393170P now JC-500922L) 01 Oct 2014

Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Sep 2014 without effect on pay and allowances

Hav Ravinderpal Singh (3396230K now JC-500923N) 04 Oct 2014

Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances

Hav Amrik Singh (3396629F now JC-500924W) 18 Oct 2014

Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances

Hav Gurtar Singh (3393191L now JC-500925Y) 01 Nov 2014

Hav Kabal Singh (3393349H now JC-500926F) 01 Nov 2014

Hav Pargat Singh (3393351A now JC-500927K) 01 Nov 2014

Hav Kulwinder Singh (3395329N now JC-500928M) 03 Nov 2014

Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances

Hav Kanwaljit Singh (3394770K now JC-500929P) 03 Nov 2014

Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances

Hav Kultar Singh (3393132Y now JC-500930K) 01 Nov 2014

Hav Satinder Pal Singh (3394600A now JC-500931M) 01 Nov 2014

Hav Amrik Singh (3396620M now JC-500932P) 06 Nov 2014

Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances

Hav Hardeep Singh (3396837W now JC-500933X) 06 Nov 2014

Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowance

Hav Sawarn Singh (19001493K now JC-500934A) 27 Aug 2014

Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Sep 2013 without effect on pay and allowances

Hav Gurcharan Singh (3393506K now JC-500935H) 04 Dec 2014

Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances

Hav Manjeet Singh (3393533N now JC-500936L) 11 Dec 2014

Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances

Hav Malkiat Singh (3394237P now JC-500937N) 03 Jan 2015

Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Sep 2014 without effect on pay and allowances

Hav Satwant Singh (3395832L now JC-500938W) 30 Oct 2014

Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances

Hav Surjit Singh (3394610K now JC-500939Y) 01 Dec 2014

Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances

To be Nb Sub

Hav Gurnam Singh (3393614N now JC-500940N) 01 Dec 2014

Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances

Hav Inclab Singh (3395480Y now JC-500941W) 05 Dec 2014

Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances

Hav	Rajinder Singh	(3395613K now JC-500942Y)	01 Dec 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances			
Hav	Surjit Singh	(3395660F now JC-500943F)	01 Dec 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances			
Hav	Vijay Singh	(3395666H now JC-500944K)	05 Dec 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances			
Hav	Sukhdeep Singh	(3396090H now JC-500945M)	05 Nov 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances			
Hav	Gurdeep Singh	(3393513A now JC-500946P)	29 Dec 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances			
Hav	Amarjit Singh	(3395835Y now JC-500947X)	01 Nov 2014
Hav	Surjit Singh	(3394667Y now JC-500948A)	01 Nov 2014
Hav	Talwinder Singh	(3394699F now JC-500949H)	06 Dec 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Nov 2014 without effect on pay and allowances			
Hav	Darshan Singh	(3393338W now JC-500950X)	01 Jan 2015
Hav	Sukhwinder Singh	(3396220A now JC-500951A)	01 Jan 2015
Hav	Kulwinder Kumar	(3394721F now JC-500952H)	01 Jan 2015
Hav	Shamsher Singh	(3394794N now JC-500953L)	02 Jan 2015
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances			
Hav	Jagjit Singh	(3393727W now JC-500954N)	01 Jan 2015
Hav	Hardeep Singh	(3395412L now JC-500955W)	01 Jan 2015
Hav	Gurmeet Singh	(3395894L now JC-500956Y)	01 Jan 2015
Hav	Paramjeet Singh	(3395611Y now JC-500957F)	01 Jan 2015
To be Nb Sub Clk (SD)			
Hav Clk (SD)	Navin Kumar	(3395983K now JC-500958K)	01 Jan 2015

THE MAHAR REGIMENT

To be Subedar Major

SUB	LAHANE RAMDAS DAULATRAO	JC569678F	01 Jan 2013
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2013.)			
SUB	KAMBLE AKASH RAMCHANDRA	JC569198X	05 Mar 2013
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 31 Jan 2013.)			
SUB	LAKHWINDER SINGH	JC569262K	03 Jul 2013*
SUB	JANAK SINGH BHANDARI	JC569524P	01 Feb 2013*
SUB	HARMESH SINGH	JC569333A	02 Feb 2013*
* (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2013.)			
SUB	ANGAD KUMAR SINGH	JC569547W	01 Mar 2013
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2013.)			

SUB	LEKHI RAM SHARMA	JC569431A	01 May 2013
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 May 2013.)		
SUB	KHANDARE SANJAY GOPALRAO	JC569508X	03 Jun 2013**
SUB	RANBHIR SINGH	JC569641A	03 Jun 2013**
SUB	VARPE DATTATRAYA BAPU	JC569772L	01 Jun 2013**
	** (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2013.)		
SUB	SUKHDEV SINGH	JC569683M	02 Sep 2013
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2013.)		
SUB	SANTBIR SINGH	JC569582Y	01 Oct 2013
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2013.)		
	To be Subedar Major (Clerk)		
SUB CLK (SD)	INDRAPAL SINGH	JC-569883H	11 Nov 2013*
	* Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Oct 2013		
SUB CLK (SD)	NAND LAL TIWARI	JC-569825Y	02 Dec 2013#
	# Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Dec 13		
	To be Subedar (Clerk)		
NB SUB CLK (SD)	SHYAM LAL	JC-570591M	02 Sep 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Sep 2013.		
NB SUB CLK (SD)	SUNIL KUMAR HARIT	JC-570592P	01 Oct 2013
NB SUB CLK (SD)	DURGESH KUMAR BAJPAI	JC-570632L	01 Dec 2013
NB SUB CLK (SD)	BALDEV RAJ JASAL	JC-570633N	09 Dec 2013#
	#Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2013.		
NB SUB CLK (SD)	SANJAY KUMAR	JC-570637K	13 Jan 2014@
	@Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jan 2014.		
NB SUB CLK (SD)	ASHOK KUMAR GARG	JC-570638M	04 Feb 2014\$
	\$ Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2014.		
NB SUB CLK (SD)	HUKAM CHAND	JC-570667F	01 Mar 2014
NB SUB CLK (SD)	DHANVEER SINGH	JC-570682W	01 Apr 2014
NB SUB CLK (SD)	SUMER SINGH SAURAT	JC-570668K	01 Apr 2014
NB SUB CLK (SD)	KEWAL KRISHAN	JC-570669M	02 Jul 2014^
	^ Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jul 2014.		
NB SUB CLK (SD)	KMALESH OJHA	JC-570673P	01 Jul 2014
NB SUB CLK (SD)	LAL BAHADUR SINGH KUSHWAHA	JC-570674X	30 Jul 2014 ##
	## Granted seniority in the rank of Sub with effect from 18 Jul 2014.		
NB SUB CLK (SD)	RINTU CHARAN GHOSHAL	JC-570703F	18 Aug 2014@@
	@@ Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2014.		

NB SUB CLK (SD)	SHAMBU RAI	JC-570717F	01 Sep 2014
NB SUB CLK (SD)	KASHMIR LAL	JC-570718K	01 Sep 2014
NB SUB CLK (SD)	SHAPINDER SINGH DADWAL	JC-570719M	10 Feb 2015**
NB SUB CLK (SD)	SADA NANDA KOLE	JC-570720F	01 Feb 2015
NB SUB CLK (SD)	KALE DILIP BABURAO	JC-570737P	02 Feb 2015**

** Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2015.

TO BE SUBEDAR

NB SUB	HAJARE SANJAY KRISHNAT	JC570839L	17 Nov 2013*
NB SUB	MESHRAM PRUTHAVIRAJ HARIBHAU	JC570788H	24 Jul 2013*
NB SUB	RAGHUVIR SINGH	JC570871A	16 Jun 2013*
NB SUB	GAIKWAD DATTATRAYA SAMBHAJI	JC570881K	05 Jun 2013*
NB SUB	PAGARE SUNIL KHARBHARI	JC570902P	01 Jun 2013*
NB SUB	KANWAR RAVINDER	JC570886H	18 Nov 2013*

* (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2013)

NB SUB	JASPAL SINGH	JC570341L	20 Jan 2014@
NB SUB	ATHAWALE RAJABHAU NANABHAU	JC570651W	23 Jun 2013@

@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 23 Jun 2013)

NB SUB	RAVINDRA SINGH	JC570342N	20 Jan 2014#
NB SUB	BALWANT SINGH	JC570663L	04 Oct 2013#
NB SUB	ROMESH CHANDER	JC570765F	07 Aug 2013#

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2013)

NB SUB	DEWENDRA KUMAR SINGH	JC570360W	29 Aug 2013
--------	----------------------	-----------	-------------

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 07 Jul 2013)

NB SUB	KESHAV DEO	JC570380K	20 Jan 2014\$
NB SUB	VIJAYA SINGH	JC570381M	04 Feb 2014\$

\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 10 Jul 2013)

NB SUB	ACHINTA KUMAR MANDAL	JC570378M	01 Aug 2013@@
NB SUB	NARENDRA PRATAP SINGH	JC570523Y	07 Aug 2013@@
NB SUB	PRAKASH KUMAR ROY	JC570519W	07 Aug 2013@@
NB SUB	JAGTAR SINGH	JC570675A	04 Dec 2013@@
NB SUB	SARBESWAR SAHANI	JC570766K	05 Sep 2013@@

@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2013)

NB SUB	PARKASH CHAND	JC570479A	05 Feb 2014
--------	---------------	-----------	-------------

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 05 Aug 2013)

NB SUB	YASHWANT SINGH	JC570472W	01 Sep 2013##
NB SUB	JARNAIL SINGH	JC570473Y	01 Sep 2013##
NB SUB	CHARAN DASS	JC570506Y	01 Sep 2013##

NB SUB	SANJEEV KUMAR BHARDWAJ	JC570557M	16 Sep 2013##
NB SUB	NIRMAL SINGH	JC570763W	23 Sep 2013##
NB SUB	KAILASH CHANDRA	JC570770M	05 Sep 2013##
NB SUB	JITENDER KUMAR	JC570847K	13 Sep 2013##
NB SUB	OGALE TUKARAM SUDAM	JC570848M	05 Sep 2013##
NB SUB	RAJENDRA KUMAR	JC570859Y	12 Sep 2013##
## (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2013)			
NB SUB	PARAMJIT SINGH	JC570556K	18 Sep 2013
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 15 Sep 2013)			
NB SUB	RAMESH SINGH	JC570433X	07 Oct 2013\$\$
NB SUB	VIKRAM CHAND	JC570462M	10 Oct 2013\$\$
NB SUB	HARJINDER SINGH	JC570480P	26 Jan 2014\$\$
NB SUB	SARANMOY CHAKRABORTY	JC570635Y	01 Oct 2013\$\$
\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2013)			
NB SUB	RAM RATAN YADAV	JC570435H	02 Nov 2013**
NB SUB	GURUPADA MAITY	JC570583N	20 Feb 2014**
NB SUB	RANJAN KUMAR DAS	JC570584W	01 Nov 2013**
NB SUB	NARENDER DUTT	JC570636F	01 Nov 2013**
NB SUB	RANJIT KUMAR DUTTA	JC570740P	30 Dec 2013**
NB SUB	HARISH CHANDRA UNIYAL	JC570679W	25 Nov 2013**
NB SUB	GABAR SINGH	JC570729W	20 Jan 2014**
NB SUB	CHARAN SINGH	JC570736M	12 Nov 2013**
** (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2013)			
NB SUB	LAL SINGH CHUPHAL	JC570575P	03 Nov 2013
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 03 Nov 2013)			
NB SUB	KAMBLE SANJAY BHAUDAS	JC570755X	02 Dec 2013
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 05 Nov 2013)			
NB SUB	HIWALE SUNIL ONKAR	JC570577A	02 Dec 2013@#
NB SUB	HARSH BAHADUR BAM	JC570600H	02 Dec 2013@#
NB SUB	BALBEER SINGH YADAV	JC570658A	10 Feb 2014@#
NB SUB	DALJIT SINGH	JC570756A	21 Dec 2013@#
NB SUB	NARENDRA PAL SINGH BISHT	JC570907N	01 Dec 2013@#
@# (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2013)			
NB SUB	TIRATH RAJ SINGH	JC570535N	02 Dec 2013
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 02 Dec 2013)			
NB SUB	GEDAM DINESH DEONATH	JC570419L	04 Jan 2014#*
NB SUB	RAJBIR SINGH	JC570597N	03 Dec 2013#*
#* (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 03 Dec 2013)			
NB SUB	RABI NARAYAN SAMAL	JC570909Y	28 Jan 2014
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 29 Dec 2013)			

NB SUB	UMMED SINGH RATHORE	JC570481X	20 Jan 2014@\$
NB SUB	PHOOL CHAND SHARMA	JC570614H	01 Jan 2014@\$
NB SUB	SUKANTA KUMAR MAJHEE	JC570585Y	02 Jan 2014@\$
NB SUB	RAMESH MOHAN SINGH	JC570615L	01 Jan 2014@\$
NB SUB	PRABHULAL SAKLANI	JC570686M	10 Feb 2014@\$
NB SUB	NETAR SINGH	JC570822X	24 Jun 2014@\$
@\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2014)			
NB SUB	GHAN SHYAM SINGH	JC570647N	07 Jan 2014
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 07 Jan 2014)			
NB SUB	GURDEEP SINGH	JC570573K	09 Jan 2014
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 09 Jan 2014)			
NB SUB	MAKAWANA SHANTIEL BHAI DALJI BHAI	JC570683Y	21 Feb 2014
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 17 Jan 2014)			
NB SUB	DIBAKAR MAHAPATRA	JC570678N	27 Feb 2014
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 19 Jan 2014)			
NB SUB	SURESH SINGH	JC570486W	01 Feb 2014%
NB SUB	RAJINDER SINGH	JC570487Y	08 Aug 2014%
NB SUB	RATAN LAL JAT	JC570560M	01 Feb 2014%
NB SUB	HARI RAM NAYAK	JC570701W	01 Feb 2014%
NB SUB	GIRDHARI LAL	JC570702Y	04 Feb 2014%
NB SUB	PUNDKAR RAMESHWAR JANUJI	JC570823A	08 Apr 2014%
NB SUB	KAMBALE PRAKASH SUKHDEO	JC570824H	12 May 2014%
NB SUB	SWAPAN KUMAR PAL	JC570747Y	04 Feb 2014%
NB SUB	HAKIM SINGH SOLANKI	JC570749K	01 Feb 2014%
NB SUB	DAN SINGH	JC570858W	26 Jul 2014%
NB SUB	ARVIND SINGH YADAV	JC570878K	08 Feb 2014%
NB SUB	TARSEM SINGH	JC570913F	01 Feb 2014%
% (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2014)			
NB SUB	NIRMALE RAMESH RAVAJI	JC570928K	02 Feb 2014
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 02 Feb 2014)			
NB SUB	PREM RAM	JC570488F	21 Feb 2014%%
NB SUB	JOGA RAM	JC570496A	11 Apr 2014%%
NB SUB	SHIROMANI SINGH BHADORIYA	JC570528X	21 Mar 2014%%
%%(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 07 Feb 2014)			
NB SUB	RAJ KUMAR YADAV	JC570529A	21 Mar 2014
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 23 Feb 2014)			
NB SUB	SUBH RAM	JC570530P	27 May 2014@*

NB SUB	SURESH CHANDRA	JC570543M	21 Mar 2014@*
NB SUB	MUKANDAR SINGH	JC570691X	12 Mar 2014@*
NB SUB	SURESH SINGH DHAMI	JC570687P	01 Apr 2014@*
NB SUB	KAMLESH CHANDRA	JC570698F	04 Mar 2014@*
NB SUB	NIKAL KUMAR	JC570704K	07 Apr 2014@*
NB SUB	PRABIR KUMAR DUTTA	JC570713L	01 Mar 2014@*
NB SUB	SURESH CHAND	JC571008Y	01 Mar 2014@*
NB SUB	RAJENDRA SINGH	JC570974Y	01 Mar 2014@*

@* (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2014)

NB SUB	JAGMOHAN SINGH NEGI	JC570805X	07 Aug 2014
--------	---------------------	-----------	-------------

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 16 Mar 2014)

NB SUB	SALVE JEETENDRA PRABHAKAR	JC570929M	01 Apr 2014
--------	---------------------------	-----------	-------------

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 29 Mar 2014)

NB SUB	ASHWANI KUMAR	JC570655M	26 May 2014#
NB SUB	SURENDRA KUMAR YADAV	JC570723P	21 Jun 2014#
NB SUB	BHOOR SINGH	JC570692A	30 Jun 2014#
NB SUB	DEB KUMAR PRAHARAJ	JC570772X	01 Jun 2014#
NB SUB	DINA BANDHU PANDA	JC570776N	09 Apr 2014#
NB SUB	DHARMENDER SINGH	JC570887L	19 May 2014#

#\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2014)

NB SUB	JAGAT RAM	JC570693H	26 Apr 2014***
NB SUB	MOHITE VILAS RAGHUNATH	JC570830W	02 Apr 2014***

*** (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 02 Apr 2014)

NB SUB	SUSHANTA PATTANAIK	JC570897P	04 Apr 2014
--------	--------------------	-----------	-------------

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 04 Apr 2014)

NB SUB	KASHMIR SINGH	JC570767M	30 Jul 2014
--------	---------------	-----------	-------------

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 02 May 2014)

NB SUB	SHOBHAN SINGH	JC570768P	10 Jul 2014
--------	---------------	-----------	-------------

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 07 May 2014)

NB SUB	JASVIR SINGH	JC570664N	21 Jun 2014^
NB SUB	CHANDRA SINGH	JC570715W	20 Jul 2014^
NB SUB	GIRISH CHANDRA	JC570781Y	01 Jun 2014^

^ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2014)

NB SUB	SANWAL SINGH	JC570566N	18 Jun 2014
--------	--------------	-----------	-------------

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 15 Jun 2014)

NB SUB	KADAM SUHAS PANDURANG	JC570420A	22 Aug 2014
--------	-----------------------	-----------	-------------

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 27 Jun 2014)

NB SUB	KAMBLE ASHOK SATAPA	JC570640K	08 Aug 2012*
NB SUB	MADAN LAL	JC570622F	10 Jul 2013*
* (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2012)			
NB SUB	PRAVAT RANJAN JENA	JC570238A	01 Jul 2012
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 23 Jun 2012)			
NB SUB	LALJI SINGH	JC570355L	19 Jul 2012
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 25 Jun 2012)			
NB SUB	KAMBLE RAJARAM SIDDU	JC570549N	05 Mar 2013**
NB SUB	BRAHM DASS	JC570571Y	20 Jul 2012**
** (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2012)			
NB SUB	RANKA NIDHI GOUDA	JC570567W	25 Aug 2012
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2012)			
NB SUB	JAMBHULKAR PUNAMCHAND ATMARAM	JC570426F	19 Sep 2012
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 21 Aug 2012)			
NB SUB	MAN SINGH	JC570379P	09 Nov 2012@
NB SUB	VANKAR MAGAN BHAI JAGA BHAI	JC570469W	03 Sep 2012@
NB SUB	LAKHWINDER SINGH	JC570625P	31 Oct 2012@
@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2012)			
NB SUB	KUMAR JEET	JC570395M	29 Sep 2012
@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 16 Sep 2012)			
NB SUB	SARWADE VYANKAT BHANUDAS	JC570458K	10 Oct 2012
@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 20 Sep 2012)			
NB SUB	GANPAT LAL	JC570278F	01 Nov 2012@*
NB SUB	VINDHYACHAL SINGH YADAVA	JC570610M	18 Oct 2012@*
NB SUB	VIRENDRA PAL SINGH	JC570611P	01 Oct 2012@*
NB SUB	PAWAN KUMAR	JC570603W	01 Nov 2012@*
NB SUB	RAJE SINGH	JC570735K	18 Apr 2013@*
@* (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2012)			
NB SUB	VIRENDER DUTT	JC570080H	10 Dec 2012
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 12 Oct 2012)			
NB SUB	KATARE SANJAY SHANKAR	JC570521N	31 Oct 2012
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 31 Oct 2012)			
NB SUB	BIBE MADHUKAR KACHRU	JC570579L	14 Jan 2013#
NB SUB	GHEGADMAL UTTAM RANGNATH	JC570629L	27 Feb 2013#
NB SUB	SAWANT DATTATRAY BHAGWAN	JC570650N	01 Nov 2012#

NB SUB	DHAINJE ASHOK SHRIRANG	JC570838H	20 Dec 2012#
#(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2012)			
NB SUB	PANZADE DINKAR PRALHAD	JC570262W	19 Jan 2013
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 03 Nov 2012)			
NB SUB	SIDANAIAK SUBHASH SHATYAPPA	JC570264F	19 Jan 2013
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 25 Nov 2012)			
NB SUB	GOPNARAYAN SUDAM WASUDEO	JC570265K	19 Jan 2013#*
NB SUB	MORE RAMESH KHANDU	JC570455W	03 Feb 2013#*
NB SUB	SARKATE VASANT TUKARAM	JC570621Y	18 Jan 2013#*
NB SUB	JADAV BHARAT BHAI SHAMJI BHAI	JC570470L	28 Feb 2013#*
NB SUB	MOHINDER SINGH	JC570475K	21 Jan 2013#*
NB SUB	RAJPUT JAISING DALPAT SING	JC570580A	21 Dec 2013#*
#*(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2012)			
NB SUB	MAHESH CHANDRA JOSHI	JC570077H	11 Dec 2012
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 11 Dec 2012)			
NB SUB	SONAWANE CHANDRAKANT DINKAR	JC570457F	01 Jan 2013\$
NB SUB	JITENDRA RAY	JC570498L	04 Feb 2013\$
NB SUB	RANJIT SINGH	JC570581H	14 Mar 2013\$
NB SUB	VISHWA PRIYA	JC570627A	20 Feb 2013\$
\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2013)			
NB SUB	BRAHAM DUTT	JC570626X	03 Jan 2013
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 03 Jan 2013)			
NB SUB	HARDEV SINGH	JC570300F	09 Apr 2013
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 09 Jan 2013)			
NB SUB	JITENDRA NATH MAHATA	JC570499N	04 Feb 2013
(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 30 Jan 2013)			
NB SUB	SWAPAN KUMAR GAIN	JC570297M	01 Feb 2013\$*
NB SUB	BABULAL CHOUDHARY	JC570298P	01 Feb 2013\$*
NB SUB	SHANKAR SAHOO	JC570554Y	05 Feb 2013\$*
NB SUB	SURESH KUMAR	JC570648W	01 Feb 2013\$*
NB SUB	RAMESH SINGH	JC570725A	05 Mar 2013\$*
NB SUB	MOHAN SINGH	JC570726H	05 Mar 2013\$*
\$*(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2013)			

NB SUB	DHOTRE NITIN SHANKAR	JC570619F	13 Feb 2013
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 13 Feb 2013)		
NB SUB	MITAN SINGH	JC570312W	01 Apr 2013 %
NB SUB	SUBHASH CHANDER	JC570468N	08 Apr 2013 %
NB SUB	JAGDISH SINGH	JC570727L	29 Apr 2013 %
	%(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2013)		
NB SUB	SHYAM SINGH	JC570421H	30 May 2013
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 22 Apr 2013)		
NB SUB	HET RAM SINGH	JC570483H	01 May 2013
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 May 2013)		
NB SUB	AJAI SINGH	JC570267P	12 May 2013
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 12 May 2013)		
NB SUB	RAJ KUMAR YADAV	JC570358Y	07 Jun 2013
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 27 May 2013)		
NB SUB	DORNAL PALLE NIVRUTI SOPAN RAO	JC570505W	20 Jun 2013^
NB SUB	SATHE KISHOR RAMU	JC570545X	01 Jun 2013^
NB SUB	CHAUDHARY VISHNUBHAI DAHYA BHAI	JC570558P	30 Jun 2013^
NB SUB	AJAY PRAHLAD JADHAV	JC570840A	01 Jun 2013^
NB SUB	KAMBLE TUKARAM YALLAPA	JC570841H	01 Jun 2013^
NB SUB	KAMBLE SUHAS KRISHNA	JC570843N	01 Jun 2013^
NB SUB	ALOK ROY	JC570764Y	02 Jul 2013^
NB SUB	SARODE KEDAR RAMA	JC570851M	01 Jun 2013^
NB SUB	SHRI RAM	JC570835P	10 Jun 2013^
NB SUB	KHARATE SHRI KRISHNA SUKHDEO	JC570872H	01 Jun 2013^
	^ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2013)		
NB SUB	LALCHAND YADAV	JC570684F	22 Jun 2013
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 14 Jun 2013)		
NB SUB	MADAN LAL	JC570685K	22 Jun 2013
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 21 Jun 2013)		
NB SUB	PANZADE GULABRAO MAROTI	JC570811L	23 Jul 2013
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 23 Jul 2013)		
NB SUB	OM PRAKASH	JC570393F	14 Aug 2013
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2013)		
NB SUB	PREM SINGH	JC570532A	15 Aug 2013
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 15 Aug 2013)		

NB SUB	RACHPAL MASIH	JC570491F	01 Sep 2013***
NB SUB	AJIT KUJUR	JC570518N	01 Sep 2013***
NB SUB	RAJESH KUMAR SAHU	JC570568Y	02 Sep 2013***
NB SUB	RAKESH KUMAR	JC570616N	02 Sep 2013***
NB SUB	KANAI BAR	JC570634W	02 Sep 2013***

*** (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2013)

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Nb Sub Kapil Tomar	(16017044W now JC-471377F)	<u>01 Mar 2014</u> *01 Nov 2013
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 th Nov 2013 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Dilbag Singh	(2888580N now JC-471378K)	<u>11 Jun 2014</u> *01 Nov 2013
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Nov 2013 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ram Singh Bhati	(2890045M now JC-471379M)	<u>02 Jun 2014</u> *01 Jan 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jan 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sanjay Kumar Singh	(2889280Y now JC-471380F)	<u>07 Feb 2014</u> *01 Feb 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Feb 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jagpal Singh	(2888216P Now JC-471381K)	<u>25 Mar 2014</u> *01 Mar 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Mar 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Meharam Nayal	(2888002Y now JC-471382M)	<u>14 Jun 2014</u> *12 Mar 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 12 th Mar 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Prithvi Singh	(2888944P now JC-471383P)	<u>29 Apr 2014</u> *21 Mar 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 21 st Mar 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Clk Santosha Kumar Swain	(2889271X now JC-471384X)	<u>01 Oct 2014</u> 01 Apr 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Apr 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sher Singh	2889975F now JC-471385A)	<u>06 Jun 2014</u> *01 Apr 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Apr 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sumer Singh	(2888726W now JC-471386H)	<u>19 Apr 2014</u> *01 Apr 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Apr 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sharvan Singh	(2890013K now JC-471387L)	<u>20 May 2014</u> *01 Apr 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Apr 2014 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Jagbir Singh	(2890920K now JC-471388N)	<u>03 Apr 2014</u> *01 Apr 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 th Apr 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahipal Singh	(2890079A now JC-471389W)	<u>03 Apr 2014</u> *01 Apr 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 th Apr 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sukhbir Singh	(2888817A now JC-471390L)	<u>05 May 2014</u> *01 Apr 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 th Apr 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Pradeep Kumar Singh	(2889995P now JC-471391N)	<u>01 May 2014</u> *13 Apr 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 th Apr 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ranveer Singh	(3991305K now JC-471392W)	<u>31 Jul 2014</u> *15 Apr 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 th Apr 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rupa Ram	(2888221A now JC-471393Y)	<u>11 Jun 2014</u> *20 Apr 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 20 th Apr 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Bir Singh	(2889336A now JC-471394F)	<u>09 Jun 2014</u> *21 Apr 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 21 st Apr 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Netra Pal	(2886872X now JC-471395K)	<u>14 Jun 2014</u> *01 May 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st May 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Moti Ram	(2886936X now JC-471396M)	<u>14 Jun 2014</u> *01 May 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st May 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Krishan Singh	(2889673P now JC-471397P)	01 May 2014
Nb Sub Jafar Ali	(2888864X now JC-471398X)	01 May 2014
Nb Sub Davendra Singh Sikarwar	(2887890M now JC-471399A)	01 May 2014
Nb Sub Shyoram Jat	(2888003F now JC-471400K)	<u>14 Jun 2014</u> *01 May 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st May 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sanwat Singh	(2888496N now JC-471401M)	<u>02 May 2014</u> *01 May 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st May 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Hanumana Ram Jat	(2888795M now JC-471402P)	<u>16 May 2014</u> *01 May 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st May 2014 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Satyapal Singh	(2889710X now JC-471403X)	<u>18 Jun 2014</u> *01 May 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st May 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahipal Singh	(2888046W now JC-471404A)	<u>27 May 2014</u> *05 May 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 th May 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Suraj Pratap Singh Tomar	(2888609L now JC-471405H)	<u>13 Jun 2014</u> *08 May 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 th May 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Derawar Singh Bhati	(2890904M now JC-471406L)	<u>09 Sep 2014</u> 13 May 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 May 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Chhagan Singh	(2886799K now JC-471407N)	<u>13 Jun 2014</u> *01 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sandeep	(16016661M now JC-471408W)	<u>01 Aug 2014</u> *01 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jhabar Mal	(2889232Y now JC-471409Y)	<u>09 Jun 2014</u> *01 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mohan Singh	(2888236H now JC-471410N)	<u>09 Jun 2014</u> *01 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Udal Singh	(2888611H now JC-471411W)	<u>07 Jun 2014</u> *01 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rajendra Singh	(2888656H now JC-471412Y)	<u>14 Jun 2014</u> *01 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sunil Dutt	(2888248X now JC-471413F)	<u>07 Jul 2014</u> *01 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Balwan Singh	(2889542K now JC-471414K)	01 Jun 2014
Nb Sub Amar Singh	(2889518N now JC-471415M)	<u>11 Jul 2014</u> *01 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rajesh Kumar	(2887842M now JC-471416P)	<u>30 Jun 2014</u> *01 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jun 2014 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Ajit Singh	(2888207N now JC-471417X)	01 Jun 2014
Nb Sub Bhanwar Singh	(2890969A now JC-471418A)	<u>31 Jul 2014</u> *01 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Gurdyal Singh	(2890311A now JC-471419H)	<u>07 Jun 2014</u> *01 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Shaukin	(2889706P now JC-471420X)	<u>11 Jul 2014</u> *01 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Shobha Ram	(2889813W now JC-471421A)	<u>11 Jul 2014</u> *01 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jadavir Singh	(2888069X now JC-471422H)	<u>02 Jun 2014</u> *01 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Yudhbir Singh	(2889939W now JC-471423L)	<u>29 Aug 2014</u> *01 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rakesh Kumar	(2888938F now JC-471424N)	<u>04 Jun 2014</u> *01 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Surendra Kumar	(2889330Y now JC-471425W)	<u>02 Jun 2014</u> *01 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ranver Singh Rathore	(2888006P now JC-471426Y)	<u>30 Jul 2014</u> *08 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 th Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Shri Ram Dhinwa	(3992712Y now JC-471427F)	<u>31 Jul 2014</u> *10 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 th Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rizwan Khan	(2888923Y now JC-471428K)	<u>07 Sep 2014</u> *20 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Gopi Chand Kaler	(2889832F now JC-471429M)	<u>07 Sep 2014</u> *20 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 th Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Anil Kumar	(2890272M now JC-471430F)	<u>10 Oct 2014</u> *27 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 27 th Jun 2014 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Toran Singh	(2888814M now JC-471431K)	<u>28 Sep 2014</u> *27 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 27 th Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ram Bahadur Singh	(2890788P now JC-471432M)	<u>27 Sep 2014</u> *27 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 27 th Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rakesh Kumar Nehara	(2888966N now JC-471433P)	<u>28 Sep 2014</u> *27 Jun 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 27 th Jun 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Clk Surendra Singh	(2890476Y now JC-471434X)	<u>28 Jul 2014</u> *01 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Kuldeep Rarh	(2888734P now JC-471435A)	<u>22 Oct 2014</u> *01 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Naresh Pal, SM	(2888398N now JC-471436H)	<u>04 Jul 2014</u> *01 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ravinder Singh Tomar	(2888294M now JC-471437L)	<u>02 Jul 2014</u> *01 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Shanker Lal Bhicher	(2888783X now JC-471438N)	<u>18 Jul 2014</u> *01 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Raj Kumar Singh Sombansi	(2888889K now JC-471439W)	<u>18 Jul 2014</u> *01 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Pusa Ram	(2890595P now JC-471440L)	<u>09 Sep 2014</u> *01 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 st Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Shyam Partap Singh	(2888625H now JC-471441N)	01 Jul 2014
Nb Sub Raj Singh	(2888708N now JC-471442W)	<u>03 Sep 2014</u> *01 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 st Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Chander Bhan	(2888893M now JC-471443Y)	01 Jul 2014
Nb Sub Brajesh Kumar	(2888954Y now JC-471444F)	<u>12 Sep 2014</u> *01 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 st Jul 2014 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Roshan Lal	(2889736M now JC-471445K)	<u>09 Jul 2014</u> *01 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Krishan Kumar Yadav	(2888071P now JC-471446M)	<u>25 Aug 2014</u> *01 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ram Kala	(2887972P now JC-471447P)	01 Jul 2014
Nb Sub Narendra Bidiassar	(2888909M now JC-471448X)	<u>01 Sep 2014</u> *01 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Murari Singh Chauhan	(2888125L now JC-471449A)	<u>28 Aug 2014</u> *01 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mukesh Kumar	(2888127W now JC-471450P)	<u>15 Sep 2014</u> *01 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Pyare Lal	(2889326W now JC-471451X)	<u>21 Oct 2014</u> *01 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 st Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Prem Singh	(2887553X now JC-471452A)	<u>09 Aug 2014</u> *02 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 nd Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Vijay Kumar Singh Kushwah	(2890819K now JC-471453H)	<u>28 Sep 2014</u> *02 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 nd Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Kaptan Singh	(2890153W now JC-471454L)	<u>29 Sep 2014</u> *04 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 th Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ajay Bahadur Singh	(2890816W now JC-471455N)	<u>28 Sep 2014</u> *10 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 th Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Shekhawat Mahavir Singh, SM	(2889111X now JC-471456W)	<u>21 Aug 2014</u> *12 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 th Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Megha Ram	(2888306W now JC-471457Y)	<u>29 Sep 2014</u> *13 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 th Jul 2014 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Rajendar Singh Rajput	(2889184K now JC-471458F)	<u>24 Sep 2014</u> *25 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25th Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Raj Bahadur Singh	(2888239W now JC-471459K)	<u>09 Sep 2014</u> *28 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28th Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Babu Lal Jat	(2888331P now JC-471460Y)	<u>29 Sep 2014</u> *28 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28th Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Kanwaraj Singh Rathore	(2890902F now JC-471461F)	<u>13 Aug 2014</u> *31 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 31st Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Joginder Singh	(2889745N now JC-471462K)	<u>05 Aug 2014</u> *31 Jul 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 31st Jul 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Clk Birbal Singh	(2890419X now JC-471463M)	<u>02 Aug 2014</u> *01 Aug 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Aug 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Kuldeep Singh	(2889409F now JC-471464P)	<u>21 Aug 2014</u> *01 Aug 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Aug 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jaivindar Singh	(2887592W now JC-471465X)	<u>01 Sep 2014</u> *01 Aug 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Aug 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Dheer Singh Tanwar	(2889508K now JC-471466A)	<u>07 Oct 2014</u> *01 Aug 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Aug 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Satyapal Singh	(2890056Y now JC-471467H)	01 Aug 2014
Nb Sub Sumer Singh	(2888768H now JC-471468L)	<u>30 Sep 2014</u> *01 Aug 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Aug 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Gopal Jee Singh	(2890063P now JC-471469N)	01 Aug 2014
Nb Sub Ran Singh Chauhan	(2888711N now JC-471470H)	<u>03 Sep 2014</u> *01 Aug 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Aug 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Narender Singh	(2889747Y now JC-471471L)	<u>29 Oct 2014</u> *01 Aug 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Aug 2014 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Bansi Lal, SM	(2889343W now JC-471472N)	<u>01 Sep 2014</u> *01 Aug 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Aug 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Shiv Nath Singh	(2889423N now JC-471473W)	<u>01 Sep 2014</u> *01 Aug 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 st Aug 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Samunder Lal Choudhary	(2888163F now JC-471474Y)	<u>30 Sep 2014</u> *01 Aug 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Aug 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Shiv Bahadur Singh Bhadourai	(2886731H now JC-471475F)	<u>08 Aug 2014</u> *04 Aug 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 4 th Aug 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jaypal Singh	(2889597N now JC-471476K)	<u>29 Oct 2014</u> *11 Aug 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11 th Aug 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Anil Kumar	(2889560M now JC-471477M)	<u>07 Oct 2014</u> *19 Aug 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 th Aug 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Karambir	(2888240L now JC-471478P)	<u>30 Sep 2014</u> *19 Aug 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 th Aug 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Clk Brajpal Singh	(2890422X Now JC-471479X)	<u>03 Sep 2014</u> *01 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Clk Ravinder Kumar	(2890506L Now JC-471480M)	01 Sep 2014
Nb Sub Clk Ashok Singh Poonia	(2888740H Now JC-471481P)	<u>20 Sep 2014</u> *01 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Clk Vidyadhar Singh	(2888076N Now JC-471482X)	<u>02 Sep 2014</u> *01 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Clk Yogesh Kumar Singh	(2890278N Now JC-471483A)	*01 Sep 2014
Nb Sub Dinesh Kumar	(2888436Y now JC-471484H)	<u>26 Sep 2014</u> *01 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Dharmendra Singh Parihar	2887661F now JC-471485L)	<u>22 Sep 2014</u> *01 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Bhim Singh	(2892523K now JC-471486N)	<u>09 Sep 2014</u> *01 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahendar Singh	(2888557A now JC-471487W)	<u>09 Sep 2014</u> *01 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Vinod Singh	(2887907P Now JC-471488Y)	01 Sep 2014
Nb Sub Aidvir Singh	(2888637X now JC-471489F)	<u>09 Sep 2014</u> *01 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ranveer Singh Shekhawat	(2889514X now JC-471490W)	<u>04 Oct 2014</u> *01 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Virendra Singh	(2888916H now JC-471491Y)	<u>01 Nov 2014</u> *01 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Adu Ram Jangu	(2889473Y now JC-471492F)	<u>12 Sep 2014</u> *01 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rohtash Singh	(2888201M now JC-471493K)	<u>28 Sep 2014</u> *01 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Surender Kumar	(2889348P Now JC-471494M)	01 Sep 2014
Nb Sub Manoj Kumar	(2889878K now JC-471495P)	<u>28 Sep 2014</u> *01 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Dinesh Singh Bhadouriya	(2890156K now JC-471496X)	<u>27 Oct 2014</u> *23 Sep 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 rd Sep 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Clk Rakesh Kumar	(2890423A now JC-471497A)	01 Oct 2014
Nb Sub Rajesh	(2888840N now JC-471498H)	<u>22 Oct 2014</u> *01 Oct 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Oct 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahendra Singh	(2888437F now JC-471499L)	01 Oct 2014
Nb Sub Kailash Singh	(2888640X now JC-471500P)	01 Oct 2014
Nb Sub Sanjay Kumar Singh	(2889285X now JC-471501X)	<u>27 Oct 2014</u> *01 Oct 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Oct 2014 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Vinay Kumar Singh	(2890811X now JC-471502A)	<u>08 Nov 2014</u> *01 Oct 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Oct 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Shri Pal Singh	(2888613N now JC-471503H)	<u>25 Oct 2014</u> *01 Oct 2014
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Oct 2014 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Clk Satya Kumar Nagar	(2889712H now JC-471504L)	01 Nov 2014

THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav V Kalaivanan	2597974P now JC440975X	27 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Nov 13 without effect on pay and allces)		
Hav M Sekar	2598564L now JC440976A	25 Jan 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Nov 13 without effect on pay and allces)		
Hav Halasiddappa Pujeri	2597083M now JC440977H	01 Jan 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 27 Nov 13 without effect on pay and allces)		
Hav Pallapolu Srinivasa Rao	2596519A now JC440978L	02 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 13 without effect on pay and allces)		
Hav D Suresh	2596409L now JC440979N	01 Dec 13
Hav Ravi A	13619247N now JC440980H	19 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 13 without effect on pay and allces)		
Hav Shivappa Chougule	2595649W now JC440981L	02 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 13 without effect on pay and allces)		
Hav Suresh Kumar TR	2596253Y now JC440982N	16 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 13 without effect on pay and allces)		
Hav Karna Radhakrishna	2597384W now JC440983W	02 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 13 without effect on pay and allces)		
Hav Govindaraj	2596231A now JC440984Y	12 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 13 without effect on pay and allces)		
Hav Narayan Roy	2596589Y now JC440985F	12 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 13 without effect on pay and allces)		
Hav Radhakrishnan Nair KO	2598718M now JC440986K	24 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 13 without effect on pay and allces)		
Hav Sunukumar S	2597934N now JC440987M	10 Jan 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 13 without effect on pay and allces)		
Hav Komatla Pandu Ranga Reddy	2597947L now JC440988P	22 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 13 without effect on pay and allces)		
Hav Arputha Sagayaraj A	2599598L now JC440989X	12 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 13 without effect on pay and allces)		
Hav Prasanthan VK	2599707M now JC440990M	02 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 13 without effect on pay and allces)		
Hav V Trilok Reddy	2598015L now JC440991P	10 Jan 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Dec 13 without effect on pay and allces)		
Hav S Venkata Subba Reddy	2597356K now JC440992X	30 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Dec 13 without effect on pay and allces)		

Hav G James	3992286W now JC440993A	06 Jan 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Dec 13 without effect on pay and allces)		
Hav M Nagaraj	2596846L now JC440994H	03 Feb 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 13 without effect on pay and allces)		
Hav R Maheswaran	2598988F now JC440995L	07 Feb 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 13 without effect on pay and allces)		
Hav Byreddi Raja Reddy	2595491Y now JC440996N	01 Jan 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Dec 13 without effect on pay and allces)		
Hav(Clk) Ramakutty PK	2596452M now JC440997W	01 Jan 14
Hav Veeranand Babu	2597860K now JC440998Y	01 Jan 14
Hav Mallikarjun Benakannavar	2598008P now JC440999F	01 Jan 14
Hav Netinti Rama Rao	2595576P now JC441000H	01 Jan 14
Hav Devendran S	2595496X now JC441001L	01 Apr 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 14 without effect on pay and allces)		
Hav Palukuri Kasaiah	2598043X now JC441002N	01 Jan 14
Hav Sudheer KA	2596367K now JC441003W	28 Feb 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jan 14 without effect on pay and allces)		
Hav Saji Kumar K	2597484F now JC441004Y	03 Feb 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Jan 14 without effect on pay and allces)		
Hav Konda Dhanarajulu	2596690Y now JC441005F	13 Feb 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 13 without effect on pay and allces)		
Hav K Manthira Moorthy	2594915X now JC441006K	13 Feb 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 14 without effect on pay and allces)		
Hav Mallappa Biradar	2595182W now JC441007M	13 Feb 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 14 without effect on pay and allces)		
Hav Mitaigiri Fakroddin	2597283H now JC441008P	01 Feb 14
Hav Shajahan M	2597321N now JC441009X	03 Feb 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 14 without effect on pay and allces)		
Hav Somesh MS	2597318N now JC441010M	12 Feb 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 14 without effect on pay and allces)		
Hav Somashekarappa KH	2597513L now JC441011P	22 Feb 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 14 without effect on pay and allces)		
Hav Shivshankar Prabunatti	2597409X now JC441012X	12 Feb 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 14 without effect on pay and allces)		
Hav Murugan K	2598991F now JC441013A	17 Feb 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 14 without effect on pay and allces)		
Hav Anakappalli Eswara Rao	2598877K now JC441014H	11 Feb 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Feb 14 without effect on pay and allces)		
Hav Basavant Sutar	2595361W now JC441015L	12 Mar 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Feb 14 without effect on pay and allces)		
Hav Murali K	2599001X now JC441016N	11 Mar 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Feb 14 without effect on pay and allces)		
Hav Ravi Kumar Peddinti	2597167A now JC441017W	26 Mar 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Jan 14 without effect on pay and allces)		

Hav K Manickam	2596524L now JC441018Y	03 Mar 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 14 without effect on pay and allces)		
Hav Jayakumar P	2595219M now JC441019F	03 Apr 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 14 without effect on pay and allces)		
Hav Badiyappa Lamani	2598621F now JC441020W	29 Mar 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 14 without effect on pay and allces)		
Hav M Janardhana Naidu	2597553M now JC441021Y	01 Mar 14
Hav G Veluchamy	2595497A now JC441022F	01 Apr 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 14 without effect on pay and allces)		
Hav Hari A	2597903N now JC441023K	01 Mar 14
Hav Remesh Babu P	2595819P now JC441024M	01 Apr 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 14 without effect on pay and allces)		
Hav K Boopathy	2595962F now JC441025P	01 Apr 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 14 without effect on pay and allces)		
Hav Bino MD	2595984A now JC441026X	01 Apr 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 14 without effect on pay and allces)		
Hav C Magendiran	2598149K now JC441027A	01 Mar 14*
Hav Bhaskar Kallapati	3995512N now JC441028H	22 Mar 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 14 without effect on pay and allces)		
Hav D Sivaraja	2598570Y now JC441029L	29 Mar 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Mar 14 without effect on pay and allces)		
Hav Shankar Yarangatti	2597758F now JC441030A	16 Mar 14
Hav N Veluchamy	2596429Y now JC441031H	07 May 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Jan 14 without effect on pay and allces)		
Hav Shibu J	2595847F now JC441032L	27 Apr 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Mar 11 without effect on pay and allces)		
Hav Kumar N	2595910L now JC441033N	07 May 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 14 without effect on pay and allces)		
Hav Dasarathan M	2596014K now JC441034W	04 Apr 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Mar 14 without effect on pay and allces)		
Hav Lachchappa Potaraddi	2596460L now JC441035Y	26 Apr 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Mar 14 without effect on pay and allces)		
Hav Jalan PS	2608501Y now JC441036F	01 Jul 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Mar 14 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) N Jaganathan	2596011W now JC441037K	01 Apr 14
Hav (Clk) Ravindra Lande	2596456H now JC441038M	01 Apr 14
Hav (Clk) T Vairam	2597699A now JC441039P	01 Apr 14
Hav (Clk) Ajay Kumar Sharma	2598124X now JC441040K	02 Apr 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 14 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Deb Kumar Guria	2597744F now JC441041M	25 Apr 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 14 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Niraj Kumar	2598216K now JC441042P	27 Apr 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 14 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Raman S	2595904X now JC441043X	25 Apr 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 14 without effect on pay and allces)		

Hav Srinivasa Murthy K	2595242A now JC441044A	23 Apr 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 14 without effect on pay and allces)		
Hav Sajeev KN	2595287A now JC441045H	03 Apr 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 14 without effect on pay and allces)		
Hav Murugan C	2595231N now JC441046L	03 Apr 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 14 without effect on pay and allces)		
Hav P Krishnamoorthy	3394213L now JC441047N	07 May 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 14 without effect on pay and allces)		
Hav Muddarasu Sreenivasulu	2597917N now JC441048W	01 Apr 14
Hav Kancharla Kesaiah	2597966W now JC441049Y	01 Apr 14
Hav K Govinda Raj	2597306Y now JC441050N	01 Apr 14
Hav Jayachandran EM	2598211L now JC441051W	28 Apr 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 14 without effect on pay and allces)		
Hav Guru Prasad S	2598484N now JC441052Y	02 Jul 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Jan 14 without effect on pay and allces)		
Hav Udaya Kumar TS	2599008F now JC441053F	22 May 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Apr 14 without effect on pay and allces)		
Hav Manoj Kumar K	2599090F now JC441054K	22 May 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Apr 14 without effect on pay and allces)		
Hav Sukeshan PV	2599382K now JC441055M	22 May 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Apr 14 without effect on pay and allces)		
Hav Amanulla Shaik	2598728W now JC441056P	26 May 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Apr 14 without effect on pay and allces)		
Hav Govardhanan R	2596698L now JC441057X	01 May 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Apr 14 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) KK Bharghavan	2596385M now JC441058A	01 May 14
Hav (Clk) Biju George	2596665A now JC441059H	08 May 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 14 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) H Ramesh Kumar	2597956M now JC441060X	01 May 14
Hav (Clk) Subrata Sarkar	2598069M now JC441061A	20 Jun 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 14 without effect on pay and allces)		
Hav K Murugan, SM	2597376X now JC441062H	27 May 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 14 without effect on pay and allces)		
Hav Saravanan V	2596707F now JC441063L	01 May 14
Hav Jagadesha RM	2596782L now JC441064N	01 May 14
Hav Raghu Kumara B	2596788M now JC441065W	13 May 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 14 without effect on pay and allces)		
Hav Biju R	2597082K now JC441066Y	20 Aug 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 14 without effect on pay and allces)		
Hav Matsa Venkata Ramana	2595417X now JC441067F	03 May 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 14 without effect on pay and allces)		
Hav Someswara Rao Batchu	2596996F now JC441068K	22 May 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 14 without effect on pay and allces)		
Hav Shaik Mahaboob Basha	2597201P now JC441069M	01 May 14
Hav M Krishnan	2597203A now JC441070F	01 May 14

Hav Viswanatha A	2597208Y now JC441071K	19 May 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 14 without effect on pay and allces)		
Hav Shaji KC	2599642K now JC441072M	27 May 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 May 14 without effect on pay and allces)		
Hav Nagaraj Chachadi	2598003W now JC441073P	16 Jun 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 09 May 14 without effect on pay and allces)		
Hav Ginja Manga Raju	2597617M now JC441074X	29 May 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 17 May 14 without effect on pay and allces)		
Hav N Murugan	2595233Y now JC441075A	23 Jun 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Apr 14 without effect on pay and allces)		
Hav Anil Kumar NV	2597538X now JC441076H	09 Jun 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 27 Apr 14 without effect on pay and allces)		
Hav L Joseph	2597658W now JC441077L	09 Jun 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 May 14 without effect on pay and allces)		
Hav Thomas G	8033098W now JC441078N	16 Jun 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 May 14 without effect on pay and allces)		
Hav Ramana Dasari	2596493W now JC441079W	26 Jun 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 30 May 14 without effect on pay and allces)		
Hav Harsha Kumar AS	2597908M now JC441080L	30 Jun 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allces)		
Hav Manoj Kumar MS	3993001L now JC441081N	12 Jun 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allces)		
Hav Annapu Reddy Ramna Reddy	2596611Y now JC441082W	16 Jun 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allces)		
Hav Praveen OK	2596795H now JC441083Y	02 Jun 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allces)		
Hav A Sahaya Raj	2596797N now JC441084F	02 Jun 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allces)		
Hav Arun Kumar PB	2597989X now JC441085K	20 Jun 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allces)		
Hav Glory TJ	2597899W now JC441086M	16 Jun 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allces)		
Hav Chandrachari Kodakanti	2601100F now JC441087P	12 Jul 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allces)		
Hav Thiriveedhi V Narayana	2597232P now JC441088X	16 Jun 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allces)		
Hav V Ragothaman	2598360Y now JC441089A	10 Jul 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allces)		
Hav Bada Sreeramulu	2598212N now JC441090P	26 Aug 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Jun 14 without effect on pay and allces)		
Hav Gahendra Bahadur Khati	2598460K now JC441091X	31 Jul 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 24 May 14 without effect on pay and allces)		
Hav Vijay SA	2595428K now JC441092A	12 Jul 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Jun 14 without effect on pay and allces)		
Hav Siva Kumar K	2595456W now JC441093H	24 Jul 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Jun 14 without effect on pay and allces)		

Hav Sadanandan PV	2596803W now JC441094L	25 Jul 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jun 14 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Prem Kumar B	2598123P now JC441095N	09 Jul 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 14 without effect on pay and allces)		
Hav J Anna Durai	2597664K now JC441096W	12 Jul 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 14 without effect on pay and allces)		
Hav Sajeev K	2596804Y now JC441097Y	25 Jul 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jul 14 without effect on pay and allces)		
Hav M Nagaraj	2597578Y now JC441098F	25 Jul 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Jul 14 without effect on pay and allces)		
Hav K Nagarjuna Reddy	2597674N now JC441099K	25 Jul 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jul 14 without effect on pay and allces)		
Hav R Loganathan	2596427N now JC441100N	30 Jul 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Jul 14 without effect on pay and allces)		

THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav	Arjun Ram	(No 3186357P now JC-491266L)	20 th Nov 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Chamnpal Singh	(No 3186505P now JC-491267N)	13 th Nov 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Bhagwan Singh	(No 3186521M now JC-491268W)	15 th Nov 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Digambar Singh	(No 3185439L now JC-491269Y)	15 th Jan 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Surendra Kumar	(No 3184991Y now JC-491270N)	1 st Jan 2015
Hav	Surendra Singh	(No 3185523L now JC-491271W)	15 th Jan 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Harivir Singh	(No 3185819K now JC-491272Y)	1 st Jan 2015
Hav	Raje Ram	(No 3186745M now JC-491273F)	1 st Jan 2015
Hav	Mangla Prasad	(No 3188101L now JC-491274K)	16 th Jan 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Pawan Kumar	(No 3188153F now JC-491275M)	1 st Jan 2015
Hav	Satyabir Singh Chahar	(No 3188338H now JC-491276P)	26 th Jan 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 06 Jan 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav Clk	Kasaiah Kore	(No 3188940H now JC-491277X)	2 nd Feb 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Krishankant Yadav	(No 3203672K now JC-491190W)	18 th Sep 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 27 Apr 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Satish Chandra	(No 3185215L now JC-491191Y)	1 st Sep 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 29 June 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Subhash Chand	(No 3186688W now JC-491192F)	1 st Sep 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 29 June 2014 without effect on pay & allowances.			

Hav	Naresh Kumar	(No 3200047X now JC-491193K)	22 nd Sep 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Jitender Singh	(No 3186347L now JC-491194M)	23 rd Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Surender Singh	(No 3186424P now JC-491195P)	2 nd Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Dinesh Kumar Verma	(No 3186403Y now JC-491196X)	22 nd Sep 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Jakir Hossain Mondal	(No 3186652X now JC-491197A)	22 nd Sep 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Satyapal Singh	(No 3184689A now JC-491198H)	1 st Sep 2014
Hav	Shyo Narayan Kasnian	(No 3185663X now JC-491199L)	1 st Sep 2014
Hav	Pradeep Kumar	(No 3185669Y now JC-491200P)	1 st Sep 2014
Hav	Mohan Ram	(No 3186275M now JC-491201X)	1 st Sep 2014
Hav	Man Singh	(No 3187161N now JC-491202A)	30 th Sep 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Veer Singh Lochib	(No 3186055H now JC-491203H)	1 st Sep 2014
Hav	Mohan Lal Choudhary	(No 3186072H now JC-491204L)	21 st Sep 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Om Prakash Nayal	(No 3185930N now JC-491205N)	1 st Sep 2014
Hav	Ashok Kumar	(No 3186015F now JC-491206W)	1 st Sep 2014
Hav	Pramesh Kumar	(No 3186921Y now JC-491207Y)	22 nd Sep 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Rakesh Kumar	(No 3187196K now JC-491208F)	22 nd Sep 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Amarjit Singh	(No 3187170P now JC-491209K)	1 st Oct 2014
Hav	Lal Bhadur	(No 3187543X now JC-491210Y)	6 th Oct 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Dharmendra Kumar	(No 3187814K now JC-491211F)	6 th Oct 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav Clk	Yogendra Kumar	(No 3188489F now JC-491212K)	1 st Oct 2014

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Rect (RT)	Ved Prakash Pandey	(No 491188Y now JC-491188Y)	27 th Sep 2014
-----------	--------------------	-----------------------------	---------------------------

INFANTRY (11 GR)

TO BE SUB MAJ				
JC-634673Y	Sub	Bikash Rai	1 st Sikkim Scouts	01-Oct-13
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct 2013 without effect on pay allces)				
JC-634643F	Sub	Bhakta Bahadur Thapa	76 Inf Bde	11-Nov-13
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2013 without effect on pay allces)				

JC-634587N	Sub	Hari Bahadur Limbu	11 GRRC	01-Dec-13
JC-634631M	Sub	Dev Prakash Rai	JLA Bareilly	01-Dec-13
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2013 without effect on pay allces)				
JC-634612F	Sub	Megh Raj Rai	11 GRRC	01-Feb-14
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2014 without effect on pay allces)				
JC-634675K	Sub	Pradeep Kumar Rai	24 Kerala Bn NCC	01-Apr-14
JC-634688F	Sub	Ram Kaji Rai	8 Bihar Bn NCC	01-Apr-14
JC-634794A	Sub	Mahendra Kumar Rai	2/11 GR	01-Apr-14
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2014 without effect on pay allces)				
JC-634724F	Sub	Ashok Pradhan	51 Bengal Bn NCC	01 May 14
JC-634728X	Sub	Anil Deo Rai	1 Karnatak Girls Bn NCC	01 May 14
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2014 without effect on pay allces)				
JC-634378W	Sub (Clk)	Satrughan Tiwari	11 GRRC	01 Jul 14
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul 2014 without effect on pay allces)				
TO BE SUB				
JC-634970M	Nb Sub	Ram Kaji Rai	2/11 GR	01-Sep-13
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2013 without effect on pay allces)				
JC-634937P	Nb Sub (Clk)	Murali Dharan Nair	MCO, Jhansi	01-Oct-13
JC-634890P	Nb Sub	Dil Bahadur Tamang	6/11 GR	01-Oct-13
JC-634964Y	Nb Sub	Bhim Bahdur Limbu	5/11 GR	01-Oct-13
JC-634976N	Nb Sub	Man Bahadur Rai	2/11 GR	01-Oct-13
JC-635035M	Nb Sub	Tek Bahadur Limbu	1/11 GR	01-Oct-13
JC-635039H	Nb Sub	Karna Bahadur Limbu	1/11 GR	01-Oct-13
JC-634995Y	Nb Sub	Chandra Bir Dewan	5/11 GR	01-Oct-13
JC-635000W	Nb Sub	Nar Kumar Loktam	3/11 GR	01-Oct-13
JC-635004M	Nb Sub	Bharat Kumar Rai	5/11 GR	01-Oct-13
JC-635015Y	Nb Sub	Narayan Tamang	3/11 GR	01-Oct-13
JC-635040X	Nb Sub	Keshar Kr Limbu	1/11 GR	01-Oct-13
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2013 without effect on pay allces)				
JC-635059W	Nb Sub	Dhan Bahadur Tamang	1/11 GR	02-Oct-13
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 02 Oct 2013 without effect on pay allces)				
JC-635055A	Nb Sub	Indra Bahadur Maden	1/11 GR	03-Oct-13
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 03 Oct 2013 without effect on pay allces)				
JC-634989L	Nb Sub	Khus Man Rai	2/11 GR	09-Oct-13
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 09 Oct 2013 without effect on pay allces)				

JC-634951F	Nb Sub (Clk)	Balwant Singh Negi	7/11 GR	01-Nov-13
JC-634891X	Nb Sub	Karna Kumar Limbu	6/11 GR	01-Nov-13
JC-634893H	Nb Sub	Uttam Kumar Rai	6/11 GR	01-Nov-13
JC-635010A	Nb Sub	Tirtha Kumar Rai	5/11 GR	01-Nov-13
JC-635022P	Nb Sub	Om Prakash Pradhan	3/11 GR	01-Nov-13
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2013 without effect on pay allces)				
JC-634913L	Nb Sub	Phaudha Singh Rai	6/11 GR	01-Dec-13
JC-634927L	Nb Sub	Maula Bahadur Tamang	6/11 GR	01-Dec-13
JC-635011H	Nb Sub	Kali Ram Jhakiry	5/11 GR	01-Dec-13
JC-635018M	Nb Sub	Indra Bahadur Limbu	5/11 GR	01-Dec-13
JC-635063Y	Nb Sub	Govinda Psd Rai	1/11 GR	01-Dec-13
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2013 without effect on pay allces)				
JC-634991H	Nb Sub	Iswar Man Rai	2/11 GR	01-Jan-14
JC-635021M	Nb Sub	Hang Narayan Ishbo	5/11 GR	01-Jan-14
JC-635034K	Nb Sub	Ravi Rai	3/11 GR	01-Jan-14
JC-635058N	Nb Sub	Bir Bahadur Limbu	3/11 GR	01-Jan-14
JC-635064F	Nb Sub	Birkha Ram Tamang	1/11 GR	01-Jan-14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2014 without effect on pay allces)				
JC-635038A	Nb Sub	Ram Bahadur Tamang	5/11 GR	16-Jan-14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 16 Jan 2014 without effect on pay allces)				
JC-634952K	Nb Sub(Clk)	Jai Baghwan	11 GRRC	01-Feb-14
JC-634953M	Nb Sub (Clk)	Bala Krishna Rai K	Records 11 GR	01-Feb-14
JC-634961L	Nb Sub (Clk)	MK Pradhan	7/11 GR	01-Feb-14
JC-635016F	Nb Sub	Dil Kumar Kandanwa	2/11 GR	01-Feb-14
JC-635044N	Nb Sub	Prakash Rai	7/11 GR	01-Feb-14
JC-635081F	Nb Sub	Raj Kumar Rai	3/11 GR	01-Feb-14
JC-635093W	Nb Sub	Santa Kumar Rai	3/11 GR	01-Feb-14
JC-635094Y	Nb Sub	Ganesh Angdemba (Limbu)	3/11 GR	01-Feb-14
JC-635110L	Nb Sub	Dewa Kumar Rai	3/11 GR	01-Feb-14
JC-635111N	Nb Sub	Surendra Singh Limbu	3/11 GR	01-Feb-14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2014 without effect on pay allces)				
JC-634968P	Nb Sub (Clk)	RKP Nirala	5/11 GR	01-Mar-14
JC-635024A	Nb Sub	Ram Kumar Soden	2/11 GR	01-Mar-14
JC-635025H	Nb Sub	Santa Kumar Rai	2/11 GR	01-Mar-14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2014 without effect on pay allces)				

JC-634988H	Nb Sub (Clk)	Prafulla Kumar Shahu	5/11 GR	01-Apr-14
JC-634987A	Nb Sub	Kaman Rai	6/11 GR	01-Apr-14
JC-634998M	Nb Sub	Man Kumar Limbu	6/11 GR	01-Apr-14
JC-635033F	Nb Sub	Kuber Mani Rai	2/11 GR	01-Apr-14
JC-635043L	Nb Sub	Damber Bahadur Rai	2/11 GR	01-Apr-14
JC-635047F	Nb Sub	Tej Bahadur Wanem	2/11 GR	01-Apr-14
JC-635053P	Nb Sub	Ganesh Bahadur Yaksho, SM	2/11 GR	01-Apr-14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2014 without effect on pay allces)				
JC-635067P	Nb Sub	Mani Kumar Rai	1/11 GR	01-Apr-14
JC-635077Y	Nb Sub	Ram Thapa	7/11 GR	01-Apr-14
JC-635087H	Nb Sub	Netra Kumar Khimding	1/11 GR	01-Apr-14
JC-635112W	Nb Sub	Padam Bahadur Limbu	3/11 GR	01-Apr-14
JC-635117P	Nb Sub	Deu Kumar Rai	3/11 GR	01-Apr-14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2014 without effect on pay allces)				
JC-635029Y	Nb Sub	Lok Bahadur Limbu	6/11 GR	01-May-14
JC-635030N	Nb Sub	Krishna Kumar Limbu	6/11 GR	01-May-14
JC-635042H	Nb Sub	Ram Dal Rai	5/11 GR	01-May-14
JC-635052M	Nb Sub	Shri Kumar Limbu	5/11 GR	01-May-14
JC-635088L	Nb Sub	Sujan Kumar Rai	1/11 GR	01-May-14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2014 without effect on pay allces)				
JC-635062W	Sub	Santosh Kumar Limbu	5/11 GR	02-May-14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 02 May 2014 without effect on pay allces)				
JC-635113Y	Nb Sub	Krishna Bahadur Karki	3/11 GR	06-May-14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 06 May 2014 without effect on pay allces)				
JC-635079K	Nb Sub	Ambar Singh Limbu	7/11 GR	13-May-14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 13 May 2014 without effect on pay allces)				
JC-635126W	Nb Sub	Ratna Bahadur Sherpa	3/11 GR	16-May-14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 16 May 2014 without effect on pay allces)				
JC-635127Y	Nb Sub	Man Kumar Palungwa	3/11 GR	19-May-14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 19 May 2014 without effect on pay allces)				
JC634994W	Nb Sub (Clk)	Brojra Kumar Bora	ARO Almora	01 Jun 14
JC-635086A	Nb Sub	Karna Bahadur Rai	2/11 GR	01 Jun 14
JC-635128F	Nb Sub	Nabin Rai	3/11 GR	01 Jun 14
JC-635083M	Nb Sub	Rajan Sor Rai	5/11 GR	01 Jun 14
JC-635092N	Nb Sub	Ram Prasad Nembang	7/11 GR	01 Jun 14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2014 without effect on pay allces)				

JC-635017K	Nb Sub (Clk)	Kishana Ram	7/11 GR	01 Jul 14
JC-635036P	Nb Sub (Clk)	Nirmal Jit Singh	1/11 GR	01 Jul 14
JC-635098P	Nb Sub	Narayan Prasad Limbu	1/11 GR	01 Jul 14
JC-635031W	Nb Sub	Man Bahadur Shrestha	6/11 GR	01 Jul 14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay allces)				
JC-635084P	Nb Sub	Randip Rai	5/11 GR	20 Jul 14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 20 Jul 2014 without effect on pay allces)				
JC-635045W	Nb Sub (Clk)	Raju Ram Solankey	GRO Ghoom	24 Jul 14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 24 Jul 2014 without effect on pay allces)				
JC-635097M	Nb Sub	Shyam Bahadur Tamang	5/11 GR	25 Jul 14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 25 Jul 2014 without effect on pay allces)				
JC-635051K	Nb Sub (Clk)	Naresh Chandra	IHQ of MoD (Army)	01 Aug 14
JC-635099X	Nb Sub	Lila Hang Limbu	1/11 GR	01 Aug 14
JC-635103P	Nb Sub	Prem Bahadur Seiling	1/11 GR	01 Aug 14
JC-635119A	Nb Sub	Toran Kumar Shrestha	3/11 GR	01 Aug 14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2014 without effect on pay allces)				
JC-635106H	Nb Sub	Raksha Kumar Rai	1/11 GR	01 Sep 14
JC-635115K	Nb Sub	Santosh Tamang	1/11 GR	01 Sep 14
JC-635090H	Nb Sub	Jas Man Rai	2/11 GR	01 Sep 14
JC-635095F	Nb Sub	Bal Bahadur Rai	2/11 GR	01 Sep 14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay allces)				
JC-635060L	Nb Sub (Clk)	Bag Singh Seeyol	5/11 GR	01 Oct 14
JC-635065K	Nb Sub	Kumar Singh Rai	2/11 GR	01 Oct 14
JC-635100F	Nb Sub	Bhagya Dhan Rai	2/11 GR	01 Oct 14
JC-635096K	Nb Sub	Lok Bahadur Khadka	5/11 GR	01 Oct 14
JC-607859Y	Nb Sub	Passang Tamang	1 Sikkim Scouts	01 Oct 14
JC-607918A	Nb Sub	Bimal Limbu	1 Sikkim Scouts	01 Oct 14
JC-635069A	Nb Sub	Binesh Rai	1 Sikkim Scouts	01 Oct 14
JC-635070P	Nb Sub	Bhupendra Kumar Subba	1 Sikkim Scouts	01 Oct 14
JC-635075N	Nb Sub	Chandra Bahadur Rai	1 Sikkim Scouts	01 Oct 14
JC-603007M	Nb Sub	Dhan Man Thapa	1 Sikkim Scouts	01 Oct 14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay allces)				
JC-635076W	Nb Sub	Bindra Man Rai	1 Sikkim Scouts	01 Oct 14
JC-635080Y	Nb Sub	Suk Man Subba	1 Sikkim Scouts	01 Oct 14

JC-635082K	Nb Sub	Arjun Rai	1 Sikkim Scouts	01 Oct 14
JC-635114F	Nb Sub	Sang Dorjee Tamang	1 Sikkim Scouts	01 Oct 14
JC-635166X	Nb Sub	Pawan Rai	1 Sikkim Scouts	01 Oct 14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay allces)				
JC-635116M	Nb Sub	Dil Kumar Chemjong	1/11 GR	01 Nov 14
JC-635019P	Nb Sub	Amrit Kumar Rai	7/11 GR	01 Nov 14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2014 without effect on pay allces)				
JC-635120P	Nb Sub	Ram Kumar Lama	1/11 GR	01 Dec 14
JC-635121X	Nb Sub	Ram Kumar Limbu	1/11 GR	01 Dec 14
JC-635165P	Nb Sub	Gajendra Bahadur Sambhampe	1/11 GR	01 Dec 14
JC-635123H	Nb Sub	Kamal Rai	2/11 GR	01 Dec 14
JC-635102M	Nb Sub	Sanjeev Tamang	7/11 GR	01 Dec 14
JC-635109W	Nb Sub	Arun Kumar Thapa	7/11 GR	01 Dec 14
(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2014 without effect on pay allces)				

THE KUMAON REGIMENT

To be Subedar Major

Sub	Rajendra Kumar Pandey	JC-539930A	01 Apr 14
Sub	Jagat Singh	JC-540076L	01 May 14
Sub (Musn)	Hari Ram	JC-540781K	<u>14 Aug 14</u> 01 Jul 14*
* Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul 14 without effect on pay and allowances.			
Sub/Clk	Sukanta Kumar Rana	JC-540164F	01 Sep 14
Sub	Shankar Singh	JC-540227Y	01 Oct 14
Sub	Bhwan Singh	JC-540255L	01 Oct 14
Sub	Kharak Singh	JC-540042X	01 Mar 14
Sub	Bhuwan Singh Mundela	JC-539804N	01 May 14
Sub	Dhan Bahadur Chand	JC-540071M	01 May 14
Sub	Ramesh Chandra Singh Bargali	JC-540543X	01 May 14
Sub	Puran Singh	JC-540315P	01 Jun 14

TO BE NB SUB

Hav	Govind Singh	4184449Y Now JC-541381K	<u>03 May 14</u> 31 Mar 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Mar 14 without effect on pay and allowances.			
Hav/Clk (SD)	A Nishi Kumar Singha	4184470F Now JC-541382M	01 Apr 14
Hav/Clk (SD)	Lalit Prasad Upreti	4184079K Now JC-541383P	01 Apr 14
Hav/Clk (SD)	Pramod Kumar Karnatak	4184162F Now JC-541384X	01 Apr 14

Hav/Clk (SD)	Kashmir Singh Yadav	4184519M Now JC-541385A	01 Apr 14
Hav/Clk (SD)	Puran Singh Kanyal	4183893H Now JC-541386H	01 Apr 14
Hav/Clk (SD)	Harish Kumar Singh	4184168H Now JC-541387L	01 Apr 14
Hav/Clk (SD)	Sanjay Kumar Singh	4184348L Now JC-541388N	01 Apr 14
Hav/Clk (SD)	Himmat Singh	4184290Y Now JC-541389W	01 Apr 14
Hav/Clk (SD)	Rajendra Singh	4183907X Now JC-541390L	01 Apr 14
Hav	Awadhesh Kumar Singh	4184792F Now JC-541391N	01 Apr 14
Hav	Satyavir Singh	4184984Y Now JC-541392W	<u>22 Apr 14</u> 01 Apr 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Ishwar Singh	4184671A Now JC-541393Y	01 Apr 14
Hav	Raj Nath Yadav	4184484F Now JC-541394F	01 Apr 14
Hav	Nain Singh	4184709Y Now JC-541395K	21 Apr 14 02 Apr 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Apr 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Dambar Chand	4184688N Now JC-541396M	<u>05 May 14</u> 01 May 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Jeewan Singh Nayal	4184656L Now JC-541397P	01 May 14
Hav	Shyam Sundar Singh	4184828P Now JC-541398X	01 May 14
Hav	Rajesh Kumar	4182708X Now JC-541399A	01 May 14
Hav	Govind Ballabh	4184305W Now JC-541400K	01 May 14
Hav	Dhan Singh	4184287Y Now JC-541401M	01 May 14
Hav	Sanjesh Kumar	4185263F Now JC-541402P	01 May 14
Hav	Harish Singh Mahara	4184922Y Now JC-541403X	01 May 14
Hav	Umesh Chandra	4185899H Now JC-541404A	01 May 14
Hav	Chhatr Pal	4185252P Now JC-541405H	01 May 14
Hav	Gopal Singh	4183180X Now JC-541406L	<u>31 May 14</u> 01 May 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Khushahal Singh Chauhan	4183857X Now JC-541407N	01 May 14
Hav	Rajendra Singh Suyal	4183944L Now JC-541408W	01 May 14
Hav	Prakash Chandra Joshi	4188129F Now JC-541409Y	01 May 14
Hav	Ram Datt Bhatt	4184738N Now JC-541410N	<u>02 May 14</u> 01 May 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Trilok Singh	4183918K Now JC-541411W	01 May 14
Hav	Harish Singh	4186311H Now JC-541412Y	<u>28 May 14</u> 01 May 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 14 without effect on pay and allowances.			

Hav	Bachche Lal Yadav, SM	4184494L Now JC-541413F	01 May 14
Hav	Virendra Yadav	4187352Y Now JC-541414K	<u>13 May 14</u> 01 May 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Satya Dev	4186205K Now JC-541415M	01 May 14
Hav/Clk (SD)	Gore Ramesh Shankar	4184524X Now JC-541418A	<u>02 Jun 14</u> 01 Jun 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allowances.			
Hav/Clk (SD)	Prakash Singh Bisht	4183917F Now JC-541419H	01 Jun 14
Hav/Clk (SD)	Rebadhar Joshi	4184001Y Now JC-541420X	01 Jun 14
Hav/Clk (SD)	Kushal Singh Kulegi	4184265A Now JC-541421A	<u>02 Jun 14</u> 01 Jun 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Shoorvir Singh Rathore	4185165F Now JC-541422H	01 Jun 14
Hav	Surinder Kumar	4185238H Now JC-541423L	<u>02 Jun 14</u> 01 Jun 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Bahadur Chand	4185068K Now JC-541424N	01 Jun 14
Hav	Chandra Singh	4184633K Now JC-541425W	<u>10 Jun 14</u> 01 Jun 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Anand Singh	4184017K Now JC-541426Y	01 Jun 14
Hav	Ishwar Singh	4185446X Now JC-541427F	<u>09 Jun 14</u> 01 Jun 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Ravinder Kumar	4185626A Now JC-541428K	<u>06 Jun 14</u> 01 Jun 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Dalip Singh	4184020K Now JC-541429M	<u>12 Jun 14</u> 01 Jun 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Sanjeev Raja	4195606A Now JC-541430F	<u>02 Jun 14</u> 01 Jun 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Rakesh Chandra Punetha	4197507W Now JC-541431K	01 Jun 14
Hav	Chandra Shekhar Pant	4184969K Now JC-541432M	01 Jun 14
Hav	Darwan Singh	4184477L Now JC-541433P	01 Jun 14
Hav	Tahseldar Singh Yadav	4185979A Now JC-541434X	01 Jun 14
Hav	Surendra Singh Kaphalia	4183067H Now JC-541435A	01 Jun 14
Hav	Jagat Singh	4183317Y Now JC-541436H	<u>02 Jun 14</u> 01 Jun 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allowances.			

Hav	Mohan Chandra Kandpal	4184757Y Now JC-541437L	<u>02 Jun 14</u> 01 Jun 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Krishna Singh	4183371M Now JC-541438N	<u>02 Jun 14</u> 01 Jun 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Praveen Singh	4183864N Now JC-541439W	<u>06 Jun 14</u> 01 Jun 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Prem Singh	4185143H Now JC-541440L	01 Jun 14
Hav	Harish Chandra Singh	4185167M Now JC-541441N	<u>02 Jun 14</u> 01 Jun 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Dinesh Chandra Bhatt	4185169X Now JC-541442W	01 Jun 14
Hav	Kishan Singh Bisht	4185211L Now JC-541443Y	01 Jun 14
Hav	Pradeep Kumar	4184086A Now JC-541444F	<u>06 Jun 14</u> 01 Jun 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Trilok Chand Kapri	4184088L Now JC-541445K	<u>11 Jun 14</u> 01 Jun 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Kundan Singh	4184263P Now JC-541446M	01 Jun 14
Hav	Yavindra Kumar	4184503F Now JC-541447P	01 Jun 14
Hav	Narayan Datt Pandey	4183190F Now JC-541448X	01 Jul 14
Hav	Hoshiyar Singh	4185084F Now JC-541449A	01 Jul 14
Hav	Surendra Chand	4185087P Now JC-541450P	01 Jul 14
Hav	Daulat Singh Bora	4185113L Now JC-541451X	<u>11 Jul 14</u> 01 Jul 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Om Prakash	4183470P Now JC-541452A	01 Jul 14
Hav	Manoj Singh Mehra	4193423L Now JC-541453H	01 Jul 14
Hav	Nandan Singh	4184288F Now JC-541454L	01 Jul 14
Hav	Diwan Singh	4184296A Now JC-541455N	01 Jul 14
Hav	Mahesh Chandra Bhatt	4184502Y Now JC-541456W	01 Jul 14
Hav	Harsh Kumar Singh	4183083A Now JC-541457Y	01 Jul 14
Hav	Kundal Singh	4185245Y Now JC-541458F	01 Jul 14
Hav	Keshar Singh Dhami	4185009X Now JC- 541459K	01 Jul 14
Hav	Bhupal Singh Mahori	4184093W Now JC-541460Y	01 Jul 14
Hav	Bahadur Singh	4185057X Now JC-541461F	01 Jul 14
Hav	Pooran Chandra	4185227W Now JC-541462K	<u>08 Jul 14</u> 01 Jul 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 14 without effect on pay and allowances.			

Hav	Gopal Datt	4183450F Now JC-541463M	01 Jul 14
Hav	Dayal Singh	4184179P Now JC-541464P	01 Jul 14
Hav	Bhagwan Singh	4184092N Now JC-541465X	<u>03 Jul 14</u> 01 Jul 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Ram Singh	4185153M Now JC-541466A	01 Jul 14
Hav	Shiv Singh	13619482M Now JC-541467H	<u>03 Jul 14</u> 01 Jul 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Rajendra Singh Dhauni	4184551F Now JC-541468L	<u>02 Jul 14</u> 01 Jul 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Madho Singh	4184679M Now JC-541469N	<u>02 Jul 14</u> 01 Jul 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Harish Singh Rathour	4184681K Now JC-541470H	<u>13 Jul 14</u> 03 Jul 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Jul 14 without effect on pay and allowances.			
Naga Regt			
Hav	Sinrvwng Elvenson Anal	14703047Y Now JC-590369M	<u>15 Jun 14</u> 26 Mar 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Mar 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	LK Tanhring Anal	14702834N Now JC-590370F	<u>25 Apr 14</u> 01 Apr 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Hira Singh	14702801H Now JC-590371K	<u>25 Apr 14</u> 01 Apr 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Sanjay Dutt	14702882N Now JC-590372M	<u>25 Apr 14</u> 01 Apr 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	S Tennyson Tangkhul	14702727M Now JC-590373P	<u>25 Apr 14</u> 01 Apr 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Tila Ram Chhetri	14702949F Now JC-590374X	01 Apr 14
Hav	N Heito Rochill	14702856M Now JC-590375A	01 May 14
Hav	Khaknyi Konyak	14702749L Now JC-590376H	01 May 14
Hav	WS Marten Anal	14702899F Now JC-590377L	<u>28 Jun 14</u> 06 May 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 06 May 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Dhiren Tamang	14702905K Now JC-590378N	01 Jul 14
Hav	Shiv Raj Singh	4186612M Now JC-590379W	<u>09 Jul 14</u> 01 Jul 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 14 without effect on pay and allowances.			

Hav/Clk (SD)	Narendra Kumar Yadav	4184506P Now JC-541493K	01 Aug 14
Hav/Clk (SD)	Anand Singh Mehera	4184549K Now JC-541494M	21 Aug 14 16 Aug 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Aug 14 without effect on pay and allowances.			
Hav/Clk (SD)	Kamala Prasad Yadav	4184701M Now JC-541495P	01 Sep 14
Hav/Clk (SD)	Naresh Kumar	4186025F Now JC-541496X	01 Sep 14
Hav	Shoban Singh	4185271A Now JC-541497A	01 Sep 14
Hav	Mukesh	4185545A Now JC-541498H	01 Sep 14
Hav	Laxman Kumar	4184917N Now JC-541499L	01 Sep 14
Hav	Pushkar Singh Dharmi	4185272H Now JC-541500P	01 Sep 14
Hav	Indra Singh Rautela	4185230W Now JC-541501X	01 Sep 14
Hav	Rama Nand	4184560H Now JC-541502A	01 Sep 14
Hav	Devendra Prasad	4185286H Now JC-541503H	01 Sep 14
Hav	Lalita Prasad Singh Mehta	4185236X Now JC-541504L	01 Sep 14
Hav	Devaki Nandan	4185259Y Now JC-541505N	01 Sep 14
Hav	Girish Chandra Pant	4185278K Now JC-541506W	13 Oct 14 01 Sep 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Heera Singh Rawat	4184303L Now JC-541507Y	02 Sep 14 01 Sep 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Suresh Chandra	4184304N Now JC-541508F	01 Sep 14
Hav	Kripal Singh	4185250K Now JC-541509K	01 Sep 14
Hav	Manohar Singh	4183855M Now JC-541510Y	01 Sep 14
Hav	Kharak Singh	4183858A Now JC-541511F	01 Sep 14
Hav	Narendra Singh Kathyat	4185179F Now JC-541512K	01 Sep 14
Hav	Jhungar Singh	4184121X Now JC-541513M	01 Sep 14
Hav	Lalit Mohan Samant	4185481A Now JC-541514P	01 Sep 14
Hav	Devendra Singh	4184955K Now JC-541515X	01 Sep 14
Hav	Chet Ram Yadav	4184643N Now JC-541516A	04 Sep 14 01 Sep 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Ashish Singh Chauhan	4198593Y Now JC-541517H	13 Sep 14 11 Sep 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Sep 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Udey Bir	4184672H Now JC-541518L	01 Oct 14
Hav	Mohan Singh	4184908M Now JC-541519N	01 Oct 14
Hav	Dhara Singh	4185152K Now JC-541520H	01 Oct 14
Hav	Arjun Singh	4184306Y Now JC-541521L	01 Oct 14
Hav	Thakur Singh	4184307F Now JC-541522N	01 Oct 14
Hav	Kushal Singh	4183810M Now JC-541523W	01 Oct 14
Hav	Shivendra Singh	4184956M Now JC-541524Y	01 Oct 14

Hav	Satish Kumar	4202783L Now JC-541525F	<u>28 Nov 14</u> 04 Oct 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Oct 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Gopal Singh Rana	4184958X Now JC-541526K	<u>10 Nov 14</u> 01 Nov 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Vijay Kumar	4185137P Now JC-541527M	01 Nov 14
Hav	Jiwan Singh	4185363M Now JC-541528P	01 Nov 14
Hav	Kashmir Singh	4184545N Now JC-541529X	01 Nov 14
Hav	Govind Singh	4184414H Now JC-541530M	01 Nov 14
Hav	Harish Chander Singh, SM	4184805N Now JC-541531P	<u>07 Dec 14</u> 02 Nov 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Nov 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Ramesh Singh	4184815X Now JC-541532X	<u>07 Dec 14</u> 01 Dec 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Harish Singh Kanyal	4184875M Now JC-541533A	01 Dec 14
Hav	Ramesh Singh Yadav	4184940F Now JC-541534H	01 Dec 14
Hav	Chanchal Singh Chauhan	4184229P Now JC-541535L	01 Dec 14
Hav	Indra Singh	4185205X Now JC-541536N	01 Dec 14
Hav	Mahendra Singh	13619902F Now JC-541537W	01 Dec 14
Hav	Kundan Singh Kholiya	4184000W Now JC-541538Y	01 Dec 14
Hav	Govind Singh	4185381P Now JC-541539F	01 Dec 14
Hav	Sundar Singh	4185452L Now JC-541540W	01 Dec 14
Hav	Ravindra Singh Karki	4185466L Now JC-541541Y	01 Dec 14
Hav	Lal Singh Rawat	4184123H Now JC-541542F	<u>06 Dec 14</u> 01 Dec 14
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Mohan Chandra	4184393X Now JC-541543K	01 Dec 14
Hav	Bhupendra Singh Dhami	4185533L Now JC-541544M	01 Dec 14
Naga Regt			
Hav	KL Tangshel Anal	14702948Y Now JC-590381N	<u>23 Aug 14</u> 12 Aug 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Aug 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Man Mohan Singh	14703014N Now JC-590382W	<u>12 Sep 14</u> 01 Sep 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	WS Gabriel Anal	14702810K Now JC-590383Y	<u>11 Dec 14</u> 13 Jul 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Jul 14 without effect on pay and allowances.			

Hav	CH Lokho	14702968M Now JC-590384F	<u>11 Dec 14</u> 13 Jul 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Jul 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Pahrang Rungwar	14703184X Now JC-590385K	<u>04 Jan 15</u> 20 Jul 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jul 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	Youtsumong Yumchungru	14703394X Now JC-590386M	<u>11 Dec 14</u> 01 Sep 14*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 14 without effect on pay and allowances.			
Hav	L Amos Kom	14702819Y Now JC-590387P	01 Oct 14
Hav	Nandan Singh	14703077W Now JC-590388X	01 Nov 14

The Dogra Regiment

To be Nb Sub

Hav Karam Chand (3993165F Now JC-522033N) +4th Sep 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st May 14 without effect on pay and allowances.

Hav Surinder Singh (3991260P Now JC-522034W) +20th Aug 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 28th May 14 without effect on pay and allowances.

Hav Rajesh Kumar (3993185P Now JC-522035Y) +21st Aug 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 30th May 14 without effect on pay and allowances.

Hav Pawan Kumar (3991298Y Now JC-522036F) +20th Aug 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 7th Jun 14 without effect on pay and allowances.

Hav Pawan Kumar (3993189L Now JC-522037K) +1st Aug 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 11th Jun 14 without effect on pay and allowances.

Hav Amit Rana (4000550F Now JC-522038M) +11th Sep 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 16th Jul 14 without effect on pay and allowances.

Hav Didar Singh (3991330H Now JC-522039P) +22nd Aug 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Aug 14 without effect on pay and allowances.

Hav Gurminder Singh (3991524L Now JC-522040K) +30th Aug 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Aug 14 without effect on pay and allowances.

Hav Nikka Ram (3991318F Now JC-522041M) +11th Sep 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Sep 14 without effect on pay and allowances.

Hav Besar Singh (3993283P Now JC-522042P) +13th Sep 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Sep 14 without effect on pay and allowances.

Hav Surinder Singh (3991946W Now JC-522043X) +31st Oct 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 4th Jul 14 without effect on pay and allowances.

Hav Pulla Singh (3992002F Now JC-522044A) +25th Oct 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 4th Jul 14 without effect on pay and allowances.

Hav Naresh Kumar (3991792P Now JC-522045H) +7th Sep 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 8th Jul 14 without effect on pay and allowances.

Hav Sanjeev Kumar (3991813A Now JC-522046L) +15th Sep 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Aug 14 without effect on pay and allowances.

Hav Narotam Singh (3991831H Now JC-522047N) +7th Sep 2014
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 21st Aug 14 without effect on pay and allowances.

Hav Rajesh Kumar (3991836F Now JC-522048W) +15th Sep 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Sep 14 without effect on pay and allowances.

Hav Kuldip Raj (3991526W Now JC-522049Y) +11th Oct 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 11th Sep 14 without effect on pay and allowances.

Hav Yashpal Singh	(3991530Y Now JC-522050N)	+11 th Oct 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 11 th Sep 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Ram Murti	(3991533M Now JC-522051W)	+3 rd Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Jai Rath	(3990566L Now JC-522052Y)	+30 th Oct 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Ram Lal	(3991108F Now JC-522053F)	+30 th Oct 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Davinder Singh	(3991329N Now JC-522054K)	+31 st Oct 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Lal Bahadur	(3991532K Now JC-522055M)	+1 st Oct 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Anil Kumar Sharma	(3991196H Now JC-522056P)	+25 th Sep 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Kalwant Singh	(3991875A Now JC-522057X)	+11 th Oct 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 4 th Sep 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Narinder Prakash	(3991246H Now JC-522058A)	+12 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Pawan Kumar	(3991345L Now JC-522059H)	+5 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Tilak Raj	(3991359L Now JC-522060X)	+5 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Rakesh Kumar	(3991264L Now JC-522061A)	+5 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Kamal Singh	(3991375H Now JC-522062H)	+5 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 13 th Oct 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Ashok Kumar	(3991413N Now JC-522063L)	+5 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Jeewan Singh	(3992384W Now JC-522068K)	+25 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Ashok Kumar	(3185384M Now JC-522069M)	+28 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 12 th Sep 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Ashok Kumar	(3991908A Now JC-522070F)	+6 th Dec 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Rakesh Kumar	(3992134P Now JC-522071K)	+14 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Ranjeet	(3992216X Now JC-522072M)	+15 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Rakesh Kumar	(3992232P Now JC-522073P)	+14 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Rajeev Kumar	(3992407M Now JC-522074X)	+18 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Jagdev Singh	(3992945A Now JC-522075A)	+29 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 14 without effect on pay and allowances.		

Hav Rajesh Kumar	(3991970M Now JC-522076H)	+1 st Dec 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 13 th Nov 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Jeetender Kumar	(3991235W Now JC-522077L)	+1 st Dec 14
Hav Chuni Lal	(3991459W Now JC-522078N)	+1 st Dec 14
Hav Ashok Kumar	(3991988H Now JC-522079W)	+1 st Dec 14
Hav Amarjit Singh Patiyal	(3992476H Now JC-522080L)	+1 st Dec 14
Hav Deepak Kumar	(3992316H Now JC-522081N)	+25 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Om Parkash	(3992596F Now JC-522082W)	+12 th Dec 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Sanjay Gautam	(3992632F Now JC-522083Y)	+3 rd Dec 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 25 th Jul 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Yesh Pal Singh	(3992634M Now JC-522084F)	+3 rd Dec 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 29 th Jul 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Ram Singh	(3992685A Now JC-522085K)	+12 th Dec 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Pardeep Kumar	(3992687L Now JC-522086M)	+3 rd Dec 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Naresh Singh	(3992668A Now JC-522087P)	+3 rd Dec 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 8 th Sep 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Anil Kumar	(3992486M Now JC-522088X)	+22 nd Dec 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 20 th Sep 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Karam Chand	(3991845H Now JC-522089A)	+24 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Rshpal Sharma	(3991856P Now JC-522090P)	+28 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Suresh Kumar	(3991877L Now JC-522091X)	+24 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 2 nd Oct 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Raghbir Singh	(3991891X Now JC-522092A)	+24 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Subhash Chander	(3991902Y Now JC-522093H)	+26 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Jalm Singh	(3991943H Now JC-522094L)	+24 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Sarwan Kumar	(3991967M Now JC-522095N)	+24 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Subhash Chand	(3991979F Now JC-522096W)	+24 th Nov 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Hans Raj	(3991986X Now JC-522097Y)	+16 th Dec 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Rajesh Kumar	(3992123H Now JC-522098F)	+13 th Dec 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 4 th Nov 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Sanjeev Kumar	(3989453W Now JC-522099K)	+12 th Dec 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Dec 14 without effect on pay and allowances.		
Hav Raj Kumar	(3989819H Now JC-522100N)	+12 th Dec 14
+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Dec 14 without effect on pay and allowances.		

Hav Moti Singh (3990031X Now JC-522101W) +12th Dec 14
 +Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Dec 14 without effect on pay and allowances.

Hav Rajesh Pal Singh (3992580W Now JC-522102Y) +13th Dec 14
 +Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Dec 14 without effect on pay and allowances.

Hav Jagdev Singh (3993297P Now JC-522103F) +24th Dec 14
 +Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Dec 14 without effect on pay and allowances.

Hav Rajinder Kumar (3993316P Now JC-522104K) +24th Dec 14
 +Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Dec 14 without effect on pay and allowances.

Hav Suresh Kumar (3992177K Now JC-522105M) +3rd Dec 14
 +Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Aug 14 without effect on pay and allowances.

Hav Surinder Singh (3991896W Now JC-522106P) +10th Dec 14
 +Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Oct 14 without effect on pay and allowances.

Hav Simal Chand (3991640N Now JC-522107X) +23rd Nov 14
 +Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 15th Oct 14 without effect on pay and allowances.

Hav Surinder Singh Katoch (3991789P Now JC-522108A) +13th Dec 14
 +Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Dec 14 without effect on pay and allowances.

Hav Atma Singh (3992159F Now JC-522109H) +27th Dec 14
 +Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Dec 14 without effect on pay and allowances.

To be Nb Sub Clerk (SD)

Hav/Clk M Magesh Kumar (3994572W Now JC-522064N) +1st Jul 14
 +Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Jun 14 without effect on pay and allowances.

Hav/Clk Baldev Raj (3993145N Now JC-522065W) +18th Sep 14
 +Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Aug 14 without effect on pay and allowances.

Hav/Clk Atul Tiwari (3992369F Now JC-522066Y) +20th Sep 14
 +Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Aug 14 without effect on pay and allowances.

JAK LI

To be Subedar Major

Sub Darshan Kumar (JC-593024W) 02 May 2014
 (Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 May 2014).

Sub Parshotam Kumar (JC-593333Y) 01 Aug 2014
 (Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Aug 2014).

Promotion Of Havildar To Naib Subedar

9096618F Hav Karam Chand (Now JC-594456X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 11 Apr 2014)	20 Aug 2014
9089925W Hav Jagtab Singh (Now JC-594457A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Aug 2014)	01 Aug 2014
9094355P Hav Bir Singh (Now JC-594458H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Aug 2014)	01 Aug 2014
9094623N Hav Sat Paul (Now JC-594459L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Aug 2014)	01 Aug 2014
9094170N Hav Mohd Ashfaq (Now JC-594460A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 18 Sep 2014)	24 Sep 2014
9096261W Hav Ghulam Mustafa (Now JC-594461H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	10 Jul 2014

9094453P Hav Prabh Dayal (Now JC-594462L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Aug 2014)	13 Sep 2014
9094456H Hav Kasturi Lal, SM (Now JC-594463N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Aug 2014)	12 Sep 2014
9096480X Hav Puran Chand (Now JC-594464W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Sep 2014)	18 Sep 2014
9096039P Hav Wajahat Hussain (Now JC-594465Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 18 Sep 2014)	27 Sep 2014
9096796L Hav Yog Raj (Now JC-594466F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 18 Sep 2014)	27 Sep 2014
9096123P Hav Ashwani Kumar (Now JC-594467K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 18 Sep 2014)	27 Sep 2014
9096204P Hav Ravinder Singh (Now JC-594468M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 18 Sep 2014)	27 Sep 2014
9089709H Hav Karpal Singh (Now JC-594469P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Oct 2014)	01 Oct 2014
9094322K Hav Romesh Singh (Now JC-594470K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Oct 2014)	01 Oct 2014
9094600M Hav Abdul Rashid (Now JC-594471M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Oct 2014)	01 Oct 2014
9094601P Hav Liaqat Ali (Now JC-594472P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Oct 2014)	01 Oct 2014
9094656Y Hav Pritam Dass (Now JC-594473X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Oct 2014)	01 Oct 2014
3392770L Hav (Clk) Surender Singh Chouhan (Now JC-594474A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Oct 2014)	01 Oct 2014
9113206Y Hav Chain Singh (Now JC-594475H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 13 Mar 2014)	18 Oct 2014
9095826K Hav Manzoor Hussain (Now JC-594476L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Oct 2014)	01 Oct 2014
9095878A Hav Noor Alahi (Now JC-594477N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Oct 2014)	02 Oct 2014
9094434K Hav Rajesh Sharma (Now JC-594480N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 21 Sep 2014)	11 Oct 2014
9094444A Hav Asha Ram (Now JC-594481W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 30 Sep 2014)	28 Oct 2014
9094473H Hav Pritam Singh (Now JC-594482Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 07 Oct 2014)	10 Nov 2014
9094427N Hav Tara Chand (Now JC-594483F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 18 Oct 2014)	29 Oct 2014
9089535N Hav Lakhbinder Singh (Now JC-594484K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9094504X Hav Mohd Afzal (Now JC-594485M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014

9089976K Hav Mushtaq Ahmed (Now JC-594486P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9094436P Hav Jiya Lal (Now JC-594487X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9099325F Hav (Clk) Jai Pal Singh (Now JC-594488A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9089768P Hav Raghunath Singh (Now JC-594489H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9094417K Hav Rajinder Singh (Now JC-594490X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9094681X Hav Amrik Singh (Now JC-594491A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9094714X Hav Parshotam Singh (Now JC-594492H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9094488L Hav Majid Ahmed (Now JC-594493L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	10 Nov 2014
9096020W Hav Zulifkar Khan (Now JC-594494N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9096088X Hav Mohd Quayoom (Now JC-594495W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9094952K Hav Zakar Hussain (Now JC-594496Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9096602M Hav Suresh Kumar (Now JC-594497F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9096700W Hav Sarfraz Ahmed Khan (Now JC-594498K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9096937N Hav Gh Mohd-Ud-Din Tali (Now JC-594499M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9094759X Hav Swaran Singh (Now JC-594500W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9094814H Hav Mohd Naseer (Now JC-594501Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9094914N Hav Pawan Kumar (Now JC-594502F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9095594W Hav Sunil Dutt, SM (Now JC-594503K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9095563W Hav Mohinder Lal (Now JC-594504M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9096145N Hav Shankar Singh (Now JC-594505P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9095599P Hav Uttam Singh (Now JC-594506P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014

9096487F Hav Jagdish Singh (Now JC-594507A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9099326K Hav (Clk) Agalave Dasharath Chilappa (Now JC-594508H) NbSub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9094516M Hav Saghir Ahmed (Now JC-594509L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9094518K Hav Meer Hussain (Now JC-594510A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	13 Nov 2014
9094405P Hav Surjit Singh (Now JC-594511H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9094732A Hav Vikram Singh (Now JC-594512L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	01 Nov 2014
9094372P Hav Sandeep Kumar (Now JC-594513N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	03 Nov 2014
9095568P Hav Jagdish Chander (Now JC-594514W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	21 Nov 2014
9095589L Hav Darshan Singh (Now JC-594515Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	03 Nov 2014
9095598M Hav Joginder Paul (Now JC-594516L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	15 Nov 2014
9094470P Hav Raj Kumar (Now JC-594517K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	15 Nov 2014
9094531F Hav Mohd Ashraf (Now JC-594518M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	15 Nov 2014
9094650X Hav Manjeet Singh (Now JC-594519P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	15 Nov 2014
9094739K Hav Surinder Singh (Now JC-594520K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	15 Nov 2014
9094713P Hav Maggar Singh (Now JC-594521M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	15 Nov 2014
9094719W Hav Gandharb Singh (Now JC-594522P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	15 Nov 2014
9094896W Hav Subhash Lal (Now JC-594523X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	15 Nov 2014
9094900N Hav Mohd Iqbal (Now JC-594524A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	15 Nov 2014
9094985P Hav Surinder Kumar (Now JC-594525H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	15 Nov 2014
6396550F Nk (Clk) Rakesh Pandey (Now JC-594526L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub (RT) wef 27 Sep 2014)	27 Sep 2014
9095483Y Hav Ashok Kumar (Now JC-594527N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	05 Nov 2014

9096626A Hav Sanjay Kumar (Now JC-594528W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	12 Nov 2014
9096772A Hav Shakoor Ahmed (Now JC-594529Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	12 Nov 2014
9089832F Hav Nasier Ahmed (Now JC-594530N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	01 Dec 2014
9094984M Hav Balbir Singh (Now JC-594531W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	01 Dec 2014
9094993N Hav Mohd Anwar (Now JC-594532Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	01 Dec 2014
9095680F Hav Som Datt (Now JC-594533F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	01 Dec 2014
9097457W Hav Ravi Kumar (Now JC-594534K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	01 Dec 2014
9097527K Hav Raj Singh (Now JC-594535M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	01 Dec 2014
9096988F Hav Sardari Lal (Now JC-594536P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	01 Dec 2014
9095517F Hav Ashok Kumar (Now JC-594404F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 May 2014)	23 May 2014
9089915M Hav Nasib Singh (Now JC-594405K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 May 2014)	01 May 2014
9094296N Hav Abdul Qayoom (Now JC-594406M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 07 May 2014)	26 May 2014
9094392H Hav Subash Chander (Now JC-594407P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 07 May 2014)	10 May 2014
9102528Y Hav (Clk) Paras Nath Tiwari (Now JC-594408X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub (Clk) wef 01 Jun 2014)	02 Jun 2014
9101066L Hav (Clk) Yogendra Singh (Now JC-594409A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub (Clk) wef 01 Jun 2014)	02 Jun 2014
9089874N Hav Gulam Rasool (Now JC-594410P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 08 Oct 2013)	21 Apr 2014
9096108A Hav Gulzar Hussain (Now JC-594411X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 03 Dec 2013)	14 May 2014
9096386N Hav Mohd Afzal (Now JC-594412A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 03 Dec 2013)	21 Apr 2014
9089896M Hav Ashok Kumar (Now JC-594413H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 May 2014)	01 Jun 2014
9095676Y Hav Abdul Latief (Now JC-594414L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 May 2014)	01 Jun 2014
9095805N Hav Jarnail Singh (Now JC-594415N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	01 Jun 2014

9089870X Hav Mohd Azam (Now JC-594416W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 24 Apr 2014)	10 Jun 2014
9094394N Hav Parladh Singh (Now JC-594417Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 07 May 2014)	01 Jun 2014
9089857N Hav Sadiq Hussain (Now JC-594418F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 25 May 2014)	01 Jun 2014
9094213X Hav Mohd Iqbal (Now JC-594419K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	04 Jun 2014
9094246H Hav Dharam Singh (Now JC-594420Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	04 Jun 2014
9094241K Hav Angrez Singh (Now JC-594421F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	11 Jun 2014
9094249W Hav Yash Paul (Now JC-594422K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	11 Jun 2014
9094333W Hav Mohd Shafi Mir (Now JC-594423M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	10 Jun 2014
9094888X Hav Surinder Singh (Now JC-594424P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	01 Jun 2014
9094290M Hav Mohd Farooq (Now JC-594425X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	01 Jun 2014
9094395W Hav Sohan Singh Bhau (Now JC-594426A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	01 Jun 2014
9094400W Hav Krishan Chand (Now JC-594427H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	01 Jun 2014
9089771P Hav Rachhpal Chand (Now JC-594428L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	01 Jun 2014
9089773A Hav Sham Lal (Now JC-594429N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	01 Jun 2014
9089775L Hav Ashok Kumar (Now JC-594430H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	01 Jun 2014
9099213F Hav (Clk) Gurmeet Singh Randhawa (Now JC-594431L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	01 Jun 2014
9095632F Hav Mohd Iqbal (Now JC-594432N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 04 Jun 2013)	12 Jun 2014
9096452L Hav Suresh Kumar (Now JC-594433W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 03 Dec 2013)	18 Jun 2014
9096651Y Hav Madan Lal (Now JC-594434Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 07 May 2014)	18 Jun 2014
9096630H Hav Tarsem Lal (Now JC-594435F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 18 May 2014)	08 Jun 2014
9096471W Hav Karan Singh (Now JC-594436K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 18 May 2014)	08 Jun 2014

9089893Y Hav Bhushan Lal (Now JC-594437M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	11 Jun 2014
9094269K Hav Inderjeet Singh (Now JC-594438P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	26 Jun 2014
9094328L Hav Amir Chand (Now JC-594439X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	17 Jun 2014
9101067N Hav (Clk) Deepak Kumar Dimari (Now JC-594440M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub (Clk) wef 01 Jul 2014)	01 Jul 2014
9101069Y Hav (Clk) Shiv Kumar (Now JC-594441P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub (Clk) wef 01 Jul 2014)	01 Jul 2014
9095425P Hav Surinder Singh (Now JC-594442X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 May 2014)	24 Jun 2014
9089979X Hav Altaf Hussain (Now JC-594443A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 21 May 2014)	05 Jul 2014
9094404M Hav Rajinder Kumar (Now JC-594444H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2014)	23 Jun 2014
9094242M Hav Bishamber Dass (Now JC-594445L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jul 2014)	01 Jul 2014
9095996N Hav Mohd Bashir (Now JC-594446N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jul 2014)	05 Jul 2014
9089899A Hav Ashok Kumar (Now JC-594447W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jul 2014)	01 Jul 2014
9101071W Hav Jaspal Singh (Now JC-594448Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Aug 2014)	01 Aug 2014
9089509M Hav Mustaq Hussain (Now JC-594449F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Aug 2014)	01 Aug 2014
9094598A Hav Mohd Hanief (Now JC-594450W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Aug 2014)	01 Aug 2014
9094326A Hav Kuldeep Singh, SM (Now JC-594451Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Aug 2014)	01 Aug 2014
9089916P Hav Parveen Singh (Now JC-594452F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Aug 2014)	01 Aug 2014
9094449M Hav Sat Paul (Now JC-594453K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 13 Jul 2014)	15 Aug 2014
9094408M Hav Rakesh Kumar (Now JC-594454M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Sep 2014)	01 Sep 2014
9101072Y Hav (Clk) Vijay Singh (Now JC-594455P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Sep 2014)	03 Sep 2014
9096011P Hav Rattan Lal (Now JC-594539H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Oct 2014)	29 Nov 2014
9094468X Hav Ashok Kumar (Now JC-594540X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 12 Oct 2014)	19 Nov 2014
9096012X Hav Mohd Ashraf Khan (Now JC-594541A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	01 Dec 2014
9096047N Hav Kuldeep Singh (Now JC-594542H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	02 Dec 2014

9096750F Hav Mushtaq Ahmad Wani (Now JC-594543L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	01 Dec 2014
9094724F Hav Bodh Raj (Now JC-594544N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Sep 2014)	13 Dec 2014
9094445W Hav Jagan Nath (Now JC-594545W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Oct 2014)	16 Oct 2014
9094472A Hav Hargovind Lal (Now JC-594546Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	15 Nov 2014
9089721K Hav Krishan Lal (Now JC-594547F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	12 Dec 2014
9094988H Hav Rashid Ahmad (Now JC-594548K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	01 Dec 2014
9095441M Hav Vijay Kumar (Now JC-594549M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	01 Dec 2014
9095447N Hav Madan Lal (Now JC-594550F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	01 Dec 2014
9096146W Hav Manhor Singh (Now JC-594551K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	01 Dec 2014
9096206A Hav Sanjay Kumar (Now JC-594552M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	01 Dec 2014
9096273L Hav Darshan Lal (Now JC-594553P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	01 Dec 2014
9096290L Hav Sanjay Kumar (Now JC-594554X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	01 Dec 2014
9096330F Hav Tilak Raj (Now JC-594555A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	01 Dec 2014
9094409L Hav Chanchal Ram (Now JC-594556H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 04 Dec 2014)	22 Dec 2014
9095606A Hav Subash Chander (Now JC-594557L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 13 Nov 2014)	01 Jan 2015
9096821X Hav Shakeel Ahmed (Now JC-594558N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	03 Jan 2015
9095505M Hav Suram Singh (Now JC-594559W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 06 Dec 2014)	30 Dec 2014
9096070F Hav Mohd Sayeed (Now JC-594560L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 08 Dec 2014)	10 Jan 2015
9096154P Hav Vijay Kumar (Now JC-594561N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 08 Dec 2014)	01 Jan 2015
9099330M Hav(Clk) Dombale Machindra Tukaram (Now JC-594562W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jan 2015)	01 Jan 2015
9097175X Hav Ram Paul (Now JC-594563Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	12 Jan 2015
9094306M Hav Shokat Ali (Now JC-594564F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Nov 2014)	12 Jan 2015
9094493W Hav Basharat Hussain Shah (Now JC-594565K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 11 Nov 2014)	30 Dec 2014
9094980W Hav Lekh Raj (Now JC-594566M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 14 Nov 2014)	16 Jan 2015

9095591H Hav Sham Lal (Now JC-594567P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Dec 2014)	12 Jan 2015
9096586K Hav Zakar Hussain (Now JC-594568X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 02 Dec 2014)	18 Jan 2015
9095495N Hav Karan Singh (Now JC-594569A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 04 Dec 2014)	26 Dec 2014
9096817P Hav Imtaiz Ahmed (Now JC-594570P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 04 Dec 2014)	08 Jan 2015
9094538L Hav Mohd Latif (Now JC-594571X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 06 Dec 2014)	03 Jan 2015
9094604H Hav Showkat Ahmad Bhat (Now JC-594572A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 06 Dec 2014)	30 Dec 2014
9094761P Hav Mohd Mushtaq (Now JC-594573H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 06 Dec 2014)	30 Dec 2014
9094779L Hav Mohd Asuf (Now JC-594574L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 06 Dec 2014)	30 Dec 2014
9094824M Hav Chamail Singh (Now JC-594575N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 06 Dec 2014)	30 Dec 2014
9097273X Hav Pawan kumar (Now JC-594576W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 13 Dec 2014)	12 Jan 2015
9096230W Hav Surinder Paul (Now JC-594577Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 14 Dec 2014)	12 Jan 2015
9095609N Hav Surjeet Singh (Now JC-594578F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 16 Dec 2014)	07 Jan 2015
9095631Y Hav Ashok Kumar (Now JC-594579K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 17 Dec 2014)	07 Jan 2015
9094678X Hav Paramjit Singh (Now JC-594580Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 20 Dec 2014)	06 Jan 2015
9094570A Hav Faiz Alam (Now JC-594581F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 24 Dec 2014)	07 Jan 2015
9094577K Hav Ishtaq Ahmed (Now JC-594582K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 24 Dec 2014)	12 Jan 2015
9094671N Hav Onkar Singh (Now JC-594583M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 25 Dec 2014)	06 Jan 2015
9094696A Hav Zakir Hussain (Now JC-594584P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 28 Dec 2014)	12 Jan 2015
9094924X Hav Nazak Hussain (Now JC-594585X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jan 2015)	12 Jan 2015
9095567M Hav Bashin Dass (Now JC-594586A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jan 2015)	01 Jan 2015
9095636X Hav Ram Paul Singh (Now JC-594587H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jan 2015)	07 Jan 2015
9095683P Hav Mool Raj (Now JC-594588L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jan 2015)	07 Jan 2015
9095696M Hav Ajay Kumar (Now JC-594589N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jan 2015)	07 Jan 2015

9095715M Hav Mast Ram (Now JC-594590H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jan 2015)	10 Jan 2015
9096846K Hav Mohd Ayoub (Now JC-594591L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jan 2015)	08 Jan 2015
9097533X Hav Shamsher Singh (Now JC-594592N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jan 2015)	12 Jan 2015
9097502X Hav Raban Kumar (Now JC-594593W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 06 Dec 2014)	29 Jan 2015
9094410A Hav Satnam Singh (Now JC-594594Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 06 Dec 2014)	29 Jan 2015
9097555W Hav Parveen Kumar (Now JC-594595F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 11 Dec 2014)	27 Jan 2015
9094642Y Hav Raj Ali (Now JC-594596K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 22 Dec 2014)	24 Jan 2015
9095709Y Hav Jang Bahadur (Now JC-594597M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 30 Dec 2014)	29 Jan 2015
9094706Y Hav Goverdhan Lal (Now JC-594598P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 31 Dec 2014)	23 Jan 2015
9096060X Hav Raj Kumar (Now JC-594599X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jan 2015)	29 Jan 2015
9097072Y Hav Jaswant Singh (Now JC-594600F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 07 Jan 2015)	24 Jan 2015
9096091X Hav Kaku Din (Now JC-594601K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 11 Jan 2015)	02 Feb 2015
9095685A Hav Uttam Singh (Now JC-594602M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Feb 2015)	01 Feb 2015
9101083L Hav (Clk) Arjun Singh (Now JC-594603P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Feb 2015)	01 Feb 2015
9098579M Hav (Clk) Rajiv Rnjan Singh (Now JC-594604X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Feb 2015)	02 Feb 2015
9098580F Hav (Clk) Bijendra Kumar (Now JC-594605A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Feb 2015)	01 Feb 2015
9101078A Hav (Clk) Bharat Kumar Sharma (Now JC-594606H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Feb 2015)	02 Feb 2015

VN RAVEENDRAN
Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in